

॥ श्रीः ॥

### श्री नृसिंहस्तुतिः (श्री नृसिंहाष्टकम्)

भोखण्डं वारणाण्डं परवरविरटं डम्पडम्पोरुडम्पं  
डि डिं डिं डिं डि डिं बं दहमपिदहमैर्जपद्मपद्मपैश्च ज्ञपै ।

तुल्यास्तुल्यास्तुतुल्याः धुमधुमधुमकैः कुङ्कुमाङ्कैः कुमाङ्कैः  
एतत्ते पूर्णयुक्तं अहरहकरहः पातु मां नारसिंहम् ॥ १

भोभृद्भोभृद्भुजज्ञं प्रलयरववरं प्रज्वलद् ज्वालमालं  
खर्जर्जं खर्जर्जुं खखचखचखचित् खर्जर्जुर्जर्जयं तम् ।  
भूमागं भोगभागं गगगगगगनं गर्दमत्सुग्रगण्डं  
स्वच्छं पुच्छं स्वगच्छं स्वजनजनननुतः पातु मां नारसिंहम् ॥ २

रानाम्रं गर्जमानं लघुलघुमकरां बालचन्द्रकदंष्टो  
हेमाम्भोजं सरोजं जटजटजटिलां जाह्यमानस्तुभीतिः ।  
दन्तानां बाधमानां खगटखगटबो भोजजानुः सुरेन्द्रो  
निष्प्रत्यूहं सराजा गहगहगहतः पातु मां नारसिंहम् ॥ ३

शङ्खं चक्रं च चापं परशुमिषुमसिं शूलपाशाङ्कुशार्द्धं  
बिभ्रन्तं वज्रखेटं हलमूसलगदाकुन्त्यमुत्पुग्रदृशम् ।  
ज्वालाकेशं त्रीनेत्रं ज्वलदनलनिभं हारकेयूभूषं  
बन्दे प्रत्येकरूपं परपदनिवसः पातु मां नारसिंहः ॥ ४

पादद्वन्द्वं धरित्री कटिविपुलतरो मेहमध्योङ्कमूर्द्धं  
नाभिर्ब्रह्माण्डसिन्धुः हृदयमपि भवो भृतविद्वत्समेतः ।  
दुश्क्रान्तं स्वबाहुं कुलिशनखमुखं चन्द्रसर्वाग्निनेत्रं  
वक्रं वह्निः सु विद्युत्सुरगणविजयः पातु मां नारसिंहः ॥ ५

ॐ नमो विष्णवे

## तुलसीपूजा

तुलस्युपाल्यान - तुलसीनामाकली - तुलसीपूजा-  
तुलसीविवाह - तुलसीस्तुत्यादिसङ्कलनात्मिका

## तुलसी पूजा

तुलसी उपाक्षयानम् तुलसी नामावली,  
पूजालिङ्गम्, विवाहम्, मुरणम्,  
तुलसीसंतोषत्तिरन्तकर्म अनुनादियतु.

तेऽकुत्तवरः:

वेत्य S.V. राताकिरुद्धन्न सांस्थिरी  
प्रीरांगकम्

बेळीयिट्टिवोर :

श्री महाबेपरियवाळं डिरस्ट  
बेंकन्नर - 560 054.

(सर्वतारी)

(2008)

## துளஸி பூஜை - அறிமுகம்

தெய்வத்தை வழிபடப் பல முறைகள் உண்டு. வழிபடப் பெறுகிற தெய்வத்தை உருவகப்படுத்த பல மூர்த்திகள் உண்டு. யந்திரம், தந்திரம், மந்திரம், ஸ்தோத்திரம், நாமங்கள் என்றவாறு மனம் வரைகிற மூர்த்திகள் உண்டு. மனத்தால் உருவகப்படுத்தப்பட்டதை உருவமாகச் சித்திரமும் விக்ரஹமும் காட்டும். வடிவற்றதை வடிவற்றதாகவே காட்டி அதில் வடிவத்தை மனத்தால் உருவகப்படுத்த விங்கம், ஸாலக்ராமம் போன்றவை உதவும். அதே போன்று கைலாஸம் பழனி திருமலை (ஏழுமலை) என்றும் கங்கை காவேரி புஷ்கரம் என்றும் அரசமரம் வேப்பமரம், வில்வமரம், துளஸி என்றும் மலைகளும் ஆறுகளும் குளங்களும் தாவரங்களும் தெய்வத்தை முன் நிறுத்தும். புனித மிக்க கேஷத்திரங்களும் அவரவரது முன்னேர் வசித்த ஊர்களும் தெய்வத்தை முன் நிறுத்துபவை.

அரசமரம் மும்மூர்த்திகளை முன் நிறுத்தும். நாகதேவதையும் விநாயகரும் அதனடியில் புலப்படுவர். பல கேஷத்திரங்களில் முதன் முதலில் தெய்வம் வெளிப்பட்ட இடம் மரத்தடியே. கடம்பு, வன்னி, புன்னை, வேம்பு, ஆல், பாரிஜாதம் முதலியவை பல கேஷத்திரங்களின் தோற்றுவாய், லவிதா கதம்பவன் வாளினீ, லக்ஷ்மிக்கு வில்வமரம் தாய், துளஸீ விஞ்ணுவின் மார்பில் கெளஸ்துபத்திற்கும் லக்ஷ்மிக்கும் இடையே வசிப்பவள். தாழும்பூ பார்வதிக்குப் பிரியமானது. பொய்ச்சாக்கி சொன்னதால் அதனை சிவன் ஏற்படில்லை. துளஸீ விஞ்ணுவிற்கு பிரியமானவள். லக்ஷ்மியின் உயிர்த் தோழி. குறை காண்பதால் தவிர்ப்பதும் நிறை காண்பதால் உண்டு. குறை காண்பதால் தவிர்ப்பதும் நிறை காண்பதால் ஏற்பதும் மனத்தின் விசித்திரப் போக்கு. அது தெய்வத்திடமும் காணப்பெறுகிறது. எல்லாவற்றையும் படைத்துக் காத்து வருவதும் அனைவருக்கும் அன்னையும் பிதாவுமான தினிக்கிறது போலும். தெய்வத்தைப் பற்றிய அறிமுகமே ஏதோ ஒரு அறிவாளி கண்ட காட்சியை அடிப்படையாகக் கொண்டதே.

பாரதத்தின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் துளஸிமாடம் வீட்டின் அடையாளம். இவ்விடத்தில் தெய்வ நம்பிக்கை உள்ளவர் வசிக்கிறார் என்பதைக் குறிப்பிடுகிற அடையாளம். துளஸி மாடத்தின் அருகே கோலம் போட்டு விளக்கேற்றி விடியற்காலையில் வழிபடுவது இந்தியப் பெண்ணின் முதல் பணி. விடியற்காலையில் வாசவில் நீர் தெளித்து, சுத்தம் செய்து கோலமிட்டு லக்ஷ்மியை வீட்டின்காவல் தெய்வமாக வரவேற்று மனத்தால் வழிபட்டதும் துளஸிமாடத்தின் அடியில் கோலமிட்டு வழிபடுவது பெண்களின் முதற் பணியாக இருக்கும். ஸெனமங்கலம்யமும் சிரும் சிறப்பும் பெற்று நல்வாழ்வை நாடுவதன் அடையாளப் பணி இது.

துளஸியின் சிறப்பைப் பல புராண இதிஹாஸங்கள் விளக்குகின்றன. தேவீபாகவதத்திலுள்ள வரலாறு இங்கு தரப் பெற்றுள்ளது. துளஸிச் செடி மருத்துவத்தில் நோய் நீக்கப்பல வகைகளில் பயன்படுகிறது.

துளஸி தெய்வாம்சம் பொருந்திய செடியானதால் தூய்மையுடன் அதனை அணுகுவர். விஷ்ணுவின் வழிபாட்டிற்கு மட்டுமே அதனைப் பயன்படுத்துவர். அதனையே தெய்வமாக வழிபடுவதாயின் தனி மாடத்தில் பயிராக்கி வளர்த்து அழுகுபடுத்துவர். அதிலிருந்து இலை பறிப்பதில்லை. விஷ்ணுவின் வழிபாட்டிற்குத்துளஸியைத் தனியே வளர்ப்பர். அது தானே தன் விதைகளைத் தெளித்துக் காடாக மண்டி விடுவதால் பிருந்தா (கூட்டமாக வளர்பவள்) பிருந்தாவனம், (காடாகப் படர்பவள்) என்று வழங்குவர். தூறவிகளை உயிர் பிரிந்தபின் அடக்கம் செய்து அதன் மீது தூய்மை கெடாதிருக்கு துளஸிமாடம் அமைப்பர். அதனால் அவ்விடத்தைப் பிருந்தாவனம் எனபர்.

விஷ்ணுவின் வழிபாட்டில் துளஸி இன்றியமையாதது. அதுவே வைஷ்ணவ ஆலயங்களில் வழிபடுபவருக்கு பிரஸாதமாகக் கிட்டும். துளஸி மாடத்தை எண்ணற்ற தடவை வலம் வருவதும் வணங்குவதும் மரபாகும். தூய்மையுடனிருப்பவரே துளஸியைப் பறிப்பர். துளஸி மரயங்கள் மாங்கலம் தேவியானதால் அதனைப் பெண்கள்

பறிப்பதில்லை. துளசிச் செடி இருக்குமிடத்தில் விண்ணு உள்ளார் என்று நம்புவர். பூங்கொத்துடன் நான்கு இதழ்கள் கொண்ட கொத்து பறிப்பதற்கு ஏற்றது. அது கிட்டாவிடில் நான்கு இலைகளுள்ள கொத்து அல்லது தனி இலை நல்லது. வரண்ட நாட்களில் அதன் இலையற்ற குச்சியும் ஏற்றதே. அதுவும் கிட்டாத போது செடியின் அடியின் உள்ள மண்ணற்றது. மாதவிடாய் காலம் (வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்காக) தள்ளிநேர விரும்புபவர் துளசியிடம் வேண்டிக் கொண்டு அதனடியிலுள்ள மண்ணைத் துணியில் முடிந்து கட்டிக்கொள்வதுண்டு.

துளை காய்ந்தாலும் வழிபாட்டிற்கு உகந்ததே. ஒரு தடவை உபயோகித்ததை நிர்மாலிய தோஷம் கருதி மறுபடி பயன்படுத்தக் கூடாதென்ற நியமம் துளைக்கு இல்லை. வழிபாட்டில் ஒருத்தடவை பயன்பட்டதை நீரில் அலம்பி மறுபடி முக்யச் சடங்குகளிலும் பயன்படுத்துவார். முன்னேர் குறித்துச் செய்கிற சிராத்தச் சடங்குகளில் துளை முக்கிய இடம் பெறும். செய்கிற சிராத்தச் சடங்குகளில் துளையின்றியின் புரிந்த சிராத்தம் பயனற்றுதென்பார். விஷ்ணுவின் பிரஸாதமாக துளையை உட்கொள்ளுவதும், துளை இட்ட நீரைப் பருகுவதும் அதில் நீராடுவதும் மிகப் புனிதமானது. துளை வழிபாட்டில் உள்ள குறைகளையும் தவறுகளையும் துளை சீராக்கும்.

அமாவாசை, பெளர்ணமி, செவ்வாய், வெள்ளி, ஞாயிறு, மாதப்பிறப்பு, துவாதசி, பிறப்பிறப்புத் தீட்டு நாட்கள், உடலிலும் உடையிலும் தூய்மைக் குறைவு, எனத் தகாத நிலைகளில் துளாலியைப் பறிப்பதில்லை. துளாலி கிட்டாதபோது அதனை நினைத்தாலும் அதன் நாமங்களைக் கூறினாலும் போதுமானது. பாபம், போக்க, தூய்மை பெற, புனிதம் கூட, துளாலி உதவும்.

துள்ளியை வலது காதில் செருகிக் கொள்வர். உடலில் வலது காது தூய்மை மிக்கது. காதில் நான்கு இதழ்கள், வாயில் ஒன்று, தொப்புளில் ஒன்று, தலையில் ஒன்று, பருகும் நீரில் ஒன்று, உணவில் ஐந்து, உண்டபின் மூன்று எனப் பதினெட்டு மூன்று, உணவில் ஐந்து, உண்டபின் மூன்று எனப் பதினெட்டு இதழ்களைத் தினமும் ஏற்பர்.

கிரகணத்தன்று எண்ணெய் பூசிக் கொள்வதில்லை. இவ்வாறு எண்ணெய் பூசக் கூடாத நாட்கள் பல உண்டு. துளையின் தளத்தைப் போட்ட எண்ணெய் என்றும் பூசுத்தக்கெதன்பர். துளைவளருமிடத்தில் கங்கை முதலிய புனித நதிகளும் விஷ்ணு முதலிய அனைத்து தெய்வங்களும் என்றும் வசிப்பதால் மிக மிகப்புனித இடமாகிறது.

இவ்வாறு துளையைப் பற்றிய சிறு சிறு தகவல்கள் இந்துவில் ஆங்காங்குள்ளன. துளை பற்றிய வரலாற்றுக்களைதேயே தவத்தின் பெருமை, பெண்மையின் சிறப்பு, ஸாக்கிராமம், கண்டகிநதி முதலியவற்றைப் பற்றிய பல அரிய தகவல்களும் கிடைக்கின்றன.

தினமும் துளையை வழிபடுகிற எளிய முறைகள், விரிவுள்ள முறைகள் விஷ்ணுவுடன் துளைக்கு மணம் செய்வித்தல், சாந்திரமானப்படி கார்த்திக சக்ல ஏகாதசி - துவாதசிகளில் விஷ்ணுவின் திருப்பள்ளியழுச்சி (பிரபோதன உத்ஸவம்) துளை - விஷ்ணுவின் நாமாவளிகள் - துளையின் ஸ்தோத்திரங்கள் எனப் பல அரிய தகவல்கள் இதில் இடம் பெறுகின்றன.

பண்பாடும் அதற்குரிய வாழ்க்கை முறையும் மனிதனைச் சீரமைப்பவை. துளையின் வழிபாடு இதில் முக்கியமான பங்கை ஏற்றுள்ளது. மிகமிகப் புனிதமான பணிகளில் இறங்கிச் சேவை புரிகிற மஹாபெரியவாள் டிரஸ்ட் இதனைப் பரமஷூஜ்ய ஶ்ரீ மஹாபெரியவாளின் நினைவில் காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஜகத் குரு பூஜ்ய ஶ்ரீ சங்கராசார்ய ஶ்ரீ சரணர்களின் அருளாசியின் துணைகொண்டு வெளியிடுகிறது. இறையருள் ஒவ்வொரு எழுத்திலும் கணத்திலும் நிறைந்து நின்று நம்மை நேர்மையும், சீர்மையும், வாய்மையும் பெறச் செய்து காக்க வேண்டுகிறோம். இதற்குப் பலவகைகளில் ஆதார நூல் தந்து உதவிய நல்லுள்ளங்களுக்கு நம் நன்றியும் நமஸ்காரங்களும் உரித்தானவை.

22. வீரேசுவரம் அப்ரேஸ்ரோடு.

S.V. ராதாகிருஷ்ண

சால்டி ஶ்ரீரங்கம், 27.3.2008

Ph: 0431-2432564,

## விஷயானுக்ரமणிகா - பொருளடக்கம்

—★—

பக்கம்

|  |     |
|--|-----|
| ஶ्रீ துலஸ்யுபாரவ்யானம் - தூளலி உபாக்க்யானம் .....        | 1   |
| துலசீநாமாஷகஸ்தோत்ரம், நாமாவலி: -                         |     |
| தூளலி நாமாஷகஸ்தோத்திரம்- நாமாவளி .....                   | 90  |
| துலசீநாமஷாட்சகஸ்தோத்ரம், நாமாவலி:                        |     |
| தூளலீ நாம ஷேஷாட்சகஸ்தோத்திரம் - நாமாவளி .....            | 90  |
| துலஸ்யஷ்டோத்ரஶதனாமஸ்தோத்ரம் - நாமாவலி:                   |     |
| தூளலீ அஷ்டோத்தரசத நாம ஸ்தோத்திரம் -நாமாவளி .....         | 91  |
| கேಶவாடி஦்வாदஶநாமாவலி: - கேசவாதிதுவா தசநாமாவளி .....      | 97  |
| விஷ்ணுசதுர்விஶதிநாமாவலி: - விஷ்ணுசதுர் விம்சதி நாமாவளி . | 98  |
| ஶ்ரீ விஷ்ணுவஷ்டோத்ரஶதனாமாவலி:                            |     |
| பூர்ண விஷ்ணு அஷ்டோத்தர சத நாமாவளி .....                  | 99  |
| துலசீலபூஜா - १ தூளலீ லகு பூஜா-1 .....                    | 101 |
| துலசீபூஜா- २- தூளலீ பூஜா -2 .....                        | 105 |
| துலசீபூஜா- ३- தூளலீ பூஜா -3 .....                        | 107 |
| வூந்஦ாவனபூஜா- (துலசீவிஷ்ணுபூஜா)                          |     |
| பிருந்தாவன பூஜா (தூளலீவிஷ்ணுபூஜா) .....                  | 117 |
| துலசீபூஜாவி஧ி: - தூளலீபூஜா விதி .....                    | 127 |
| துலசீஸ்துதி: - १- தூளலீஸ்துதி-1 .....                    | 128 |

|  |     |
|--|-----|
| <b>துலसీస్తుతి:</b> - २ - தூளை் ஸ்துதி 2 புண்டரீகர் இயற்றியது .....                                      | 130 |
| <b>துலஸ్யுபనிஷத्</b> - தூளை் உபநிஷத் .....   | 132 |
| <b>துலసీస్తవராஜ:</b> - தூளை் ஸ்தவராஜம் .....   | 134 |
| <b>துலసీகவசம்</b> - १ - தூளை் கவசம் -1 .....   | 136 |
| <b>துலసీ கவசம்</b> - २ - தூளை் கவசம் -2 .....  | 138 |
| <b>துలసీவివாஹ:</b> - தூளை் விவாஹம் .....   | 140 |
| <b>வृந்஦ாவனே ஹரிப்ரோதனவி஧ி:</b> ப்ரோதனஸ்தோत்ரம்<br>பிருந்தாவனத்தில் ஹரிப்பிரோதனம் - அதற்கான ஸ்துதி ..... | 143 |
| <b>துலసీ விவாஹ வி஧ி:</b> - தூளை் விவாஹமுறை .....   | 145 |
| <b>வृந்஦ாவனாடஶித்ரம்</b> - ப்ருந்தாவனத்வாதசீவரதம் .....  | 148 |
| <b>பிரத்திணநமஸ்காரவி஧ி:</b> - ப்ரதக்ஷிணை நமஸ்கார முறை .....  | 151 |
| <b>துலసీமஹிமா</b> - யாதை நியமங்கள்<br>தூளை்யீன் பெருமை, தூளை் பறிப்பதில் நியமம் .....                    | 152 |
| <b>துலసీசிஹ்ஸனாமாவலி:</b> - தூளை் ஸஹஸ்ர நாமாவளி: .....   | 155 |

## तुलसीपूजा

श्री तुलस्युपारव्यानम्

(श्रीमद्देवीभागवते नवमस्कन्ये 17-25 अध्यायाः)

पूर्णतुलालौउपाक्षयानम्

(त्रिवैपाकवतम् ७वत्तु लकन्तम् 17-25 अथतियायनंकर्त्ता)

(नारायापणा रुषी - नारात लम्बवातम्)

सप्तदशोऽध्यायः

श्री नारायण उवाच—

धर्मेभजस्य पद्मी च माधवीति च विश्रुता ।

नृपेण सार्धं साऽऽरामे रेमे च गन्धमादने ॥ १

शास्यां रतिकर्णी कृत्वा पुष्पचन्दनचर्चिताम् ।

चन्दनालिससर्वज्ञी पुष्पचन्दनवायुना ॥ २

स्त्रीरक्षमतिचार्वज्ञी रक्षभूषण भूषिता ।

कामुकी रसिका सृष्टा रसिकेन च संसुता ॥ ३

सुरतेविरतिनास्ति तयोः सुरतिविज्ञयोः ।

गतं दैवं वर्षशतं न ज्ञातं च दिवानिशम् ॥ ४

ततो राजा भृतिं प्राप्य सुरताद्विरराम च ।

कामुकी सुन्दरी किञ्चिन्न च तृप्तिं जगाम सा ॥ ५

दधार गर्भं सा सद्यो देवादब्दशतं सती ।

श्रीगर्भा श्रीयुता सा च संबभूव दिनेदिने ॥ ६

शुभे क्षणे शुभदिने शुभयोगे च संयुते ।  
 शुभलग्ने शुभांशे च शुभस्वामि ग्रहान्विते ॥ ७  
 कार्तिकीपूर्णिमायां तु सितवारे च पाद्मज ।  
 सुषाव सा च पद्मांशां पद्मिनीं तां मनोहराम् ॥ ८  
 शरत्पार्वणचन्द्रास्यां शरत्पंकजलोचनाम् ।  
 पक्वबिंबाधरौष्टीं च पद्मयन्तीं सस्मितां गृहम् ॥ ९  
 हस्तपादतलारक्तां निष्ठनाभिं मनोरमाम् ।  
 तदधस्तिवलीयुक्तां नितम्बयुगवर्तुलाम् ॥ १०  
 शीते सुखोष्णसर्वाङ्गीं ग्रीष्मे च सुखशीतलाम् ।  
 इयामां सुकेऽर्णीं रुचिरां न्यग्रोधपरिमण्डलाम् ॥ ११  
 पीतचम्पकवणीभां सुन्दरीष्वेव सुन्दरीम् ।  
 नरा नार्यश्च तां दृष्ट्वा तुलनां दातुमक्षमाः ॥ १२  
 तेन नाम्ना च तुलसीं तां बदन्ति मनीषिणः ।  
 सा च भूमिष्ठमात्रेण योग्या स्त्रीप्रकृतिर्था ॥ १३  
 सर्वैर्निषिद्धा तपसे जगाम बदरीवनम् ।  
 तत्र देवाब्दलक्ष्मं च चकार परमं तपः ॥ १४  
 मम नारायणः स्वामी भवितेति च निश्चिता ।  
 ग्रीष्मे पञ्चतपाः शीते तोयवस्त्रा च प्रावृष्टि ॥ १५  
 आसनस्था वृष्टिधारां सहंतीति दिवानिशम् ।  
 विंशत्सहस्रवर्षं च फलतोयाशना च सा ॥ १६  
 त्रिंशत्सहस्रवर्षं च पत्राहारा तपस्त्विनी ।  
 चत्वारिंशत्सहस्राब्दं वाय्वाहारा कृशोदरी ॥ १७

ततो दशसहस्राब्दं निराहारा बभूव सा ।  
निर्लेख्यां चैकपादस्थां दृष्ट्वा तां कमलोद्धवः ॥ १८

समाययौ वरं दातुं परं बदरिकाश्रमम् ।  
चतुर्भुखं च सा दृष्ट्वा ननाम हंसवाहनम् ॥ १९

तामुवाच जगत्कर्ता विधाता जगतामपि ।  
ब्रह्मोवाच—  
वरं वृणीष्व तुलसि यत्ते मनसि वांछितम् ॥ २०

हरिभक्तिं हरेर्दस्यमजरामरतामपि ।  
तुलस्युवाच—  
शृणु तात प्रवक्ष्यामि यन्मे मनसि वांछितम् ॥ २१

सर्वज्ञस्यापि पुरतः का लज्जा मम साम्प्रतम् ।  
अहं तु तुलसी गोपी गोलोकेऽहं स्थिता पुरा ॥ २२

कृष्णप्रिया किङ्करी च तदंशा तत्सखी प्रिया ।  
गोविन्दरति संयुक्तामतृप्तां मां च मूर्छिताम् ॥ २३

रासेश्वरी समागत्य ददर्श रासमण्डले ।  
गोविन्दं भर्त्सयामास मां शशाप रुषाऽन्विता ॥ २४

याहि त्वं मानवीं योनिमित्येवं च शशाप ह ।  
मामुवाच च गोविन्दो मदंशं च चतुर्भुजम् ॥ २५

लभिष्यसि तपस्तस्वा भारते ब्रह्मणो वरात् ।  
इत्येवमुक्त्वा देवेशोऽप्यन्तधनं चकार सः ॥ २६

देव्या भिया तनुं त्यक्त्वा प्राप्तं जन्म गुरो भवि ।  
अहं नारायणं कान्तं शान्तं सुन्दरविग्रहम् ॥ २७

साम्प्रतं तं पतिं लब्धुं वरये त्वं च देहि मे ।

बह्मदेव उवाच—

सुदामा नाम गोपश्च श्रीकृष्णाङ्गसमुद्भवः ॥ २८

तदंशश्चातितेजस्वी लेमे जन्म च भारते ।

साम्प्रतं राधिकाङ्गापादनुवंशसमुद्भवः ॥ २९

शङ्खचूडेति विख्यातस्त्वैलोक्ये न च तत्समः ।

गोलोके त्वां पुरा दृष्ट्वा कामोन्मथितमानसः ॥ ३०

विलम्बितुं न शशाक राधिकायाः प्रभावतः ।

स च जातिस्मरस्तस्मात्सुदामाऽभूच्च सागरे ॥ ३१

जातिस्मरा त्वमपि सा तथा जानासि सुन्दरि ।

अधुना तस्य पद्मी त्वं संभविष्यसि शोभने ॥ ३२

पश्चान्नारायणं शान्तं कान्तमेव वरिष्यसि ।

शापान्नारायणस्यैव कलया दैवयोगतः ॥ ३३

भविष्यति वृक्षरूपा त्वं पूता विश्वपावनी ।

प्रधाना सर्वपुष्पेषु विष्णुप्राणाधिका भवेः ॥ ३४

त्वया विना च सर्वेषां पूजा च विफला भवेत् ।

वृन्दावने वृक्षरूपा नामा वृन्दावनीति च ॥ ३५

त्वत्पत्रैर्गोपिगोपाश्च पूजयिष्यन्ति माधवम् ।

वृक्षाधिदेवीरूपेण सार्वं कृष्णेन सन्ततम् ॥ ३६

विहरिष्यसि गोपेन स्वच्छन्दं मद्वरेण च ।

इत्येवं वचनं श्रुत्वा सस्मिता हृष्टमानसा ॥ ३७

प्रणनाम च ब्रह्माणं तं किंचिदुवाच सा ॥

तुलस्युवाच—

यथा मे द्विभुजे कृष्णे वांछा च इयामसुन्दरे ॥ ३८

सत्यं ब्रवीमि हे तात न तथा च चतुर्भुजे ।

अतृपाऽहं च गोविन्दे दैवात् शृङ्गारभज्जतः ॥ ३९

गोविन्दस्यैव वचनात्प्रार्थयामि चतुर्भुजम् ।

त्वत्प्रसादेन गोविन्दं पुनरेव सुदुर्लभम् ॥ ४०

ध्रुवमेव लभिष्यामि राधाभीतिं प्रमोचय ।

ब्रह्मदेव उवाच—

गृहाण राधिकामन्त्रं ददामि षोडशाक्षरम् ॥ ४१

तस्याश्च प्राणतुल्या त्वं मद्वरेण भविष्यसि ।

शृङ्गारं युवयोर्गोप्यं न ज्ञास्यति च राधिका ॥ ४२

राधासमा त्वं सुभगे गोविन्दस्य भविष्यसि ।

इत्येवमुक्त्वा दत्त्वा च देव्या वै षोडशाक्षरम् ॥ ४३

मन्त्रं चैव जगद्ध्राता स्तोत्रं च कवचं परम् ।

सर्वं पूजाविधानं च पुरश्चर्याविधिक्रमम् ॥ ४४

परां शुभाशिषं चैव पूजां चैव चकार सा ।

बभूव सिद्धा सा देवी तत्प्रसादाद्रमा यथा ॥ ४५

सिद्धं मन्त्रेण तुलसी वरं प्राप यथोदितम् ।

बुभुजे च महाभोगं यद्विश्वेषु च दुर्लभम् ॥ ४६

प्रसन्नमनसा देवी तत्याज तपसः कङ्गम् ।

सिद्धे फले नराणां च दुःखं च सुखमुत्तमम् ॥ ४७

भुक्त्वा पीत्वा च संतुष्टा शयनं च चकार सा ।

तल्पे मनोरमे तत्र पुष्पचन्दनचर्चिते ॥ ४८

इति श्रीदेवीभागवते नवमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः ।

—★—

நாராயணன் நாரதரிடம் கூறுகிறார் - தர்மத்வஜரின் மனைவி மாதவி. மிகவும் அழகி. இருவரும் இணைந்து பல்லாண்டுகள் காமக் கேளிக்கைகளில் ஈடுபட்ட பின்னரும் மன நிறைவுபெறவில்லை. மாதவி கருவற்று நல்லவேளையில் கார்த்திகை பெளர்ணமியன்று சக்ரவாரத்தில் ஈக்ஷமியின் அம்சத்தில் மிக அழகிய பெண்ணைப் பெற்றார்.

சிவந்த கை கால்கள், உள்ளடங்கிய தொப்புள், வயிற்றில் மூன்று முடிப்புகள், வட்டப்புட்டச் சைதைகள், குளிர்காலத்தில் கதகதப்புடன் கோடையில் இதமான குளிர்ச்சியுடன் உள்ள மேணி, மஞ்சள் சம்பகப்பூ நிறம், அழகிகளுக்குள் அழகி, ஆண்களும், பெண்களும் மெச்சுகிற அழகு கொண்டதால் மதிப்பிட முடியாத அழகியானதால் துள்ளி என்று பெயரிட்டனர். பூமியில் பட்டவுடனேயே வயதிற்கு வந்த பெண் போல் பலர்த்துத்தும் தவத்திற்காக பதரீவெனம் சென்றார். அங்கு ஈக்ஷம் தேவ ஆண்டுகள், தவமிருந்து நாராயணனே எனக்குக் கணவர் என்ற உறுதியுடன் கோடையில் ஜெந்து அக்னிகள் (நான்கு புறங்களிலும் நான்கு அக்னி குண்டங்கள், வானில் ஸுலர்யன் என்ற அக்னி குண்டம்) நடுவே தவம் புரிந்தாள். குளிர் நாளில் நீரில் நனைந்த ஆடையுடனும், மழை நாளில் மழையில் அமர்ந்தும் தவமிருந்தும் பழழும் நீரும் உணவாக இருபதாயிர மாண்டுகளும், இலையுணவுடன் முப்பதாயிரம் ஆண்டுகளும் காற்றையே உணவாகக் கொண்டு நாற்பதாயிரம் ஆண்டுகளும், உணவின்றி பத்தாயிரம் ஆண்டுகளும் ஒருவித குறிக்கோஞுமின்றி, ஒற்றைக் காலில் நின்று தவமிருந்தாள். அவன் விரும்பியதை அளிக்க பதரிகாச்சரமத்திற்குப் பிரும்மா வந்தார். ஹரிக்குதாஸியாய் இருப்பதையும் வரமாக அளிக்க முன் வந்தார்.

நான்துள்ளி என்ற கோபி, முன்னர் கோகுலத்திலிருந்தேன். கிருஷ்ணனுக்கு இனியவள், பணியாள், தோழி; கோவிந்தருடன் ரமித்துக்கொண்டிருந்த என்னை ராஸமண்டலத்தில் கண்ட

ராஸேசவரியான ராதை கோவிந்தரையும் மிரட்டி என்னையும் மனித இனத்தில் பிறப்பாய் எனச் சபித்தாள். கோவிந்தரோ எனக்கு ஆறுதலளித்து பாரதத்தில் தவமிருந்து என் அம்சத்தில் தோன்றுகிற நான்கு கைகளுள்ள அழகனு கிருஷ்ணனைக் கணவனுக அடைவாய் என அருளி மறைந்தார். ராதையிடம் பயந்து உடலை விட்டுப் பூமியில் பிறந்தேன். நாராயணனைப் பதியாகப் பெறுவதையே வரமாக வேண்டுகிறேன் என்றார்.

ப்ரஹ்மா கூறினார் - “ஸ்வாதாமா என்ற கொபன் கிருஷ்ணனின் அம்சத்தில் பிறந்தவன். ராதையின் சாபத்தால் அஸ்வானுக தனுவம்சத்தில் பிறந்துள்ளான். கோலோகத்தில் உன்னைக் கண்டு காம வசப்பட்டு ராதையின் மேலாண்மையால் காதல் நிறைவருமல் இப்போது ‘சங்க சூடன்’ என்ற பெயர் கொண்டவனுகக் கடவில் தோன்றியுள்ளான். முன் பிறவியை அவன் அறிவான். நீயும் அறிவாய். இப்போது அவன் மனைவியாக ஆவாய்.

பிறகு நாராயணனையே கணவனுக அடைவாய் நாராயணனின் சாபத்தால் விதிக்கு வசப்பட்டு அவரது அம்சம் பெற்றவளாக ‘துளை’ என்ற மரமாகத் தோன்றுவாய். பூக்களில் சிறப்பு பெற்று, விஷ்ணுவிற்கு உயிருக்கு இனியாளாவாய். உன்னை நீக்கிச் செய்த விஷ்ணு வழிபாடு பலன் தராது. நீ வளருமிடம் பிருந்தா எனவும், பிருந்தாவனி என்றும் அழைக்கப்படும். உன் இதழ்களால் கோபரும், கோபியரும் மாதவனை வழிபடுவர். அந்தச் செடியின் தேவதா சக்தியாக விருப்பப்படி கிருஷ்ணனுடன் லீலை புரிவாய்”. ப்ரஹ்மாவிடமிருந்து இவ்வாறு வரம் பெற்ற துளை மனம் நிறைந்து பிரும்மாவை வணங்கினார். “இரு கைகளுள்ள க்ருஷ்ணனிடம் உள்ள ஈடுபாடு நான்கு கைகள் உள்ளவரிடம் எனக்கு இல்லை. அவருடன் புரிந்த காமக் கேளிக்கை முழுமையடையாமல் தடைபட்டது. உமது அருளால் ராதையிடம் பயமின்றி நான் கிருஷ்ணனை அடைவேன் என்றார்.

“பிரும்மாதுளையிடம் கூறினார் - ராதையின் மந்த்ரத்தை உபதேசிக்கிறேன். இதை ஜபிக்க ராதை உன்னை உயிருக்குயிராய் மதிப்பாள். கிருஷ்ணனுக்கும் உனக்கும் இடையே நேர்கிற காம

लौलिये अवर्णं अन्तिमाट्टार्णं. कोविन्तनुक्तु रातेतक्तु  
ऽप्पानवालाक उन्नीटम् प्रियेमे उन्नाकुम्'' एनकं कूर्णि  
16 अस्त्रमुलाराता मन्त्ररम् लैत्तोत्तिरम् कवशम् पूज्जिमुरै,  
मन्त्रिर लित्ति मुरै एन अजेत्तेयुम् उपतेचित्तु नल्लाचि  
वम्बन्किगुरं अवंवारु तुलाली रातेये वम्बिपट्टु लक्ष्मिक्तु  
स्टाण नीलै बेत्तरुं. मनम् निरन्तरालं तवत्तालं एर्पट्ट  
सेओर्वम् नैन्कियतु. उन्नुकलीत्तु स्यन्तत्त अलंकरित्तार्णं.

—★—

## अष्टादशोऽध्यायः

श्री नारायण उवाच—

तुलसी परितुष्टा च सुष्वाप हृष्टमानसा ।  
नवयौवसम्पन्ना वृषध्वजवराङ्गना ॥ १  
चिक्षेप पञ्चबाणश्च पञ्चबाणश्च तां प्रति ।  
पुष्पायुधेन सा दग्धा पुष्पचन्दनचर्चिता ॥ २  
पुलकाञ्चित्सवरङ्गी कम्पिता रक्तलोचना ।  
क्षणं सा शुष्कतां प्राप क्षणं मूर्छामिवाप ह ॥ ३  
क्षणमुद्भिगतां प्राप क्षणं तंद्रां सुखावहाम् ।  
क्षणं च दहनं प्राप क्षणं प्राप प्रसन्नताम् ॥ ४  
क्षणं सा चेतनां प्राप क्षणं प्राप विषण्णताम् ।  
तत्तिष्ठन्ती क्षणं तल्पादूर्गच्छन्ती निकटे क्षणम् ॥ ५  
भ्रमन्ती क्षणमुद्भेगानिवसन्ती क्षणं पुनः ।  
क्षणमेव समुद्भेगात्सुष्वाप पुनरेव सा ॥ ६  
पुष्पचन्दनतल्पं च तद्भूवातिकण्टकम् ।  
विषहारि सुखं दिव्यं सुन्दरं च फलं जलम् ॥ ७

निलयं च बिलाकारं सूक्ष्मवस्त्रं हुताशानः ।  
 सिन्दूरपत्रकं चैव व्रणतुल्यं च दुःखदम् ॥ ८  
 क्षणं ददर्श तन्द्रायां सुवेषं पुरुषं सती ।  
 सुन्दरं च युवानं च सस्मितं रसिकेश्वरम् ॥ ९  
 चन्दनोक्षितसर्वज्ञं रत्नं भूषणं भूषितम् ।  
 आगच्छन्तं माल्यवन्तं पिबन्तं तन्मुखाम्बुजम् ॥ १०  
 कथयन्तं रतिकथां ब्रुवन्तं मधुरं मुहुः ।  
 संभुक्तवन्तं तल्पे च समाश्छिष्यन्तमीप्सितम् ॥ ११  
 पुनरेव तु गच्छन्तमागच्छन्तं च सञ्चिधौ ।  
 यान्तं क यासि प्राणेश तिष्ठेत्येवमुवाच सा ॥ १२  
 पुनश्च चेतनां प्राप्य विललाप पुनः पुनः ।  
 एवं सा यौवनं प्राप्य तस्थौ तत्रैव नारद ॥ १३  
 शङ्खं चूडो महायोगी जैगीषव्यान्मनोहरम् ।  
 कृष्णमन्त्रं च संप्राप्य कृत्वा सिद्धं तु पुष्करे ॥ १४  
 कवचं च गले बध्वा सर्वमज्जलमज्जलम् ।  
 ब्रह्मणश्च वरं प्राप्य यत्ते मनसि वाञ्छितम् ॥ १५  
 आज्ञाया ब्रह्मणः सोऽपि बदरीं च समाययौ ।  
 आगच्छन्तं शङ्खचूडं ददर्श तुलसी मुने ॥ १६  
 नवयौवनसंपन्नं कामदेवसमप्रभम् ।  
 श्वेतचम्पकवणीभिं रत्नं भूषणं भूषितम् ॥ १७  
 शरत्पार्वणचन्द्रास्यं शरत्पंकजलोचनम् ।  
 रत्नसारविनिर्माणविमानस्थं मनोहरम् ॥ १८

रत्नकुण्डलयुगमेन गण्डस्थलविराजितम्।  
 पारिजातप्रसूनानां मालावन्तं च सुस्मितम्॥१९  
 कस्तूरिकुङ्कुमायुक्तसुगन्धिचन्दनान्वितम्।  
 सा दृष्ट्वा सन्निधावेन मुखमाच्छाद्य वाससा ॥ २०  
 सस्मिता तं निरीक्षन्ती सकटाक्षं पुनः पुनः।  
 बभूवातिनम्रमुखी नवसंगमलज्जिता ॥ २१  
 शरदिन्दुविनिन्दैकस्वमुखेन्दुविराजिता।  
 अमूल्यरत्ननिर्माणयावकावलिसंयुता ॥ २२  
 मणीन्द्रसारनिर्माणकणान्मञ्जीररञ्जिता।  
 दधती कबरीभारं मालतीमाल्यसंयुतम् ॥ २३  
 अमूल्यरत्ननिर्माणमकराकृतिकुण्डला।  
 चित्रकुण्डलयुगमेन गण्डस्थलविराजिता ॥ २४  
 रत्नेन्द्रसारहारेण स्तनमध्यस्थलोज्जवला।  
 रत्नकङ्कणकेयूर शङ्खभूषणभूषिता ॥ २५  
 रत्नाङ्गुलीयकैर्दिव्यैरङ्गुल्यावलिराजिता।  
 दृष्ट्वा तां ललितां रम्यां सुशीलां सुन्दरीं सतीम् ॥ २६  
 उवास तत्समीपे तु मधुरं तामुवाच सः।  
 शङ्खचूड उवाच—  
 का त्वं कस्य च कन्या च धन्या मान्या च योषिताम् ॥ २७  
 का त्वं मानिनि कल्याणि सर्वकल्याणदायिनी।  
 मौनीभूते किङ्करे मां संभाषां कुरु सुन्दरि ॥ २८  
 इत्येवं वचनं श्रुत्वा सकामा वामलोचना।  
 सस्मिता नम्रवदना सकामं तमुवाच सा ॥ २९

तुलस्युवाच—

धर्मध्वजसुताऽहं च तपस्यायां तपोवने ।  
 तपस्विन्यहं तिष्ठामि कस्त्वं गच्छ यथा सुखम् ॥ ३०  
 कामिनीं कुलजातां च रहस्येकाकिनीं सतीम् ।  
 न पृच्छति कुले जाते इत्येवं मे श्रुतौ श्रुतम् ॥ ३१  
 लम्पटोऽसत्कुले जातो धर्मशास्त्रार्थवर्जितः ।  
 येनाश्रुतः श्रुतेरर्थः स कामीच्छति कामिनीम् ॥ ३२  
 आपातमधुरां मत्तामन्तेकापुरुषस्य ताम् ।  
 विषकुम्भाकाररूपामभृतास्यां च सन्ततम् ॥ ३३  
 हृदये क्षुरधाराभां शश्वन्मधुरभाषिणीम् ।  
 स्वकार्यपरिनिष्पत्त्यै तत्परां सततं च ताम् ॥ ३४  
 कार्यर्थे स्वामिवशगामन्यथैवावशां सदा ।  
 स्वान्ते मलिनरूपां च प्रसन्नवदनेक्षणाम् ॥ ३५  
 श्रुतौ पुराणे यासां च चरित्रमतिदूषितम् ।  
 तासु को विश्वसेत्प्राज्ञ प्रज्ञावांश्च दुराशयः ॥ ३६  
 तासां को वा रिपुर्मित्रं प्रार्थयन्ति नवनवम् ।  
 हृष्ट्वा सुवेषं पुरुषमिच्छन्ति हृदये सदा ॥ ३७  
 बाह्ये स्वार्थं सतीत्वं च ज्ञापयन्ति प्रयत्नतः ।  
 शश्वत्कामा च रामां च कामाधारा मनोहरा ॥ ३८  
 बाह्ये छलात्खेदयन्ती स्वान्तर्मैथुनमानसा ।  
 कान्तं हसन्ती रहसि बाह्येऽतीव सुलज्जिता ॥ ३९  
 मानिनी मैथुनाभावे कोपना कलहाङ्कुरा ।  
 सुप्रीता भूरिसंभोगात्स्वल्पमैथुनदुःखिता ॥ ४०

सुमिष्टान्नाच्छीततोयादाकांक्षन्ती च मानसे ।  
 सुन्दरं रसिकं कान्तं युवानं गुणिनं सदा ॥ ४१  
 सुतात्परमभिस्मेहं कुर्वन्ती रसिकोपरि ।  
 प्राणाधिकं प्रियतमं संभोगकुशलं प्रियम् ॥ ४२  
 पश्यन्ति रिपुतुल्यं च वृद्धं वा मैथुनाक्षमम् ।  
 कलहं कुर्वती शश्वत्तेन सार्धं सुकोपना ॥ ४३  
 वाचया भक्षन्ती तं सर्पमाखुमिवोल्वणम् ।  
 दुःसाहसस्वरूपा च सर्वदोषाश्रया सदा ॥ ४४  
 ब्रह्मविष्णुशिवादीनां दुःसाध्या मोहरूपिणी ।  
 तपोमार्गांगला शश्वन्मोक्षद्वारकपाटिका ॥ ४५  
 हरेभक्तिव्यवहिता सर्वमायाकरणिडका ।  
 संसारकारागारे च शश्वन्निगडरूपिणी ॥ ४६  
 इन्द्रजालस्वरूपा च मिथ्या च स्वप्नरूपिणी ।  
 बिभ्रती बाह्यसौन्दर्यमधोऽङ्गमतिकुत्सितम् ॥ ४७  
 नानाविष्णमूलपूयानामाधारं मलसंयुतम् ।  
 दुर्गन्धिदोषसंयुक्तं रक्ता रक्तमसंस्कृतम् ॥ ४८  
 मायारूपा मायिनां च विधिना निर्मिता पुरा ।  
 विषरूपा मुमुक्षूणामद्वयाऽप्यभिवाच्छताम् ॥ ४९  
 इत्युक्त्वा तुलसी तं च विरराम च नारद ।  
 सस्मितः शङ्खचूडश्च प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ ५०  
 शङ्खचूड उवाच—  
 त्वया यत्कथितं देवि न च सर्वमलीककम् ।  
 किञ्चित्सत्यमलीकं च किंचिन्मत्तो निशामय ॥ ५१

निर्मितं द्विविधं धात्रा स्त्रीरूपं सर्वमोहनम्।  
 कृत्वा रूपं वास्तवं च प्रशस्यं चाप्रशंसितम्॥५२  
 लक्ष्मीः सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिकादिका।  
 सृष्टिसूत्रस्वरूपा च आद्या सृष्टिविनिर्मिता॥५३  
 एतासामंशरूपं च स्त्रीरूपं वास्तवं स्मृतम्।  
 तत्प्रशस्यं यशोरूपं सर्वमज्जलकारकम्॥५४  
 शतरूपा देवहूती स्वधा स्वाहा च दक्षिणा।  
 छायावती रोहिणी च वरुणानी शची तथा॥५५  
 कुबेरस्य च पत्नी याऽप्यदितिश्च दितिस्तथा।  
 लोपामुद्राऽनसूया च कोटिभी स्तुलसी तथा॥५६  
 अहल्याऽरुन्धती मेना तारा मन्दोदरी तथा।  
 दमयन्ती वेदवती गज्जा च मनसा तथा॥५७  
 पुष्टिस्तुष्टिः स्मृतिर्मेधा कालिका च वसुन्धरा।  
 षष्ठी मज्जल चण्डी च मूर्तिश्च धर्मकामिनी॥५८  
 स्वस्ति श्रद्धा च शान्तिश्च कान्तिः क्षान्तिस्तथा परा।  
 निद्रा तथा क्षुतिपासा सन्ध्या रात्रिदिनानि च॥५९  
 सम्पत्तिर्धृतिकीर्ती च क्रिया शोभा प्रभा शिवा।  
 यत्स्त्रीरूपश्च सम्भूतमन्तु युगे युगे॥६०  
 कलाकलांशरूपं च स्वर्वेश्यादिकमेव च।  
 तदप्रशस्यं विश्वेषु पुंश्चलीरूपमेव च॥६१  
 सत्त्वप्रधानं यद्गूपं तद्युक्तश्च प्रभावतः।  
 तदुत्तमं च विश्वेषु साध्वीरूपं च शंसितम्॥६२

तद्वास्तवं च विज्ञेयं प्रवदन्ति मनीषिणः ।  
 रजोरूपं तमोरूपं कलासु विविधं स्मृतम् ॥ ६३  
 मध्यमा रजसश्चांशास्तास्तु भोगेषु लोलुपाः ।  
 सुखसम्भोगवदयाश्च स्वकार्ये निरताः सदा ॥ ६४  
 कपटा मोहकारिण्यो धर्मर्थविमुखाः सदा ।  
 रजोरूपस्य साध्वीत्वमतो नैवोपजायते ॥ ६५  
 इदं मध्यमरूपं च प्रवदन्ति मनीषिणः ।  
 तमोरूपं दुर्निर्वार्यमधमं तद्विदुर्बुधाः ॥ ६६  
 न पृच्छति कुले जाताः पण्डितश्च परस्त्रियम् ।  
 निर्जने निर्जले वाऽपि रहस्यपि परस्त्रियम् ॥ ६७  
 आगच्छामि त्वत्समीपमाज्ञया ब्रह्मणोऽधुना ।  
 गान्धर्वेण विवाहेन त्वां ग्रहीष्यामि शोभने ॥ ६८  
 अहमेव शङ्खचूडो देवविद्रावकारकः ।  
 दनुवंशयो विशेषेण सुदामाऽहं हरेः पुरा ॥ ६९  
 अहमष्टसु गोपेषु गोपोऽपि पार्षदेषु च ।  
 अधुना दानवेन्द्रोऽहं राधिकायाश्च शापतः ॥ ७०  
 जातिस्मरोऽहं जानामि कृष्णमन्त्रप्रभावतः ।  
 जातिस्मरा त्वं तुलसी संभुक्ता हरिणा पुरा ॥ ७१  
 त्वमेव राधिकाकोपाज्ञातासि भारते भुवि ।  
 त्वां संभोक्तुमुत्सुकोऽहं नालं राधाभयात्ततः ॥ ७२  
 इत्येवमुक्त्वा स पुमान्विरराम महामुने ।  
 सस्मितं तुलसी तुष्टा प्रवक्तुमुपचक्रमे ॥ ७३

तुलस्युवाच—

एवंविधो बुधो नित्यं विश्वेषु च प्रशंसितः ।  
 कान्तमेवं विधं कान्ता शश्वदिच्छति कामतः ॥ ७४  
 त्वयाऽहमधुना सत्यं विचारेण पराजिता ।  
 स निन्दितश्चाप्यशुचिर्यः पुमांश्च स्त्रिया जितः ॥ ७५  
 निन्दन्ति पितरो देवा बान्धवाः स्त्रीजितं नरम् ।  
 स्त्रीजितं मनसा माता पिता भ्राता च निन्दति ॥ ७६  
 शुद्धो विप्रो दशाहेन जातके मृतके यथा ।  
 भूमिपो द्वादशाहेन वैश्यः पञ्चदशाहतः ॥ ७७  
 शूद्रो मासेन वेदेषु मातृबद्धीनसङ्करः ।  
 अशुचिः स्त्रीजितः शुद्धचेच्चितादहनकालतः ॥ ७८  
 न गृह्णन्तीच्छया तस्य पितरः पिण्डतर्पणम् ।  
 न गृह्णन्त्येव देवाश्च तस्य पुष्पजलादिकम् ॥ ७९  
 किं वा ज्ञानेन तपसा जपहोमप्रपूजनैः ।  
 किं विद्यया च यशसा स्त्रीभिर्यस्य मनो हृतम् ॥ ८०  
 विद्याप्रभावज्ञानार्थं मया त्वं च परीक्षितः ।  
 कृत्वा परीक्षां कान्तस्य वृणोति कामिनी वरम् ॥ ८१  
 वराय गुणहीनाय वृद्धायाज्ञानिने तथा ।  
 दरिद्राय च मूर्खाय रोगिणे कुत्सिताय च ॥ ८२  
 अत्यन्तकोपयुक्ताय वाऽत्यन्तदुर्मुखाय च ।  
 पञ्चवेचाज्ञहीनाय चान्धाय बधिराय च ॥ ८३  
 जडाय चैव मूर्खाय क्लीबतुल्याय पापिने ।  
 ब्रह्महत्यां लभेत्सोऽपि स्वकन्यां प्रददाति यः ॥ ८४

शान्ताय गुणिने चैव यूने च विदुषेऽपि च।  
 साधवे च सुतां दत्त्वा दशयज्ञफलं लभेत्॥ ८५  
 यः कन्यापालनं कृत्वा करोति यदि विक्रयम्।  
 विक्रेता धनलोभेन कुम्भीपाकं स गच्छति॥ ८६  
 कन्यामूत्रं पुरीषं च तत्र भक्षति पातकी।  
 कृमिभिर्दशितः काकैर्यावन्दिन्द्राश्चतुर्दश॥ ८७  
 तदन्ते व्याधिसंयुक्तः स लभेद् जन्म निश्चितम्।  
 विक्रीणाति मांस भारं वहत्येव दिवानिशम्॥ ८८  
 इत्येवमुक्ता तुलसी विरराम तपोनिधे॥

ब्रह्मोवाच—

किं करोषि शङ्खचूड संवादमनया सह॥ ८९  
 गान्धर्वेण विवाहेन त्वं चास्या ग्रहणं कुरु।  
 पुरुषेष्वस्मि रत्नं त्वं खीषु रत्नं त्वियं सती॥ ९०  
 विदग्धाया विदग्धेन संगमो गुणवान्भवेत्।  
 निर्विरोधसुखं राजन्को वा त्यजति दुर्लभम्॥ ९१  
 योऽविरोधसुखत्यागी स पशुनात्र संशयः।  
 किं परीक्षसि त्वं कान्तमीदृशं गुणिनं सति॥ ९२  
 देवानामसुराणां च दानवानां विमर्दकम्।  
 यथा लक्ष्मीश्च लक्ष्मीशो यथा कृष्णो च राधिका॥ ९३  
 यथा मयि च सावित्री भवानी च भवे यथा।  
 यथा धरा वराहे च दक्षिणा च यथाऽध्वरे॥ ९४  
 यथाऽत्रावनसूया च दमयन्ती यथा नले।  
 रोहिणी च यथा चन्द्रे यथा कामे रतिः सती॥ ९५

यथाऽदितिः कश्यपे च वसिष्ठेऽरुन्धती सती ।  
 यथाऽहल्या गौतमे च देवहूतिश्च कर्दमे ॥ ९६  
 यथा बृहस्पतौ तारा शतरूपा मनौ यथा ।  
 यथा च दक्षिणा यज्ञे यथा स्वाहा हुताशने ॥ ९७  
 यथा शची महेन्द्रे च यथा पुष्टिर्गणेश्वरे ।  
 देवसेना यथा स्कन्दे धर्मे मूर्तिर्घासती ॥ ९८  
 सौभाग्या सुप्रिया त्वं च शङ्खचूडे तथा भव ।  
 अनेन सार्धं सुचिरं सुन्दरेण च सुन्दरि ॥ ९९  
 स्थाने स्थाने विहारं च यथेच्छं कुरु सन्ततम् ।  
 यथात्प्राप्यसि गोलोके श्रीकृष्णं पुनरेव च ॥ १००  
 चतुर्भुजं च वैकुण्ठे शङ्खचूडे मृते सति ।

इति श्रीदेवीभागवते नवमस्कन्धेऽषादशोऽध्यायः ॥

— ★ —

### அத்தியாயம் 18

துளை மன நிறைவுடன் தூங்கினால். மனமதன் தன் ஜூந்து பாணங்களையும் ஏவினான். அவளது மனத்தில் காமம் இடம் பெற்றது. தூங்கமும் கலக்கமும் வரட்சியும் துயரமும் சோர்வும் எரிச்சலும் தெளிவும் மதிமயக்கமும் பரபரப்பும் நிம்மதி யின்மையும் மாறி மாறித் தோன்றின. பூப்படுக்கையும் வேதனை தந்தது. அழகியயுவன் காமவேகத்துடன் தன்னை நெருங்கி வருவதாக உணர்ந்து நிம்மதி இழந்தாள். அவளது யெளவனம் பல காட்சிகளை மனத்தில் உருவாக்கியது.

சங்ககுடன் ஒரு சிறந்த யோகி. ஜைகிஷவ்யரிடம் கிருஷ்ண மந்திர உபதேசம் பெற்று ஜபித்து ஸித்திபெற்றன. மந்திரத்தாலான கவசமணிந்தான். பிரும்மனின் தூண்டுதலால் துளை இருக்குமிடம் வந்தான். மனமதனைப் போன்ற உடல்

வனப்பும் ரத்ன ஆபரணங்களாலும் புஷ்பமாலைகளாலும் அலங்காரமும் கொண்டவைனைப் புன் சிரிப்புடன் கடைக் கண்களால் பார்த்ததுள்ளி வெட்கத்துடன் தலை குளிந்து நின்றார்கள்.

வனப்புமிக்க, பல அணிகள் பூண்டு தன் அருகே வருகிற துள்ளியைக்கண்டசங்ககுடன் அவனைப் பற்றி விசாரித்தான். “நீயார்? யாருடைய பெண்? பெண்களில் நீ சிறந்தவளாக மதிப்பிற்குரியவளாகக் காணப்படுகிறீய். உன் பணியாளனுண் என்னுடன் பேசுவாய்” என்று வற்புறுத்தினார்கள்.

துள்ளி கூறினார். “நான் தர்மத்வஜனின் மகள். இங்கு தவமியற்றுகிறேன். தனிமையில் இருக்கிற வயதுக்குவந்த குலப் பெண்ணுடன் பேசுவது முறையல்ல. நீர் வந்த வழி செல்வீர். நற்குலத்தில் பிறவாத சபலன், வேத வழியறியாதவன் தான் அழகிய பெண்ணைக் கண்டதும் நெருங்குவான். பார்ப்பதற்கு இனியவளாக. கெட்டவள் விஷயத்தில் விஷக்குடமாக இருப்பவள் உண்டு. சுயநலத்தால் உடையவனுக்கு வசப்பட்டவள் போல் இனிது பேசுபவரும் இதயத்தில் கூர்மிக்க கத்தி போன்று இருப்பான். நடைமுறை கெட்டவளை அறிவாளி நம்பமாட்டான். எவள் நட்புக்குரியவள்? எவள் எதிரி? அழகிய ஆணை விரும்பி வெளியே தன்னலத்துடன் கற்புக்கரசிபோல நடிப்பவள், உடலுறவை நாடி நல்ல உறவு கிட்டினால் மகிழ்ந்து, அது இதம் தராவிடில் தூடிப்பவள் உண்டு. நல்ல உணவும் நல்லபானமும் அளிப்பவனும் அழகனும் ரஸிகனும் யுவனும் கிடைத்ததும் நிறைவு பெறுபவரும் உண்டு.

ரளிக்கனும் உடலுறவில் நிபுணனுமானவளை உயிர்க்கும் உயிராக விரும்புபவரும் உடலுறவில் இயலாமை கொண்ட முதியவளை வெறுத்துக் கலகம் செய்பவரும் உண்டு. வாக்கால் பாம்பு எலியைப் போல் குதறிக் குலைப்பவரும் உண்டு. மோகம் என்பது மும்மூர்த்திகளையும் குழப்பும். தவவழியில் அது தடையாகும். முக்கி வாயிலின் மூடிய கதவு. ஹரியிடம் பக்கி கொள்ளமுடியாத தடுப்பு, ஸம்ஸாரச் சிறையில் விலங்குபோல் செயலிழக்கச் செய்யும். பகல் கணவு, அழுக்கும் அவலமும் கொண்டதை அழகாகத் தூயதாகக் காட்டும். கண்களுக்குப் புலப்படாதிருந்து கெடுக்கவல்லது. அதனால் தனிமையிலுள்ள பெண்ணுடன் ஸல்லாபம் தவறானது எனத் துள்ளி கூறினார்கள்.

சங்கசூடன் சிரித்துக் கொண்டே கூறினார். நீ கூறியதைசீத்தும் சிறிது பொய் கலந்த மெய்யாகும். பெண்ணின் உருவழகைப் பிரும்மா இரண்டுவிதமாகப் படைத்திருக்கிறார். உண்மையில் மதிப்பிற்குரியதாக, மதிப்பற்றதாக என. படைக்கமுற்பட்ட தேவி பராசக்தியானவள் லக்ஷ்மி, ஸரஸ்வதி, தூர்க்கா, ஸாவித்ரி, ராதா முதலிய படைப்பின் மூல சக்திகளை வெளிப்படுத்தினார். இவர்களின் அம்சமாகப் பெண்கள் அனைவரும் தோன்றினர். புகழும் மங்களமும் மிக்க நன்மதிப்புக்குரியவர்கள் அவர்கள். சதஞ்சபா, தேவஹாமுதி, ஸ்வதா, ஸ்வாஹா, தக்ஷிணை, சாயாவதி, ரோஹிணீ, வருணனின் பத்தினீ, ரதி, குபேரனின் பத்தினி, அதிதி, மேனை, தாரா, மந்தோதரி, தமயந்தி, வேதவதி, கங்கா, மனஸா, புஷ்டி, துஷ்டி, ஸ்மிருதி, மேதா, காளீ, பூமி, ஷஷ்மீ, மங்களசண்டி, மூர்த்தி என்ற தர்மரின் பத்தினி, ஸ்வஸ்தி, சிரத்தை, சாந்தி, காந்தி, கஷ்மா, நித்திரை, கஷ்டத்து(பசி)பிபாஸா(தாகம்) ஸந்த்யா, ராத்ரி, தினம், ஸம்பத்தி, த்ருதி, கீர்த்தி, கிரியை, சேஷப, பிரபை, சிவா, என பெண்வடிவம் கொண்ட தேவசக்திகள் இவர்களைவரும் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் பிரக்குதி தேவியின் கலையாக, அக்கலையின் ஓரம்சமாக உள்ளனர். அப்ஸரஸ் என்ற தேவமாதர்களும் இவர்களில் அடங்கியவரே. இவர்கள் நன்மதிப்புக்குரியவர்கள். வேசிகள் மதிப்பிழந்தவர்கள்.

பெருமை மிக்கவரும் ஸத்வகுணமிக்கவருமான பதிவிரதைகள் உத்தமர்கள். போகம் பெறுவதில் பெறு நாட்டமுள்ளவரும் போகத்திற்கு வசப்படுபவரும் தன்னலத்துடன் கபடத்தால் மயக்குபவரும் அறத்திற்கும் பொருளுக்கும் எதிரிகளுமானவர் ராஜஸர்கள். அவர்கள் ஸாத்விகளாக கற்புக்கரசிகளாக மதிக்கத்தகாதவர்கள். தமோகுணமிக்கவர்களோ மிகவும் தாழ்ந்தவர்கள். நற்குலத்தில் பிறந்து நன்னடத்தையைக் காப்பவர் அறிமுகமாகாத தனிமையிலுள்ள பெண்ணுடன் பேசமாட்டார்.

நான் பிரும்மாவின் ஆணையால் உன்னருகே வந்தேன். உண்ணே காந்தர்வ மனை முறைப்படி மணக்க விரும்புகிறேன். சங்கசூடன் என்ற பெயரிலுள்ள அஸ்ரங்கே நான்

முற்பிறவியில் ஹரியின் பணியாளர்களான எட்டு கோபர்களில் ஒருவனை ஸ்தாமா. ராதையின் சாபத்தால் அஸரங்களேன். கிருஷ்ணமந்திர ஜபப் பெருமையால் முற்பிறவி பற்றி அறிவேன். நீ கிருஷ்ணனின் அன்புக்குரியவர்களில் ஒருவளான துளை. உனக்கும் முற்பிறவி நினைவுவரும். ராதையின் கோபத்தில் ஆட்பட்டதால் பூமியில் பிறந்துள்ளாய். உன்னை அடைய விரும்பினாலும் ராதையிடமுள்ள பயத்தால் நெருங்காமல் நிற்கிறேன்' எனச்சங்ககுடுடன் சொன்னதும்துளை கூறினார்.

இத்தகைய அறிவாளியையே உலகம் மதிக்கும். இத்தகைய நாயகனையே பெண் விரும்புவாள். உமது கருத்து என்னை வென்றுவிட்டது. பெண்ணிடம் தோற்றவனை உலகம் இகழும். தாயும் தந்தையும் உடன் பிறந்தானும் பெண்ணிடம் அடிமையானவனை இகழ்வர். பிறப்பாலும், இறப்பாலும் தீட்டுள்ள அந்தணன் பத்து நாட்களிலும் கஷ்த்திரியன் 12 நாட்களிலும் வைச்யன் 15 நாட்களிலும் குத்திரன் ஒருமாதத்திலும் தூய்மை பெறுவான். பெண்ணிடம் தோற்றவன் சினை நெருப்பிலதான் தூய்மை பெறுவான். அவன் செய்கிற தர்பணம் முதலியவற்றை பித்ருக்கள் ஏற்படுத்தினார். புஷ்பம் நீர் முதலியவற்றுலான வழிபாட்டைத் தேவர்கள் ஏற்படுத்தினார். ஞானம், தவம், ஜபம், ஹோமம், வழிபாடு, கல்வி, புகழ் இவை அனைத்தும் பெண்ணடிமையிடம் பயன் தரா. அறிவையும் பெருமையையும் சோதித்த பின்னரே பெண் ஆணை ஏற்பாள். குணமற்றவன். கிழவன், அறிவிலி, ஏழை, மூர்க்கன், நோயாளி, பழியேற்றவன், மிகவும் கோபிப்பவன், குருபி, நொண்டி, அங்கவீனன், குருடன், செவிடன், ஜிடன், ஊழை, அலி, பாபி இவர்களுக்குத் தன் கண்ணிகையைத் தானம் செய்பவன் பிரும்ம ஹத்தி செய்தவனுகிறுன்.

சாந்தனும் குணவானும் யுவாவும் அறிஞனுமான நல்லவனுக்குப் பெண்தருவது பத்து வேள்விகள் புரிதற்குச் சமம். பணத்தாசையால் பெண்ணை விற்பவன் நரகம்செல்வான். மறு பிறவியில் நோயாளியாவான் என்று துளை கூறினார்.

பிரும்மாபேசவதைத்தடுத்து, கந்தர்வமுறைப்படி மனம் செய்துகொள்ள சங்கசூடனைப் பணித்தார். “ஆண்களில் நீ ரத்தினம். பெண்களில் நீ ரத்தினம் அறிவாளியுடன் அறிவாளியின் சேர்க்கை பயனுள்ளது. எதிர்ப்பின்றி சுகம் பெறுவது கிடைத்தற்காியது. அப்படிக் கிட்டிய சுகத்தைத் தவிர்ப்பவன் மிருகத்திற் கொப்பானவன். துளசீ ! நீயும் அவனை மீண்டும் மீண்டும் சோதிக்காதே ! விஷ்ணுவிற்கு லக்ஷ்மி, கிருஷ்ணனுக்கு ராதை, எனக்கு ஸாவித்ரீ, சிவனுக்கு உமை, வராஹருக்குப் பூதேவி, யஜ்ஞருக்கு தக்ஷிணை, அத்திரிக்கு அனஸ்ரை, நளனுக்குத் தமயந்தீ, சந்திரனுக்கு ரோஹிணீ, மன்மதனுக்கு ரதி, கசியபருக்கு அதிதி, வளிஷ்டருக்கு அருந்ததி, கௌதமருக்கு அஹல்யை, கர்தமருக்குத் தேவஹ மதி, பிரஹஸ்பதிக்கு தாரை, மனுவிற்கு சதரூபா, அக்னிக்கு ஸ்வாஹா, இந்திரனுக்கு சசி, கணேசருக்குப் புஷ்டி, ஸ்கந்தருக்கு தேவஸேனை, தர்மருக்கு மூர்த்தி என்றவாறு சங்கசூடனுக்குதுள்ளி அமையட்டும். எல்லா விடங்களிலும் இன்பம் பெற்று, இறுதியில் கோலோகத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை அடைவாய். சங்கசூடன் மறைந்ததும் வைகுண்டத்தில் விஷ்ணுவை அடைவாய்.

—★—

### एकोनविंशोऽध्यायः

नारद उवाच—

विचित्रमिदमाख्यानं भवता समुदाहृतम्।

श्रुतेन येन मे तृस्मिन् कदाऽपि हि जायते ॥ १

ततः परं तु यज्ञातं तत्त्वं वद महामते ।

नारायण उवाच—

इत्येवमाशिषं दत्त्वा स्वालयं च यथौ विधिः ॥ २

गान्धर्वेण विवाहेन जगृहे तां च दानवः ।

स्वर्गे दुन्दुभिवाद्यं च पुष्पवृष्टिर्भूव ॥ ३

स रेमे रामया सार्धं वासगेहे मनोरमे ।  
 मूर्छा सा प्राप तुलसी नवसंगमसंगता ॥ ४  
 निमग्रा निर्जले साध्वी संभोगसुखसागरे ।  
 चतुःषष्ठिकलामानं चतुःषष्ठिविधं सुखम् ॥ ५  
 कामशाखे यन्निरुक्तं रसिकानां यथेष्पितम् ।  
 अङ्गप्रत्यङ्गसंल्लेषपूर्वकं स्त्रीमनोहरम् ॥ ६  
 तत्सर्वं रसशृङ्गारं चकार रसिकेश्वरः ।  
 अतीव रम्यदेशो च सर्वजन्तुविवर्जिते ॥ ७  
 पुष्पचन्दनतल्पे च पुष्पचन्दनवायुना ।  
 पुष्पोद्याने नदीतीरे पुष्पचन्दन चर्चिते ॥ ८  
 गृहीत्वा रसिको रासे पुष्पचन्दनचर्चिताम् ।  
 भूषितो भूषणेनैव रक्तभूषणभूषिताम् ॥ ९  
 सुरते विरतिनास्ति तयोः सुरतिविज्ञयोः ।  
 जहार मानसं भर्तुलोल्या लीलया सती ॥ १०  
 चेतनां रसिकायाश्च जहार रसभाववित् ।  
 वक्षसश्चन्दनं राजास्तिलकं विजहारसा ॥ ११  
 स च जहार तस्याश्च सिन्दूरबिन्दुपत्रकम् ।  
 तद्वक्षस्युरोजे च नखरेखा ददौ मुदा ॥ १२  
 सा ददौ तद्वामपाश्च करभूषणलक्षणम् ।  
 राजा तदोषपुटके ददौ रदनदंशनम् ॥ १३  
 तद्वगण्डयुगले सा च प्रददौ तच्चतुर्गुणम् ।  
 आलिङ्गनं चुम्बनं च जडादिमर्दनं तथा ॥ १४

एवं परस्परं क्रीडां चक्रतुस्तौ विजानतौ।  
 सुरते विरते तौ च समुत्थाय परस्परम्॥ १५  
 सुवेषं चक्रतुस्तत्र यद्यन्मनसि वाञ्छितम्।  
 चन्दनैः कुङ्गुमारक्तैः सा तस्य तिलकं ददौ॥ १६  
 सर्वाङ्गे सुन्दरे रम्ये चकार चानुलेपनम्।  
 सुवासं चैव ताम्बूलं वहिशुद्धे च वाससी॥ १७  
 पारिजातस्य कुसुमं जरारोगहरं परम्।  
 अमूल्यरत्ननिर्मणमङ्गुलीयकमुत्तमम्॥ १८  
 सुन्दरं च मणिवरं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्।  
 दासी तवाहमित्येवं समुच्चार्यं पुनः पुनः॥ १९  
 ननाम परया भक्त्या स्वामिनं गुणशालिनम्।  
 सस्मिता तन्मुखाम्भोजं लोचनाभ्यां पुनः पुनः॥ २०  
 निमेषरहिताभ्यां चाप्यपश्यत्कामसुन्दरम्।  
 स च तां च समाकृष्य चकार वक्षसि प्रियाम्॥ २१  
 सस्मितं वाससाऽच्छन्नं ददर्श मुखपङ्कजम्।  
 चुचुम्ब कठिने गण्डे बिम्बोष्ठौ पुनरेव च॥ २२  
 ददौ तस्यै वस्त्रयुग्मं वरुणादाहृतं च यत्।  
 तदाहृतां रत्नमालां त्रिषु लोकेषु दुर्लभाम्॥ २३  
 ददौ मञ्जीरयुग्मं च स्वाहाया आहृतं च यत्।  
 केयूरयुग्मं छायाया रोहिण्याश्वैव कुण्डलम्॥ २४  
 अङ्गुलीयकरत्नानि रत्याश्च करभूषणम्।  
 शङ्खं च रुचिरं चित्रं यद्दत्तं विश्वकर्मणा॥ २५

विचित्रपद्मकश्रेणीं शश्यां चापि सुदुर्लभाम्।  
 भूषणानि च दत्त्वा च भूपो हासं चकार ह ॥ २६  
 निर्ममे कबरीभारे तस्या माङ्गल्यभूषणम्।  
 सुचित्रं पत्रकं गण्डमण्डलेऽस्याः समं तथा ॥ २७  
 चन्द्रलेखात्रिभिर्युक्तं चन्दनेन सुगन्धिना।  
 परीतं परितश्चित्रैः सार्धं कुङ्कुमविन्दुभिः ॥ २८  
 ज्वलत्प्रदीपाकारं च सिन्दूरतिलकं ददौ।  
 तत्पादपद्मयुगले स्थलपद्मविनिन्दिते ॥ २९  
 चित्रालक्तकरामं च नखरेषु ददौ मुदा।  
 स्ववक्षसि मुहुर्न्यस्य सरागं चरणाम्बुजम् ॥ ३०  
 हे देवि तव दासोऽहमित्युच्चार्यं पुनः पुनः।  
 रत्नभूषितहस्तेन तां च कृत्वा स्ववक्षसि ॥ ३१  
 तपोवनं परित्यज्य राजा स्थानान्तरं ययौ।  
 मलये देवनिलये शैले शैले तपोवने ॥ ३२  
 स्थाने स्थानेऽतिरम्ये च पुष्पोद्याने च निर्जने।  
 कन्दरे कन्दरे सिन्धुतीरे चैवातिसुन्दरे ॥ ३३  
 पुष्पमद्रानदीतीरे नीरवातमनोहरे।  
 पुलिने पुलिने दिव्ये नद्यां नद्यां नदेनदे ॥ ३४  
 मधौ मधुकराणां च मधुरध्वनिनादिते।  
 विस्पन्दने सुरसने नन्दने गन्धमादने ॥ ३५  
 देवोद्याने नन्दने च चित्रचन्दनकानने।  
 चम्पकानां केतकीनां माधवीनां च माधवे ॥ ३६

कुन्दानां मालतीनां च कुमुदाम्भोजकानने ।  
 कल्पवृक्षे कल्पवृक्षे पारिजातबने बने ॥ ३७  
 निर्जने काश्वने स्थाने धन्ये काश्वनपर्वते ।  
 काश्वीवने किञ्जलके कुञ्जुके काश्वनाकरे ॥ ३८  
 पुष्पचन्दनतल्पेषु पुंस्कोकिलरुतश्रुते ।  
 पुष्पचन्दनसंयुक्तः पुष्पचन्दनवायुना ॥ ३९  
 कामुक्या कामुकः कामात्स रेमे रामया सह ।  
 न हि तृसो दानवेन्द्रस्तृसिं नैव जगाम सा ॥ ४०  
 हविषा कृष्णवतर्मेव ववृधे मदनस्तयोः ।  
 तथा सह समागत्य स्वाश्रमं दानवस्ततः ॥ ४१  
 रम्यं क्रीडालयं गत्वा विजहार पुनः पुनः ।  
 एवं स बुभुजे राज्यं शङ्खचूडः प्रतापवान् ॥ ४२  
 एकमन्वन्तरं पूर्णं राजा राजेश्वरो महान् ।  
 देवानामसुराणां च दानवानां च सन्ततम् ॥ ४३  
 गन्धर्वाणां किन्नराणां राक्षसानां च शान्तिदः ।  
 हताधिकारा देवाश्च चरन्ति भिक्षुका यथा ॥ ४४  
 ते सर्वेऽतिविषणाश्च प्रजग्मुद्रैह्यणः सभाम् ।  
 वृत्तान्तं कथयामासू रुदुश्च भृशं मुहुः ॥ ४५  
 तदा ब्रह्मा सुरैः सार्थं जगाम शङ्खरालयम् ।  
 सर्वेशं कथयामास विधाता चन्द्रशेखरम् ॥ ४६  
 ब्रह्मा शिवश्च तैः सार्थं वैकुण्ठं च जगाम ह ।  
 दुर्लभं परमं धाम जरामृत्युहरं परम् ॥ ४७

संप्राप च वरं द्वारमाश्रमाणां हरेरहो ।  
 ददर्श द्वारपालांश्च रत्नसिंहासनस्थितान् ॥ ४८  
 शोभितान्पीतवस्त्रैश्च रत्नभूषणभूषितान् ।  
 वनमालान्वितान्सर्वाङ्गयामसुन्दरविग्रहान् ॥ ४९  
 शङ्खचक्रगदापद्मधरांश्चैव चतुर्भुजान् ।  
 सस्मितान्स्मेरवक्त्रास्यान्पद्मनेत्रान्मनोहरान् ॥ ५०  
 ब्रह्मा तान्कथयामास वृत्तान्ते गमनार्थकम् ।  
 तेऽनुज्ञां च ददुस्तस्मै प्रविवेश तदाज्ञया ॥ ५१  
 एवं षोडशा द्वाराणि निरीक्ष्य कमलोद्धवः ।  
 देवैः सार्धं तानतीत्य प्रविवेश हरेः सभाम् ॥ ५२  
 देवर्षिभिः परिवृतां पाषदैश्च चतुर्भुजैः ।  
 नारायणस्वरूपैश्च सर्वैः कौस्तुभभूषितैः ॥ ५३  
 नवेन्दुमण्डलाकारां चतुरस्त्रां मनोहराम् ।  
 मणीन्द्रहारनिर्माणां हीरासारसुशोभिताम् ॥ ५४  
 अमूल्यरत्नखचितां रचितां स्वेच्छया हरेः ।  
 माणिक्यमालाजालाभां मुक्तापद्मकितविभूषिताम् ॥ ५५  
 मणिडतां मण्डलाकारैः रत्नदर्पणकोटिभिः ।  
 विचित्रैश्चित्ररेखाभिननाचित्रविचित्रिताम् ॥ ५६  
 पद्मरागेन्द्ररचितां रुचिरां मणिपङ्कजैः ।  
 सोपानशतकैर्युक्तां स्यमन्तकविनिर्मितैः ॥ ५७  
 पद्मसूत्रग्रन्थियुक्तैश्चारुचन्दनपल्लवैः ।  
 इन्द्रनीलस्तम्भवर्यैर्वेष्टितां सुमनोहराम् ॥ ५८

सद्रत्तपूर्णकुम्भानां समूहैश्च समन्विताम् ।  
 पारिजातप्रसूनानां मालाजालैर्विराजिताम् ॥ ५९  
 कस्तूरीकुङ्गुमारक्तैः सुगन्धिचन्दनद्रुमैः ।  
 सुसंस्कृतां तु सर्वत्र वासितां गन्धवायुना ॥ ६०  
 विद्याधरीसमूहानां नृत्यजालैर्विराजिताम् ।  
 सहस्रयोजनायामां परिपूर्णांच किञ्चकैः ॥ ६१  
 ददर्श श्रीहरिं ब्रह्मा शङ्करश्च सुरैः सह ।  
 वसन्तं तन्मध्यदेशो यथेन्दुं तारकावृतम् ॥ ६२  
 अमूल्यरत्ननिर्मणचित्रसिंहासने स्थितम् ।  
 किरीटिनं कुण्डलिनं वनमालाविभूषितम् ॥ ६३  
 चन्दनोक्तिसर्वज्ञं विभ्रतं केलिपङ्कजम् ।  
 पुरतो नृत्यगीतं च पश्यन्तं सस्मितं मुदा ॥ ६४  
 शान्तं सरस्वतीकान्तं लक्ष्मीधृतपदाम्बुजम् ।  
 लक्ष्म्या प्रदत्तताम्बूलं भुक्तवन्तं सुवासितम् ॥ ६५  
 गङ्गया परया भक्त्या सेवितं श्वेतचामरैः ।  
 सर्वैश्च स्तूयमानं च भवितनम्रात्मकन्धरैः ॥ ६६  
 एवं विशिष्टं तं दृष्ट्वा परिपूर्णतमं प्रभुम् ।  
 ब्रह्मादयः सुराः सर्वे प्रणम्य तुष्टुवुस्तदा ॥ ६७  
 पुलकाञ्चित्सर्वज्ञाः साश्रुनेत्राश्च गदगदाः ।  
 भक्ताश्च परया भक्त्या भीता नम्रात्मकन्धराः ॥ ६८  
 कृताञ्जलिपुटो भूत्वा विधाता जगतामपि ।  
 वृत्तान्तं कथयामास विनयेन हरेः पुरः ॥ ६९

हरिस्तद्रचनं श्रुत्वा सर्वज्ञः सर्वभाववित्।

प्रहस्योवाच ब्रह्मार्ण रहस्यं च मनोहरम्॥ ७०

श्री भगवानुवाच—

शङ्खचूडस्य वृत्तान्तं सर्वं जानामि पद्मज।

मद्भक्तस्य च गोपस्य महातेजस्विनः पुरा॥ ७१

शृणु तत्सर्ववृत्तान्तमितिहासं पुरातनम्।

गोलोकस्यैव चरितं पापद्वं पुण्यकारकम्॥ ७२

सुदामा नाम गोपश्च पार्षदप्रवरो मम।

स प्राप दानबीं योनिं राधाशापात्सुदारुणात्॥ ७३

तत्रैकदाऽहमगमं स्वालयाद्रासमण्डलम्।

विरजामपि नीत्वा च मम प्राणाधिका परा॥ ७४

सा मां विरज्या सार्धं विज्ञाय किङ्करीमुखात्।

पश्चात्कुञ्जा साऽऽजगाम न ददर्श च तत्र माम्॥ ७५

विरजां च नदीरूपां मां ज्ञात्वा च तिरोहितम्।

पुनर्जगाम साऽदृष्ट्वा स्वालयं सखिभिः सह॥ ७६

मां दृष्ट्वा मन्दिरे देवि सुदामसहितं पुरा।

भृदां सा भर्त्सयामास मौनीभूतं च सुस्थिरम्॥ ७७

तत् श्रुत्वाऽसहमानश्च सुदामा तां चुकोप ह।

स च तां भर्त्सयामास कोपेन मम सन्निधौ॥ ७८

तत् श्रुत्वा कोपयुक्ता सा रक्तपङ्कजलोचना।

बहिष्कर्तुं चकाराज्ञां सन्त्रस्तं मम संसदि॥ ७९

सखीलक्षं समुत्तस्थौ दुर्वारं तेजसोल्वणम्।

बहिश्वकारं तं तूर्णं जलपन्तं च पुनः पुनः॥ ८०

सा च तत्ताडनं तासां श्रुत्वा रुष्टा शशाप ह ।  
 याहि रे दानवीं यो नि मित्येवं दासुणं वचः ॥ ८१  
 तं गच्छन्तं च शपन्तं च रुदन्तं मां प्रणम्य च ।  
 बारयामास तुष्टा सा रुदती कृपया पुनः ॥ ८२  
 हे वत्स तिष्ठ मा गच्छ क यासीति पुनः पुनः ।  
 समुच्चार्य च तत्पश्चाज्जगाम सा च विक्लवम् ॥ ८३  
 गोप्यश्च रुदुः सर्वं गोपाश्चापि सुदुः खिताः ।  
 ते सर्वे राधिका चापि तत्पश्चाद्वेदिता मया ॥ ८४  
 आयास्यति क्षणार्धेन कृत्वा शापस्य पालनम् ।  
 सुदामं स्त्वभिहागच्छेत्युक्त्वा सा च निवारिता ॥ ८५  
 गोलोकस्य क्षणार्धेन चैकं मन्वन्तरं भवेत् ।  
 पृथिव्या जगतां धातरित्येव वचनं ध्रुवम् ॥ ८६  
 इत्येवं शङ्खचूडश्च पुरस्तत्रैव यास्यति ।  
 महाबलिष्ठो योगेशः सर्वमायाविशारदः ॥ ८७  
 मम शूलं गृहीत्वा च शीर्षं गच्छत भारतम् ।  
 शिवः करोतु संहारं मम शूलेन रक्षसः ॥ ८८  
 ममैव कवचं कण्ठे सर्वमङ्गलकारकम् ।  
 बिभर्ति दानवः शश्वत्संसारे विजयी ततः ॥ ८९  
 तस्मिन्ब्रह्मन्स्थते चैव न कोऽपि हिंसितुं क्षमः ।  
 तद्याचनां करिष्यामि विप्रसूपोऽहमेव च ॥ ९०  
 सतीत्वहानि स्तत्पत्न्या यत्र काले भविष्यति ।  
 तत्रैव काले तन्मृत्युरिति दत्तो वरस्त्वया ॥ ९१

तत्पत्न्याश्रोदरे वीर्यमर्पयिष्यामि निश्चितम्।  
 तत्क्षणे चैव तन्मृत्युर्भविष्यति न संशयः ॥ ९२  
 पश्चात्सा देहमुत्सृज्य भविष्यति मम प्रिया ।  
 इत्युक्त्वा जगतां नाथो ददौ शूलं हराय च ॥ ९३  
 शूलं दत्त्वा ययौ शीघ्रं हरिरभ्यन्तरे मुदा ।  
 भारतं च यथुर्देवा ब्रह्मरुद्रपुरोगमाः ॥ ९४

इति श्रीदेवीभागवते नवमस्कन्धे एकोनविंशोऽध्यायः

— \* —

### अंतियायम् - 19

तुलसीयुम् संककुट्टनुम् वाप्त्तिं वके पर्त्ति अन्तिय  
 विरुम्पियनारथरीटम् नारायणर्कूरुक्तिरुर्. इव्वारु आसि कूर्ति  
 पिरुम्पमातन्तुलकम् चेन्ऱतुम् संककुट्टन्कन्तर्वमुरैप्पति  
 तुलसीये मनन्तान्. वाणीविरुन्तु पूमारि बेपूर्णिन्ततु.  
 संककुट्टनुम्, तुलसीयुम् नल्लमाणिकयिन्सि इन्पम  
 बेपूर्णनर्.

चिन्तिन्पम् एन्ऱ नीरर्ऱ कटविल् अवैल् लुप्तिनूल्. ६४  
 कलैकलाल काम चास्तिरत्तिल् केऽप्त्त ६४ इन्पमरैकौयुम्  
 अवरकर्त् अनुपवित्तनर्. तनीमेयिल् पूवुम्, संतनमुम्  
 मणक्किर कट्टिलिल् पूवुम् संतनमुम् मणक्किर कार्त्तुवैसन्तिक  
 करयिल् अमेन्त पून्तेऽट्टत्तिल् रास रसिकरकलाना  
 तमप्तिकर्त् वीजायाट्टिल् सुपट्टनर्. ओरुवर् मनत्तते  
 मन्त्रवर् परित्ततार्. पेपट्टियाक कामलैलि इटम् बेपूर्णतु.  
 इमेक्कात् कन्नकगुटन् ओरुवरे ओरुवर् पार्त्ततुक  
 केकाण्टनर्. वरुणनीटमिरुन्तु पट्टाणेययुम्, रत्तन  
 मालैयययुम्, स्वाहा तेवियिटमिरुन्तु नुपुरकौयुम्,  
 चाणययिटमिरुन्तु इरुतेऊणिकौयुम् रोबूनिणीयिटमिरुन्तु  
 कुण्टलेन्कौयुम्, रथियिटमिरुन्तु मेंतिरकौयुम्,  
 विच्वकर्माविटमिरुन्तु संकैयुम्, पूप्पकुकैयययुम्  
 औपरणकौयुम्, तुलसीयिटम् बेपूर्णत् तन्तु संककुट्टन्

மகிழ்ந்தான். கூந்தலையும், கழுத்தையும் பல ஆபரணங்களால் அலங்கரித்தான். சந்தனத்தால் மகர ரேகையிட்டுக் கஸ்தாரிப் பொட்டிட்டான்.

துளை ! தேவி ! நான் உனக்கு அடிமை என அடிக்கடி கூறி சங்ககுடன் அவனுக்குப் பணிவிடை செய்தான். துளை தவமிருந்த இடத்தை விட்டுக் கிளம்பி மலையும் முதலிய இடங்களுக்கு இருவரும் சென்றனர். பூந்தோட்டங்களில் இனிது பொழுதைக் கழித்தனர். சங்க சூடாஸாரனின் உள்ளத்தில் நெய்யால் நெருப்புபோல் காமத்தீ கொழுந்துவிட்டெரிந்தது. சங்ககுடன்தன்ராஜ்யத்திற்குவந்து அரசாஞ்சம் பொறுப்பை ஏற்று ஒரு மன்வந்தர காலம் ஆட்சி நடத்தினான். ஆட்சியில் ஆர்வம் மிகுந்து தேவர்களின் ஆட்சியைப் பறித்தான். தேவர்கள் பிச்சைக்காரர்களாயினர். பிரும்மாவிடம் சென்று சங்க சூடனின் கொடுமையைத் தேவர்கள் தெரிவித்தனர்.

பிரும்மா தேவர்களுடன் கைலாஸம் சென்றார். சிவனிடம் தேவர்களின் துயரத்தைத் தெரிவித்தார். அவருடன் கூட வைகுண்டம் சென்றனர். விஷ்ணுவின் தோற்ற ஒற்றுமை கொண்டு சங்கும் சக்கிரமும் கதையும் தாமரையும் கை ஏந்திய துவார பாலர்களிடம் தங்கள் நோக்கத்தைத் தெரிவித்து அனுமதி பெற்று, பதினாறு துவாரங்கள் கடந்து ஹரியின் ஸபையை அடைந்தனர்.

அங்கு பிரும்மாவும் சங்கரரும் விஷ்ணுவைக் கண்டனர். தேவர்ஷிகளும் நாராயண வடிவமேற்றிய நான்கு புஜங்களுள்ள பாரிஷதர்களும் குழசதுரமான ஸபையில் அவர்இருந்தார். புதிய சந்திர மண்டலம் போன்று நீல ரத்ன ஹராங்களும் வைர சந்திர மண்டலம் தொங்குகிற அந்த ஸபையை விஷ்ணு தன் ஹராங்களும் தொங்குகிற அந்த ஸபையை விஷ்ணு தன் விருப்பப்படி அமைத்திருந்தார். பத்மராகக் கற்கள் அமைந்த படிகளின் மீது இந்திர நீலக் கற்களாலான தூண்களின் நடுவே சந்தன இதழ்களைப் பட்டு நூல்களில் கோர்த்துக் கட்டப்பட்ட தோரணங்கள், ரத்னத்தாலான பூர்ண கும்பங்கள், பாரிஜாத மாலைகள், கஸ்தாரி குங்குமப்பூ கலந்த சந்தன மணம், வித்யாதரிகளின் ஆடல என ஆயிர யோசனை பரப்புள்ள மண்டபத்திடையே நடுவில் நகாத்திரங்களுக்கிணைப்பே! சந்திரன்

போல் ஹரி ரத்ன விம்ஹாஸனத்தில் கிரீடம் குண்டலம் வனமாலை தரித்தவராக தன் முன் நடைபெறுகிற ஆடலையும், பாடலையும் ரசிப்பவராக ஸரஸ்வதி பணிவிடை செய்ய, வகுமி சரணங்களைப் பிடித்துவிட, அவன் தந்த தாம்புலத்தை மென்று கவைப்பவராக, கங்கை வெண்சாமரம் வீச, பக்தர்கள் வணங்கி நின்று துதித்துப்பாட அமர்ந்திருந்த விஷ்ணுவைக் கண்டனர்.

விஷ்ணுவைத் தலைவணங்கித் துதித்து புல்லரிப்புடன் கண்ணீர் மல்க குரவில் தழு தழுப்புடன் கைகூப்பி உலகின் நிலையைத் அவர்கிடம் பிரும்மா தெரிவித்தார். அதனைக் கேட்ட ஹரி எல்லாமறிந்தவரானதால் சிரித்துக் கொண்டே பிரும்மாவிடம் ஒரு ரகசியச் செய்தியைக் கூறினார்.

‘சங்ககுடனின் வரலாற்றை அறிவேன். அவன் என் பக்தனான் கோபன். கோலோகத்தில் ஸாதாமா என்றகோபனாக, சிறந்த பணியாளாக இருந்தான். ராதையின் கொடும் சாபத்தால் அஸ்வரப் பிறவியடைந்தான். ஒருநாள் என் அன்புக்குரிய விரஜையுடன் ராஸ மண்டலத்தில் இருந்தேன். பணிப் பெண் வழியே இதனை அறிந்த ராதை கோபம் கொண்டு என்னைக் காணவராதிருந்தான். இதனை அறிந்த விரஜை நதியானான். நானும் மறைந்து விட்டேன். என்னைக் காணுமலே அவன் தன்னிருப்பிடம் சென்றுவிட்டான்.

ஓருநாள் மாவிகையில் ஸாதாமனுடன் இருந்த என்னைக் கண்ட ராதை மெளனத்துடன் அசையாதிருந்த ஸாதாமனிடம் கோபம் கொண்டு ஏசினான். இதனைப் பொறுக்காத ஸாதாமன் அவளிடம் கோபித்து எதிர்த்துப் பேசினான். அதனைக் கேட்டு மேலும் கோபித்துச் சிவந்த கணக்ஞாடன் ஸாதாமனை வெளியேறக் கட்டளையிட்டான். தோழிகஞுக்கெதிரே ஆஸனத்தை விட்டு எழுந்து மறுபடி மறுபடி எதனையோ சொல்கிற ஸாதாமனை அஸ்வரானுகப் பிறப்பாய் எனச்சபித்தான். வாயால் ஏசிக் கொண்டு அழுகையுடன் என்னை வணங்கிவிட்டு வெளியேறுகிற ஸாதாமனை நெகிழ்ந்து தானும் அழுது கருணையுடன் குழந்தாய் ! நில் ! செல்லாதே ! எங்கு போவாய் ! எனக் கத்தி அவளைத்துரத்திக் கொண்டு சென்றான். இதனைக் கண்ட கோபியரும் கோபர்களும் அழுதனர். ராதாவிடம் நான் ஆறுதல்

கூறித் தடுத்தேன். “சாபத்தை அனுபவித்து விட்டு ஸ்ராமன் நொடியில் திரும்பி வருவான். ஸ்ராமனே ! இங்கு வா ! கோலோகத்தின் அரை நொடிபூமியில் ஒருமன்வந்தரகாலமாகும் என்றேன்.

சங்க குடன் மறுபடி கோலோகம் செல்வான். யோக முறையின் வல்லவன். எல்லா மாண்ய முறைகளிலும் தேர்ந்தவன். மிகவும் வலிவு மிக்கவன். என் சூலத்தை எடுத்துச் செல்வீர். சிவன் இதனால் அவனை அழிக்கட்டும். என் மந்திர கவசத்தைக் கழுத்தில் தரித்திருப்பதால் அவனை வெல்ல எவராலும் இயலாது. அந்தனர் வேடத்தில் நான் அவனிடம் சென்று அதனைத் தானமாகப் பெறுவேன். துளஸீயின் பதிவ்ரதைத் தன்மையும் அப்போது அவனை விட்டகலும். அப்போதுதான் அவனுக்கு மரணம் நேரும் என வரம் தந்துள்ளேன். அவனது மனைவியுடன் கூடி அவனது கருவில் என் வீர்யம் பதியும். உடன் அவன் அழிவான். பின்னர் அவனும் தன் உயிர் நீத்து என்னை அடைவான் என்று கூறிச் சிவனிடம் தன் சூலத்தை விட்டு தந்தார்.

—★—

### விஶோऽध்யாயः-२०

**ஶ्रீ நாராயண உவாச—**

**ब्रह्मा शिवं संनियोज्य संहारे दानवस्य च ।**

**जगाम स्वालयं तूर्णं यथास्थानं सुरोत्तमाः ॥ १**

**चन्द्रभागानदीतीरे वटमूले मनोहरे ।**

**तत्र तस्थौ महादेवो देवविस्तारहेतवे ॥ २**

**दूतं कृत्वा चित्ररथं गन्धर्वेश्वरमीप्सितम् ।**

**शीघ्रं प्रस्थापयामास शङ्खचूडान्तिकं मुदा ॥ ३**

**सर्वेश्वराज्ञया शीघ्रं ययौ तन्नगरं परम् ।**

**महेन्द्रनगरोत्कृष्टं कुबेरमवनाधिकम् ॥ ४**

**पञ्चयोजनविस्तीर्णं दैर्घ्यं तदद्विगुणं भवेत् ।**

**स्फटिकाकारमणिभिर्निर्मितं यानवेष्टिम् ॥ ५**

सप्तभिः परिखाभिश्च दुर्गमाभिः समन्वितम्।  
 ज्वलदग्निनिमैः शश्वत्कल्पितं रत्नकोटिभिः ॥ ६  
 युक्तं च वीथीशतकैर्मणिवेदिविचित्रितैः ।  
 परितो वणिजां सौथैर्नानावस्तुविराजितैः ॥ ७  
 सिन्दूराकारमणिभिर्निर्मितैश्च विचित्रितैः ।  
 भूषितं भूषितैर्दिव्यैराश्रमैः शतकोटिभिः ॥ ८  
 गत्वा ददर्श तन्मध्ये शङ्खचूडालयं परम्।  
 अतीव वलयाकारं यथा पूर्णन्दुमण्डलम् ॥ ९  
 ज्वलदग्निशिखाकताभिः परिखाभिश्चतसृभिः ।  
 तद्वर्गमं च शत्रूपामन्येषां सुगमं सुखम् ॥ १०  
 अत्युच्चर्गिगनस्पत्रिभिणि शृङ्गविराजितम्।  
 राजितं द्रादशद्वारैद्वारपालसमन्वितम् ॥ ११  
 मणीन्द्रसारनिमणैः शोभितं लक्ष्मनिदैः ।  
 शोभितं रत्नसोपानै रत्नस्तम्भविराजितम् ॥ १२  
 तदृष्ट्वा पुष्पदन्तोऽपि वरं द्वारं ददर्श सः ।  
 द्वारे नियुक्तं पुरुषं शूलहस्तं च सस्मितम् ॥ १३  
 तिष्ठन्तं पिङ्गलाक्षं च ताम्रवर्णं भयङ्करम्।  
 कथयामास वृत्तान्तं जगाम तदनुज्ञाया ॥ १४  
 अतिक्रम्य च तदद्वारं जगामाभ्यन्तरं पुनः ।  
 न कोऽपि रक्षति श्रुत्वा दूतरूपं रणस्य च ॥ १५  
 गत्वा सोऽभ्यन्तरद्वारं द्वारपालमुवाच ह ।  
 रणस्य सर्ववृत्तान्तं विज्ञापयत मा चिरम् ॥ १६

स च तं कथयित्वा च दूतो गन्तुवाच ह ।  
 गत्वा वै शङ्खचूडं तं ददर्श सुमनोहरम् ॥ १७  
 राजमण्डलमध्यस्थं स्वर्णसिंहासने स्थितम् ।  
 मणीन्द्रचितं दिव्यं रत्नदण्डसमन्वितम् ॥ १८  
 रत्नकृत्रिमपुष्टैश्च प्रशस्तैः शोभितं सदा ।  
 भृत्येन मस्तकन्यस्त स्वर्णच्छत्रं मनोहरम् ॥ १९  
 सेवितं पार्षदगणै रुचिरैः श्वेतचामरैः ।  
 सुवेषं सुन्दरं रम्यं रत्नभूषणभूषितम् ॥ २०  
 माल्येन लेपनं सूक्ष्मं सुवस्त्रं दधतं मुने ।  
 दानवेन्द्रैः परिवृतं सुवेषैश्च त्रिकोटिभिः ॥ २१  
 शतकोटिभिरन्यैश्च भ्रमद्विरखपाणिभिः ।  
 एवंभूतं च तं दृष्ट्वा पुष्पदन्तः सविसमयः ॥ २२  
 उवाच च स वृत्तान्तं यदुक्तं शङ्खरेण च ।  
 पुष्पदन्त उवाच—  
 राजेन्द्र शिवभृत्योऽहं पुष्पदन्ताभिधः प्रभो ॥ २३  
 यदुक्तं शङ्खरेणैव तद्रवीमि निशामय ।  
 राज्यं देहि च देवानामधिकारं च साम्प्रतम् ॥ २४  
 देवाश्च शरणापन्नाः देवेशं श्रीहरिं परम् ।  
 हरिर्दत्त्वाऽस्य शूलं च तेन प्रस्थापितः शिवः ॥ २५  
 पुष्पमद्रानदीतीरे वटमूले त्रिलोचनः ।  
 विषयं देहि तेषां च युद्धं वा कुरु निश्चितम् ॥ २६  
 गत्वा वक्ष्यामि किं शम्भुमथ तद्वद मामपि ।  
 दूतस्य वचनं श्रुत्वा शङ्खचूडः प्रहस्य च ॥ २७

प्रभातेऽहं गमिष्यामि त्वं च गच्छेत्युवाच ह ।  
 स गत्वोवाच तं तूर्णं वटमूलस्थमीश्वरम् ॥ २८  
 शङ्खचूडस्य वचनं तदीयं तन्मुखोदितम् ।  
 एतस्मिन्नन्तरे स्कन्द आजगाम शिवान्तिकम् ॥ २९  
 वीरभद्रश्च नन्दी च महाकालः सुभद्रकः ।  
 विशालाक्षश्च बाणश्च पिङ्गलाक्षो विकम्पनः ॥ ३०  
 विरूपो विकृतिश्चैव मणिभद्रश्च बाष्कलः ।  
 कपिलाख्यो दीर्घदंष्ट्रो विकटस्ताम्रलोचनः ॥ ३१  
 कालकण्ठो बली भद्रः कालजिह्वः कुटीचरः ।  
 बलोन्मत्तो रणक्षाधी दुर्जयो दुर्गमस्तथा ॥ ३२  
 अष्टौ च भैरवा रौद्रा रुद्राश्चैकादशा स्मृताः ।  
 वसवोऽष्टौ वासवश्च आदित्या द्वादशा स्मृताः ॥ ३३  
 हुताशनश्च चन्द्रश्च विश्वकर्माऽधिनौ च तौ ।  
 कुबेरश्च यमश्चैव यजन्तो नलकूबरः ॥ ३४  
 वायुश्च वरुणश्चैव बुधश्च मङ्गलस्तथा ।  
 धर्मश्च शनिरीशानः कामदेवश्च वीर्यवान् ॥ ३५  
 उग्रदंष्ट्रा चोग्रदण्डा कोटरा कैटभी तथा ।  
 स्वर्यं चाष्टभुजा देवी भद्रकाली भयङ्करी ॥ ३६  
 रत्नेन्द्रसारनिर्माणविमानोपरि संस्थिता ।  
 रक्तवस्त्रपरीधाना रक्तमाल्यानुलेपना ॥ ३७  
 नृत्यन्ती च हसन्ती च गायन्ती सुख्वरं मुदा ।  
 अभयं ददाति भक्तेभ्योऽभया सा च भयं रिपुम् ॥ ३८

बिभ्रती विकटां जिहां सुलोलां योजनायताम्।  
 शङ्खचक्रगदापद्मखड्गचमधनुः शरान्॥ ३९  
 खर्परं वर्तुलाकारं गम्भीरं योजनायतम्।  
 त्रिशूलं गगनस्पर्शि शक्तिं च योजनायतम्॥ ४०  
 मुदगरं मुसलं बज्रं खेटं फलकमुज्जवलम्।  
 वैष्णवास्त्रं वारुणास्त्रं वाहेयं नागपात्रकम्॥ ४१  
 नारायणास्त्रं गान्धर्वं ब्रह्मास्त्रं गारुडं तथा।  
 पर्जन्यास्त्रं पाशुपतं जृम्भणास्त्रं च पार्वतम्॥ ४२  
 माहेश्वरास्त्रं वायव्यं दण्डं संमोहनं तथा।  
 अव्यार्थमस्त्रकं दिव्यं दिव्यास्त्रशतकं परम्॥ ४३  
 आगत्य तत्र तस्थौ च योगिनीनां त्रिकोटिभिः।  
 सार्धं च डाकिनीनां च विकटानां त्रिकोटिभिः॥ ४४  
 भूतप्रेतपिशाचाश्च कूष्माण्डा ब्रह्मराक्षसाः।  
 वेताला राक्षसाश्चैव यक्षाश्चैव तु किन्नराः॥ ४५  
 ताभिश्चैव सह स्कन्दः प्रणाम्य चन्द्रदोखरम्।  
 पितुः पार्श्वे सहायार्थं समुवास तदाज्ञया॥ ४६  
 अथ दूते गते तत्र शङ्खचूडः प्रतापवान्।  
 उवाच तुलसीं वार्ता गत्वाभ्यन्तरमेव च॥ ४७  
 रणवार्ता च सा श्रुत्वा शुष्ककण्ठोष्टतालुका।  
 उवाच मधुरं साध्वी हृदयेन विदूयता॥ ४८  
 तुलस्युवाच—  
 हे प्राणबन्धो हे नाथ तिष्ठ मे वक्षसि क्षणम्।  
 हे प्राणाधिष्ठातृदेव रक्ष मे जीवितं क्षणम्॥ ४९

भुंक्ष्व जन्म समासाद्य यन्मे मनसि वाञ्छितम्।  
 पश्यामि त्वां क्षणं किञ्चिल्लोचनाभ्यां च सादरम्॥ ५०  
 आन्दोलयन्ते प्राणा मे मनो दग्धं च सन्ततम्।  
 दुःस्वप्नश्च मया दृष्टश्चाद्यैव चरमे निशि॥ ५१  
 तुलसीवचनं श्रुत्वा भुक्त्वा पीत्वा नृपेश्वरः।  
 उवाच वचनं प्राङ्गो हितं सत्यं यथोचितम्॥ ५२  
 शङ्खचूड उवाच—  
 कालेन योजितं सर्वं कर्म भोगनिबन्धनम्।  
 शुभं हर्षः सुखं दुःखं भयं शोकश्च मङ्गलम्॥ ५३  
 काले भवन्ति वृक्षाश्च स्कन्धवन्तश्च कालतः।  
 क्रमेण पुष्पवन्तश्च फलवन्तश्च कालतः॥ ५४  
 तेषां फलानि पकानि प्रभवन्त्येव कालतः।  
 ते सर्वे फलिताः काले पातं यान्ति च कालतः॥ ५५  
 काले भवति विश्वानि काले नश्यन्ति सुन्दरि।  
 कालात्प्रष्टा च सृजति पाता पाति च कालतः॥ ५६  
 संहर्ता संहरेत्काले क्रमेण संचरन्ति ते।  
 ब्रह्मविष्णु शिवादीनामीश्वरः प्रकृतिः परा॥ ५७  
 स्थापाता च संहर्ता स चात्मा कालनर्तकः।  
 काले स एव प्रकृतिं स्वाभिनां स्वेच्छया प्रभुः॥ ५८  
 निर्माय कृतवान्सर्वान्विश्वस्थांश्च चराचरान्।  
 सर्वेशः सर्वरूपश्च सर्वात्मा परमेश्वरः॥ ५९  
 जनं जनेन जनिता जनं पाति जनेन यः।  
 जनं जनेन हरते तं देवं भज साम्प्रतम्॥ ६०

यस्याज्ञया वाति वातः शीघ्रगामी च साम्प्रतम्।  
 यस्याज्ञया च तपनस्तपत्येव यथाक्षणम्॥ ६१  
 यथाक्षणं वर्षतीन्द्रो मृत्युश्वरति जन्तुषु।  
 यथाक्षणं दहत्यग्निश्चन्द्रो भ्रमति शीतवान्॥ ६२  
 मृत्योर्मृत्युं कालकालं यमस्य च यमं परम्।  
 विमुं स्रष्टुश्च सष्टारं मातुश्च मातृकं भवे॥ ६३  
 संहतर्ँं च संहर्तुस्तं देवं शरणं व्रज।  
 को वा बन्धुश्च केषां वा सर्वबन्धुं भज प्रिये॥ ६४  
 अहं को वा च त्वं का वा विधिना योजितः पुरा।  
 त्वया सार्थं कर्मणा च पुनस्तेन वियोजितः॥ ६५  
 अज्ञानी कातरः शोके विपत्तौ न च पण्डितः।  
 सुखे दुःखे भ्रमत्येव कालनेमिक्रमेण च॥ ६६  
 नारायणं तं सर्वेशं कान्तं यास्यसि निश्चितम्।  
 तपः कृतं यदर्थं च पुरा बदरिकाश्रमे॥ ६७  
 मया त्वं तपसा लब्धा ब्रह्मणस्तु वरेण च।  
 हर्यर्थं यत्तव तपो हरिं प्राप्स्यसि कामिनि॥ ६८  
 वृन्दावने च गोविन्दं गोलोके त्वं लभिष्यसि।  
 अहं यास्यामि तल्लोकं तनुं त्यक्त्वा च दानवीम्॥ ६९  
 तत्र द्रक्ष्यसि मां त्वं च द्रक्ष्यामि त्वां च साम्प्रतम्।  
 अगमं राधिकाशापाद्मारतं च सुदुर्लभम्॥ ७०  
 पुनर्यास्यामि तत्रैव कः शोको मे शृणु प्रिये।  
 त्वं च देहं परित्यज्य दिव्यं रूपं विधाय च॥ ७१

तत्कालं प्राप्स्यसि हरिं मा कान्ते कातरा भव ।  
 इत्युक्त्वा च दिनान्ते च तया सार्धं मनोहरम् ॥ ७२  
 सुष्वाप शोभने तल्ये पुष्पचन्दनं चर्चिते ।  
 नानाप्रकारविभवं चकार रत्नमन्दिरे ॥ ७३  
 रत्नप्रदीपसंयुक्ते खीरक्षं प्राप्य सुन्दरीम् ।  
 निनाय रजनीं राजा क्रीडाकौतुकमङ्गलैः ॥ ७४  
 कृत्वा वक्षसि तां कान्तां रुदतीमतिदुःखिताम् ।  
 कृशोदरीं निराहारां निमग्नां शोकसागरे ॥ ७५  
 पुनस्तां बोधयामास दिव्यज्ञानेन ज्ञानवित् ।  
 पुरा कृष्णेन यदत्तं भाण्डीरे तत्त्वमुत्तमम् ॥ ७६  
 स च तस्यै ददौ सर्वं सर्वशोकहरं परम् ।  
 ज्ञानं संप्राप्य सा देवीं प्रसन्न बदनेक्षणा ॥ ७७  
 क्रीडां चकार हर्षेण सर्वं मत्वेति नश्वरम् ।  
 तौ दम्पतीं च क्रीडन्तौ निमग्नौ सुखसागरे ॥ ७८  
 पुलकाभ्युतसर्वज्ञौ मूच्छितौ निर्जने मुने ।  
 अङ्गप्रत्यञ्जसंयुक्तौ सुप्रीतौ सुरतोत्सुकौ ॥ ७९  
 एकाङ्गौ च तथा तौ द्वौ चार्धेनारीश्वरो यथा ।  
 प्राणेश्वरं च तुलसी मेने प्राणाधिकं परम् ॥ ८०  
 प्राणाधिकां च तां मेने राजा प्राणेश्वरीं सतीम् ।  
 तौ स्थितौ सुखसुखौ च तन्द्रितौ सुन्दरौ समौ ॥ ८१  
 सुवेषौ सुखसंभोगादचेष्टौ सुभनोहरौ ।  
 क्षणं सुचेतनौ तौ च कथयन्तीं रसाश्रवात् ॥ ८२

கथां மனोரமां ஦िव्यां ஹஸन्तौ ச க्षणं புனः ।  
க्षणं ச கेलिसंयुक्तौ ரसभावसमन्वितौ ॥ ८३  
சுரते विरतिनास्ति तौ तद्विषयपणिडतौ ।  
सततं जययुक्तौ द्वी क्षणं नैव पराजितौ ॥ ८४

इति श्री देवीभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे विशोऽध्यायः ॥

—★—

### அத்தியாயம் 20

நாரதரிடம் நாராயணர் கூறுகிறார். பிரூம்மா சிவனே அஸ்ரையழிக்க அமர்த்தியபின் தன் உலகம் சென்றார். சந்திரபாகா நதிக் கரையில் ஆலமரத்தடியில் தேவர்களுக்கு நன்மை புரிவதற்காக, சித்ரரதன் என்ற கந்தர்வனை சங்கசூடனிடம் சிவன் அனுப்பினார்.

ஸர்வேச்வரனின் ஆணையை ஏற்று, தூதன் சங்கசூடனின் மானிகைக்குச் சென்றான். இந்திரன் குபேரன் மானிகைகளோவிட அது அழகானது. ஐந்து யோசனை பரப்பும் பத்து யோசனைஞ்சாமும் கொண்டது. படிகக்கற்களால் அமைந்தது, ஏழு அகிழ்கள். அவற்றின் சுற்றுச் சுவர்கள் ரத்தினத்தால் அமைந்தவை. நூற்றுக் கணக்கான வீதிகள், கடைத் தெருக்கள், கோடிக் கணக்கான ஆக்ரமங்கள். நடுவே வட்ட வடிவில் சங்க சூடனின் மானிகை. சந்திரமண்டலம் போன்றது. வாணித் தொடுகிற உப்பரிகைகள். பன்னிரண்டு வாயில்கள். வாயில் காப்போளின் கட்டுப்பாடில் உள்ளவை. லக்ஷக்கணக்கான வீடுகள். புஷ்பதந்தன் என்ற சிவதூதன் காவலனை அனுகித்தான் வந்த காரணத்தைக் கூற, உள் பிரவேசத்திற்கு அனுமதி பெற்ற காவலன் வழிவிட ஆயிரம் சூர்யகளிடையே ஸிம்ஹாஸனத்தில் அமர்ந்துள்ள சங்கசூடனை அனுகி சிவபெருமான் கூறியதைக் தெரிவித்தான்.

“அரசரில் சிறந்தவரே! சிவனின் தூதன் புஷ்பதந்தன் என்ற நான் பெருமான் கூறியதைச் சொல்கிறேன். தேவர்களிடம் அவர்களது ராஜ்யத்தைத் திரும்பத் தருவாய்! விஷ்ணுவிடம்

சரணமடைந்த தேவர்கள் கோரியபடி விஷ்ணு சிவனிடம் குலம் தந்துள்ளார். புஷ்ப பத்ரா நதிக் கரையில் சிவன் காத்திருக்கிறார். தேவர்களிடம் ராஜ்யத்தைத் தாரீர். அல்லது போரிடுவீர். சிவபெருமானிடம் நான் தெரிவிக்க வேண்டியதைக் கூறுவீர் !” தூதனின் பேச்சைக் கேட்ட சங்கசூடன் நாளைக் காலை நானே நேரில் சிவனிடம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீ செல்லலாம் என்றான். ஆலமரத்தடியில் சிவனிடம் நடந்ததைத் தூதன் தெரிவித்தான்.

இதனிடையே ஸ்கந்தன் சிவனருகே வந்தார். அவருடன் வீரபத்திரர், நந்தி, மஹாகாலர், ஸாபத்ரகர், விசாலாகஷர், பாணர், பிங்களாகஷர், விகம்பனர், விருபார், விக்ருதி, மணிபத்ரர், பாஷ்கலர், கபிலர், தீக்ணைதம்ச்டரர், விகடர், தாம்ரலோசனர், காலகண்டர், பலீ, பத்ரர், காளஜிஹந்வர், குஷர், பலோன்மத்தர், ரணச்லாகீ, தூர்ஜியர், தூர்கமர், எட்டுபைரவர்கள், பதினேரு ருத்ரர்கள், எட்டு வஸாக்கள், இந்திரன், பன்னிரு ஆதித்தியர்கள், அக்னி, சந்திரன், விச்வகர்மா, அச்வினிகள், குபேரன், யமன், ஜயந்தன், நாகூபரன், வாயு, வருணன், புதன், அங்காரகன், யமன், சனி, ஈசானன், மன்மதன் முதலியவர்களும் உக்ரதம்ச்டரா, உக்ரதண்டா, கோடரா, கைடபீ முதலானேரும் வந்தனர். எட்டு கைகளுள்ள பத்ரகாளி ரத்தின விமானத்தில் அமர்ந்தவளாக, செவ்வாடையுடுத்திவளாக, ஆடியும் பாடியும் சிரித்தும் பக்தர்களுக்கு அபயம் அளிப்பவளாக சங்கு, சக்கரம், கதை, தாமரை, கத்தி, கேடயம், வில், அம்பு, கப்பறை, வரணை எட்டுகிறத்திருக்கும், யோசனையளவு நீண்ட சக்திவேல், குருந்தடி, உலக்கை, வஜ்ரம், கேடயம், பலகை, வைஷ்ணவ - வாருண - அக்னி - நாராயண - காந்தரவ - பிரும்ஹ - கருட - பர்ஜன்ய - பாசபத - ஜிரும்பண - பர்வத - மாஹேஸ்வர - வாயு - ஸம்மோஹநாஸ்திரங்கள் இவற்றை ஏந்தியவளாக மூன்று கோடி யோகினிகளும் டாகினி விகடா யோகினிகள், பூத - ப்ரேத - பிசாச - கூஷ்மாண்ட - பிரும்மராகஷல் - வேதாள, ராகஷஸ - யகஷ - கிண்ணரர்களின் படையுடன் காளி முன் நின்றாள். இவர்களுடன் ஸ்கந்தர் தன் தந்தையை வணங்கி ஆணையேற்க, துணை புரிய அருகில் நின்றார்.

தூதன் சென்றதும் சங்க சூடன் துளசியிடம் போர் நிகழ விருப்பதைச் சொன்னான். இதனைக் கேட்டதும் துளஸி பயந்து தொண்டை உதடு வரண்டவளாக உள்ளம் துயருற்றுக் கணவனிடம் கூறினான் “உயிருக்குயிரானநாதனே! சிறிது நேரம் என்னை மார்புற அனைத்துக் கொள்வீர். என் உயிரைக் காப்பீர்! என் உயிர் ஊசலாடுகிறது. என் உள்ளம் எரிகிறது. நேற்றிரவு கடைசியாமத்தில் கெட்டகனவொன்று கண்டேன்” எனப் புலம்புகிறதுளசியின் பேச்சைக் கேட்டு அந்த அறிஞன் இதமும் ஸத்யமும் அப்போது ஏற்றுமாகப் பேசினான்.

சங்க சூடன் கூறினான் - காலம் அனைத்தையும் இனைக்கிறது. வினை இன்பதுன்பங்களைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. மங்களாம் மகிழ்ச்சி, இன்பம், துன்பம், பயம் சோகம், என அனைத்தும் காலத்தால் நேர்பவை. மரம் வளர்வதும் கிளைப்பதும், பூப்பதும் காய்ப்பதும் காய் பழுப்பதும் காலத்தை ஒட்டியவை. காய்ப்பதும் மரம் விழுவதும் காலத்தால், உலகமும் அவ்வாறே காலத்தால் தோன்றி வாழ்ந்து மறைகிறது. மூம்மூர்த்திகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட ப்ரக்ருதி தேவிதான் படைத்துக் காத்து அழிக்கிறான். பரப் பொருள் காலத்தால் தான் தன்னைவிட்டுப் ப்ரக்ருதியைத் தனியே பிரிக்கிறது. அதன் மூலம் உலகத்தை விரிவாக்குகிறது. மக்களை மக்களே பெறுவதும் காப்பதும் அழிப்பதுமாக மக்களைக் கொண்டே உலகை உருபாக்குகிறது. அதனிடம் பயந்தே வாயு அசைகிறது; சூரியன் கொஞ்சத்துகிறான்; அதனிடம் பயந்தே வாயு அசைகிறது; சூரியன் கொஞ்சத்துகிறான்; இந்திரன் மழை பொழுகிறான்; யமன் உயிரைப் பறிக்கிறான்; அக்கினி எரிக்கிறான்; சந்திரன் பூமியைச் சுற்றுகிறான். மிருத்யுவிற்கு அது யமன். படைப்பவணையும் படைப்பது. அழிப்பவணை அழிப்பது; காப்பவனுக்கும் தாய் போல் காப்பது. அவரைச் சரண்டைவாய். எல்லோருக்கும் பந்து அவரே! அவரைச் சரண்டைவாய்.

நீயாரோ! நான் யாரோ! விதிதான்நம்மை இனைத்தது. வினை நம்மைப் பிரிக்கிறது. அறியாதவன் துயருறும்போது பயமடைவான். காலம் சமூலகையில் நாமும் இன்பத்திலும் துண்பத்திலும் சமூல்கிடேரும். நாராயணனே உனது நாதன். அவனைக் குறித்தே பதரிகாச்ரமத்தில் தவம் புரிந்தாய். அந்தத்

तवत्तिनि पयनक, पिरुम्माविणि अरुलाल नाणि उणि कणवगुणेण. नारायणैनक कुरित्तु नी चेयत तवत्ताल उरीये नी अटेवाय. कोलोकत्तिल पिरुन्तावनत्तिल कोविन्तजै अटेवाय. नाञ्चुम् इन्त असार उटलै विट्टु अन्त लोकत्तेत अटेवेण. एन वरुन्तुकिरुम्? नीयुम् इन्त उटलैविट्टु तेवी उरुवम् बेऱ्ऱु उरीये अटेवाय - पयप्पटा॒ते!

इवंवारु आरुत्तलवित्तु अवैणि मास्पोरु अैनात्तु विजौयाट्टिलुम् केाण्टाट्टत्तिलुम् बोम्मैतेप पोक्कि अवैणि मकिञ्चित्ताऩ.

मरुपाति किरुष्णेण पाण्डिर वनत्तिल तनक्कु उपतेचित्ततत्तवत्तेत अवरुक्कुप पोतित्ताऩ. अवैणि अत्ताल तुयरम् नीचियवलाक मुकम् मलर्न्तु अवनुउणि मकिञ्चियुतनि नीलैयर्नवर्त्तैप उर्ऱ्ऱि वरुन्तामलं इैन्पुरुण. उटलोक्तु उटलै उट्टि अर्त्त नारीचिवररकलाक इैन्नन्तनर. तुलालि संककुटनीटम् अैन्पुप बेगुक्काल अतिक नाट्टम् केाण्टाळ. इरवु मुमूवतुम् कैतेपेचिचिरित्तुक केाण्टेवा॒म्भिल्लै.

— ★ —

### एकविंशोऽध्यायः

श्रीकृष्णं मनसा ध्यात्वा रक्षः कृष्णपरायणः ।  
ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय पुष्पतल्पान्मनोहरात् ॥ १  
रात्रिवासः परित्यज्य स्नात्वा मङ्गलवारिणा ।  
धौते च वाससी धृत्वा कृत्वा तिलकमुञ्जवलम् ॥ २  
चकाराह्विकमावश्यमभीष्टदेववन्दनम् ।  
दध्याज्यमधुलाजांश्च ददर्श वस्तु मङ्गलम् ॥ ३  
रक्तश्रेष्ठं मणिश्रेष्ठं वस्त्रश्रेष्ठं च काञ्चनम् ।  
ब्राह्मणेभ्यो ददौ भक्त्या यथा नित्यं च नारद ॥ ४

அமூல்யரத்நं யத்கிஞ்சிந்முக்தாமாणிக்ய ஹிரகம्।  
 ஦दௌ விப்ராய ஗ுரவே யாத்ராமஜ்ஜலஹெதவே ॥ ५  
 ஗ஜரத்நமஶ்வரத்நं ஧னரத்நं மனோஹரம்।  
 ஦दௌ ஸ்ர்வ ஦ரி஦்ராய விப்ராய மஜ்ஜலாய ச ॥ ६  
 மாண்஡ாராணா் ஸஹஸ்ராணி நாராணா் டிலக்ஷகம்।  
 யாமாணா் ஶதகோடிஂ ச பிராஹ்ணாய ஦दௌ முடா ॥ ७  
 புற்ற கூத்வா து ராஜேந்஦்ர ஸ்ர்வேஷு ஦ானவேஷு ச ।  
 புற்ற ஸம்பர்ய ஭ார்யா தா ராஜ்ய ச ஸ்ர்வஸம்ப்பதம் ॥ ८  
 பிரானுநூரசூஷ்சு ச மாண்஡ார் வாஹநாடிகம்।  
 ஸ்வய ஸ்நாஹயுக்தஶ ஧னுஷ்பாணிர்஭வு ஹ ॥ ९  
 மூத்யாநா க்ரமேஷை சகார ஸைந்யஸஂசயம்।  
 அஶ்வாநா ச திலக்ஷேண லக்ஷேண வரஹஸ்திநாம் ॥ १०  
 ர஥ாநாமயுதேநைவ ஧ானுஷ்காணா் திகோடிமி: ।  
 திகோடிமிர்஭ிர்மிணா் ச ஶூலினா் ச திகோடிமி: ॥ ११  
 கூத்வா ஸெநாதபரிமிதா ஦ானவேந்஦ிரேண நாராட ।  
 தஸ்யா் ஸெநாபதிஶ்வை யுஞ்சாக்ரவிஶாராட: ॥ १२  
 மஹாரத: ஸ விஜேயோ ரதிநா் ப்ரவரே ரணே ।  
 திலக்ஷாக்ஷீஹிணி ஸெநாபதிஂ கூத்வா நராதிப: ॥ १३  
 திங்காடக்ஷீஹிணி பாதம் மாண்஡ைஷு ச சகார ஹ ।  
 வஹிர்஭வு திவிராந்மனஸா ஶ்ரீஹரிஂ ஸ்மரந் ॥ १४  
 ரத்வேந்஦ிரஸாரனிமாணவிமானமாருஹஸ: ॥  
 முருவாந்புரஸ்கृத்ய ப்ரயயை ஶக்ராந்திகம் ॥ १५

पुष्पभद्रानदीतीरे यत्राक्षयवटः शुभः ।  
 सिद्धाश्रमं च सिद्धानां सिद्धिक्षेत्रं च नारद ॥ १६  
 कपिलस्य तपः स्थानं पुण्यक्षेत्रं च भारते ।  
 पश्चिमोदधिपूर्वे च मलयस्य च पश्चिमे ॥ १७  
 श्रीशैलोत्तरभागे च गन्धमादनदक्षिणे ।  
 पञ्चयोजनविस्तीर्णा दैर्घ्ये शतगुणा तथा ॥ १८  
 शुद्धस्फटिकसंकाशा भारते च सुपुण्यदा ।  
 शाश्वती जलपूर्णा च पुष्पभद्रानदी शुभा ॥ १९  
 लवणाब्धिप्रिया भार्या शाश्वत्सौभाग्यसंयुता ।  
 शरावतीमिश्रिता च निर्गता सा हिमालयात् ॥ २०  
 गोमर्ती वामतः कृत्वा प्रविष्टा पश्चिमोदधौ ।  
 तत्र गत्वा शश्वच्छूडो ददर्श चन्द्रशेखरम् ॥ २१  
 वटमूले समासीनं सूर्यकोटिसमप्रभम् ।  
 कृत्वा योगासनं दृष्ट्वा मुद्रायुक्तं च सस्मितम् ॥ २२  
 शुद्धस्फटिकसंकाशं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा ।  
 त्रिशूलपट्टिशधरं व्याघ्रचर्माम्बरं वरम् ॥ २३  
 भक्तमृत्युहरं शान्तं गौरीकान्तं मनोहरम् ।  
 तपसां फलदातारं दातारं सर्वसम्पदाम् ॥ २४  
 आशुतोषं प्रसन्नास्यं भक्तानुग्रहकातरम् ।  
 विश्वनाथं विश्वबीजं विश्वरूपं च विश्वजम् ॥ २५  
 विश्वम्भरं विश्ववरं विश्वसंहारकारकम् ।  
 कारणं कारणानां च नरकार्णवतारणम् ॥ २६

---

ज्ञानप्रदं ज्ञानबीजं ज्ञानानन्दं सनातनम् ।  
 अवरुद्ध्य विमानाच्च तं हृष्टा दानवेश्वरः ॥ २७  
 सर्वैः सार्धं भक्तियुक्तः शिरसा प्रणामसः ।  
 वामतो भद्रकालीं च स्कन्दं च तत्पुरः स्थितम् ॥ २८  
 आश्रिषं च ददौ तस्मै काली स्कन्दश्च शङ्करः ।  
 उत्तस्थुरागतं हृष्टा सर्वे नन्दीश्वरादयः ॥ २९  
 परस्परं च भाषां ते चक्रुस्तत्र च साम्प्रतम् ।  
 राजा कृत्व संभाषामुवास शिवसंनिधौ ॥ ३०  
 प्रसन्नात्मा महादेवो भगवांस्तमुवाच ह ।  
 महादेव उवाच—  
 विधाता जगतां ब्रह्मा पिता धर्मस्य धर्मवित् ॥ ३१  
 मरीचिस्तस्य पुत्रश्च वैष्णवश्चापि धार्मिकः ।  
 कश्यपश्चापि तत्पुत्रो धर्मिष्ठश्च प्रजापतिः ॥ ३२  
 दक्षः प्रीत्या ददौ तस्मै भक्त्या कन्याच्छोदशा ।  
 तास्वेका च दनुः साध्वी तत्सौभाग्यविविधिता ॥ ३३  
 चत्वारिंशद्दनोः पुत्रा दानवास्तेजसोल्बणाः ।  
 तेष्वेको विप्रचित्तिश्च महाबलपराक्रमः ॥ ३४  
 तत्पुत्रो धार्मिको दम्भो विष्णुभक्तो जितेन्द्रियः ।  
 जजाप परमं मन्त्रं पुष्करे लक्षवत्सरम् ॥ ३५  
 शुक्राचार्यं गुरुं कृत्वा कृष्णस्य परमात्मनः ।  
 तदा त्वां तनयं प्राप परं कृष्णपरायणम् ॥ ३६  
 पुरा त्वं पार्षदो गोपो गोपेष्वपि सुधार्मिकः ।  
 अधुना राधिकाशापाद्भारते दानवेश्वरः ॥ ३७

आब्रहस्तम्बपर्यन्तं तुच्छं मेने च वैष्णवः ।  
 सालोक्य सार्थिसायुज्यसामीप्यं च हरेरपि ॥ ३८  
 दीयमानं न गृह्णन्ति वैष्णवाः सेवनं विना ।  
 ब्रह्मत्वमरत्वं वा तुच्छं मेने च वैष्णवः ॥ ३९  
 इन्द्रत्वं वा मनुन्त्वं वा न मेने गणनासु च ।  
 कृष्णभक्तस्य ते किं वा देवानां विषये भ्रमे ॥ ४०  
 देहि राज्यं च देवानां मत्प्रीतिं रक्ष भूमिप ।  
 मुखं स्वराज्ये त्वं तिष्ठ देवास्तिष्ठन्तु वै पदे ॥ ४१  
 अलं भूतविरोधेन सर्वे कदयपर्वदाजाः ।  
 यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च ॥ ४२  
 हातिद्रोहस्य पापानि कलौ नार्हन्ति षोडशीम् ।  
 स्वसम्पदां च हानिं च राजेन्द्र यदि मन्यसे ॥ ४३  
 सज्जबिस्था च समतां केषां याति च सर्वदा ।  
 इहाणश्च तिरोभावो लभे प्राकृतिके सदा ॥ ४४  
 आविभाषिः पुनस्तस्य प्रभावादीश्वरेच्छया ।  
 हानवृद्धिश्च तपसा स्मृतिलोपश्च निश्चितम् ॥ ४५  
 करीति सृष्टिं हानेन यथा सोऽपि क्रमेण च ।  
 परिपूर्णतमो धर्मः सत्ये सत्याश्रये सदा ॥ ४६  
 त्रिभागः सोऽपि त्रेतायां द्विभागो द्वापरे स्मृतः ।  
 एकभागः कलौ पूर्वं तदंशश्च क्रमेण च ॥ ४७  
 कला मात्रं कलः शेषे कुहां चन्द्रकला यथा ॥  
 यादक्तेजो रक्षयीष्मे न तादकिञ्चित्पुनः ॥ ४८

दिनेषु यादृङ् मध्याहे सायं प्रातर्न तत्समम्।  
 उदयं याति कालेन बालतां च क्रमेण च ॥ ४९  
 प्रकांडतां च तत्पश्चात्कालेऽस्तं पुनरेति सः ।  
 दिने प्रच्छन्नतां याति कालेन दुर्दिने धने ॥ ५०  
 राहुग्रस्ते कम्पितश्च पुनरेव प्रसन्नताम्।  
 परिपूर्णतमश्वन्द्रः पूर्णिमायां च जायते ॥ ५१  
 तादशो न भवेन्नित्यं क्षयं याति दिने दिने ।  
 पुनश्च पुष्टिमायाति परं कुहा दिनेदिने ॥ ५२  
 संपद्युक्तः शुक्लपक्षे कृष्णे म्लानश्च यक्षमणा ।  
 राहुग्रस्ते दिने म्लानो दुर्दिने न विरोचते ॥ ५३  
 काले चन्द्रेभवेच्छुक्लो भष्टश्रीः काल भेदतः ।  
 भविष्यति बलिश्वेन्द्रो भष्टश्रीः सुतलेऽधुना ॥ ५४  
 कालेन पृथ्वी सस्याद्या सर्वाधारा वसुन्धरा ।  
 कालेन जले निमग्ना सा तिरोभूतां बुविष्टुता ॥ ५५  
 काले नश्यन्ति विश्वानि प्रभवन्त्यैव कालतः ।  
 चराचरश्च कालेन नश्यन्ति प्रभवन्ति च ॥ ५६  
 ईश्वरस्यैव समता ब्रह्मणः परमात्मनः ।  
 अहं मृत्युञ्जयो यस्मादसंख्यं प्राकृतं लयम् ॥ ५७  
 अदर्शं चापि द्रक्ष्यामि वारं वारं पुनः पुनः ।  
 स च प्रकृतिरूपं च स एव पुरुषः स्मृतः ॥ ५८  
 स चात्मा च स जीवश्च नानारूपधरः परः ।  
 करोति सततं यो हि तन्नामगुणकीर्तनम् ॥ ५९

काले मृत्युं स जयति जन्म रोगभयं जराम्।  
 सष्ठा कृतो विधिस्तेन पाता विष्णुः कृतो भवेत्॥ ६०  
 अहं कृतश्च संहर्ता भयं विषयिणः कृताः।  
 कालाग्निरुद्रं संहारे नियोज्य विषये नृप॥ ६१  
 अहं करोमि सततं तन्नामगुणकीर्तनम्।  
 तेन मृत्युञ्जयोऽहं च ज्ञानेनानेन निर्भयः॥ ६२  
 मृत्युमुर्त्युभयाद्याति वैनतेयादिवोरगाः।  
 इत्युक्त्वा स च सर्वेशः सर्वभावेन तत्परः॥ ६३  
 विरराम च शम्भुश्च सभामध्ये च नारद।  
 राजा तद्वचनं श्रुत्वा प्रशशांस पुनः पुनः॥ ६४  
 उवाच मधुरं देवं परं विनयपूर्वकम्।  
 शङ्खचूड उवाच।  
 त्वया यत्कथितं देव नान्यथा वचनं स्मृतम्॥ ६५  
 तथापि किञ्चिद्यथार्थं श्रूयतां मन्त्रिवेदनम्।  
 ज्ञातिद्रोहे महत्पापं त्वयोक्तमधुना च यत्॥ ६६  
 गृहीत्वा तस्य सर्वस्वं कुतः प्रस्थापितो बलिः।  
 मथा समुद्घृतं सर्वमूर्ध्वमैश्वर्यमीश्वरः॥ ६७  
 सुतलाञ्च समुद्घर्तुं नालं तत्र गदाधरः।  
 सभ्रातृको हिरण्याक्षः कथं देवैश्च हिंसितः॥ ६८  
 शुम्भादयश्चासुराश्च कथं देवैर्निर्पातिताः।  
 पुरा समुद्रमथने पीयूषं भक्षितं सुरैः॥ ६९  
 क्लेशमाजो वयं तत्र ते सर्वे फलभोगिनः।  
 क्रीडाभाण्डमिदं विश्वं प्रकृतेः परमात्मनः॥ ७०

यस्मै यत्र स ददाति तस्यैश्वर्थं भवेत्तदा ।  
 देवदानवयोर्वादः शाश्वतैभित्तिकः सदा ॥ ७१  
 पराजयो जयस्तेषां कालेऽस्माकं क्रमेण च ।  
 तदाऽवयोर्विरोधं वा गमनं निष्फलं परम् ॥ ७२  
 समसम्बन्धिनो बन्धोरीश्वरस्य महात्मनः ।  
 इर्यं ते महती लज्जा युद्धोऽस्माभिः सहाधुना ॥ ७३  
 जये ततोऽधिका कीर्तिर्हानिश्चैव पराजये ।  
 इत्येतद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्य च त्रिलोचनः ॥ ७४  
 यथोचितमुत्तरं तमुवाच दानवेश्वरम् ।  
 महादेव उवाच—  
 युष्माभिः सह युद्धे मे ब्रह्मवंशसमुद्धैः ॥ ७५  
 का लज्जा महती राजन कीर्तिर्वा पराजये ।  
 युद्धमादौ हरेरेव मधुना कैटभेन च ॥ ७६  
 हिरण्यकशिपोश्चैव सह तेनात्मना नृप ।  
 हिरण्याक्षस्य युद्धं च पुनर्स्तेन गदाभृता ॥ ७७  
 निष्पुर्वैः सह युद्धं च मयाऽपि च पुरा कृत- ॥ ७८  
 सर्वेश्वर्याः सर्वमातुः प्रकृत्याश्च बभूव ह ॥ ७८  
 सह शुभ्मादिभिः पूर्वसमरः परमाञ्जुतः ।  
 पार्षदप्रवरस्त्वं च कृष्णस्य परमात्मनः ॥ ७९  
 ये ये हताश्च दैतेया न हि केऽपि त्वया समाः ।  
 का लज्जा महती राजन्मम युद्धे त्वया सह ॥ ८०  
 सुराणां शरणस्यैव प्रेषितश्च हरेरहो ।  
 देहि राज्यं च देवानामिति मे निश्चितं वचः ॥ ८१

युद्धं वा कुरु मत्सार्थं वागव्यये किं प्रयोजनम् ।  
इत्युक्त्वा शङ्करस्तत्र विरराम च नारद ।  
उत्तरस्थौ शङ्कचूडश्च ह्यमात्यैः सह सत्वरम् ॥ ८२

इति श्रीदेवीभागवते नवमस्कन्धे एकविंश्तोऽध्यायः

— ★ —

அத்தியாயம் - 22

சங்க சூடன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனை மனத்தில் தியானித்துக் கொண்டேவிடியற்காலைபூப்படுக்கையிலிருந்து எழுந்து இரவில் தரித்த ஆடையைநீக்கி, மங்களாநீல் நீராடி, தூய ஆடை உடுத்தித் திலகமிட்டு, காலை தெய்வக் கடன்களை செய்து இஷ்ட தெய்வத்தை வணங்கி, தயிர் நெய் தேன் பொரி என்ற மங்களப் பொருக்கலைக் கண்டு, ரத்தினம் தங்கம் ஆடை முதலியவற்றை அந்தணர்களுக்கு வழங்கி, ரத்தினத்தை யாத்ராதானமாக ஒர் அந்தணருக்குத்தந்தான். ஏழைக்கு யானைகுதிரை பணம் எல்லாம் அளித்தான். தன் புதல்வனை அரசனுக்கி, அஸ்ராக்களிடம் அவனையும் மனைவியைம் அரசையும் காக்கப் பணித்தான். தானும் போருக்கு ஆயத்தமாகக் கவசமணிந்து வில்லேஞ்சிப் பெரும்படை உடன் வர மனத்தில் ஹரியைத் தியானித்து வெளியேறினான்.

ரத்தின விமானமேறி ஆசார்யர்களை வணங்கிப் புஷ்ப பத்திரா நதிக் கரையில் அக்ஷய வடத்தினருகே ஸித்தாசிரமமென்ற கபிலின் தவக் கூடம் வந்தான். மேற்குக் கடலுக்கு கிழக்கில், மலயத்திற்கு மேற்கில், ஸுவைகளத்திற்கு வடக்கில் கந்தமாதனத்திற்குத் தெற்கில் புவுபபத்திரா நதி ர யோசனை பரப்பும் 500 யோசனை நீளமும் ஒடுகிற நதி படிகம் போன்று தெளிந்தநீருள்ளது. வலனை ஸுழுத்ததின் அண்புக்குசிய மனைவி. இமய மலையிலிருந்து வருகிற சராவதி நதியுடன் இணைகிறது. கோமதியின் வலப்புறத்தில் மேற்குக் கடலில் கலக்கிறது. அங்கு சங்கசூடன் ஆலமரத்தடியில் அமாந்திருந்த சிவனைக்கண்டான். யோகாஸனத்தில் சின் முத்திரையுடன் படிக

ஒளியடன் பிரும்ம தேஜஸாடன், திரிசூலமும் பட்டாக்கத்தியும் ஏந்தி புவித் தோலை ஆடையாக உடுத்தி பக்தருக்கு மரணபயம் நீக்குபவராக அமர்ந்திருந்தார். சாந்தராக, கொளியின் மனுளராக, தவத்தின் பயனை அளிப்பவராக, எல்லாச் செல்வத்தையும் தருபவராக, எளிதில் மகிழ்பவராக, தெளிந்த முகத்துடன் பக்தனுக்கு அருள் புரியத் துடிப்பவராக, உலகின் மூல காரணமான விதையானவராக அவர்காடசி அளித்தார். உலகின் மூல விதை அவரே. உலகைத் தாங்குபவர், உலகை ஒடுக்குபவர். நரகக் கடலைத் தாண்டுவிப்பவர். விமானத்திலிருந்து இறங்கி அவரை அஸூரன் வணங்கினான். அவரது இடது பக்ததிலிருந்த பத்திரகாளியையும் முன்நிற்கிற ஸ்கந்தரையும் வணங்கினான்.

சங்கரரும், காளியும், ஸ்கந்தரும் அவனுக்கு ஆசி வழங்கினர். நந்தி முதலானேர் எழுந்து வழுவேற்றனர். சிறிது நோம் அனைவருடனும் பேசி விட்டுச் சிவனாருகே வந்த அஸூரனிடம் சிவன் சொன்னார். உலகைப் படைக்கிற பிரும்மாவிற்கு மர்சியும், மர்சிக்குக் கசியாடும் புதல்வர்கள். தஷன் தனது பதிமுன்று பெண்களைக் கசியப்படுக்கு மனைவிகளாக்கினான். அவர்களில் தன் செல்லப்பத்தில் கர்வம் மிக்க தனுவும் ஒருவள். அவனுக்கு தாந்பது புதல்வர்கள். அவர்களில் விப்ரசித்தி என்பவனுக்கு தம்பன என்ற புதல்வன் பிறந்தான். அவன் விஷ்ணு பக்தன். புலன்களை ஆடக்கியவன். புஷ்கரத்தில் வகும் ஆண்டுகள் கக்ராசாய்சிடமி. நாலூ பெற்ற ஸ்ரீ கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபித்தான். அப்போது அவனிடம் நீ பிறந்தாய். அதற்குமுன் கோபர்களில் சிறந்த ராஜத்திடம் சாபம் பெற்றதால் அஸூரனைகப் பிறந்தாய். விஷ்ணு பக்தி எதனையும் நாடமாட்டார். விஷ்ணுவின் உலகின் வசிப்பதையோ, அருகாமையையோ அவரோடு கூடுவதையோ கூடப் பலனுக் குதிர்பார்க்க மாட்டார்கள். பிரும்ம புதலியையோ அமரி நிலையையோ துச்சமெனக் கருதுவர். இந்திரனுவதோ, மனுவாவதோகூடவிருப்பத்திற்குரியதல்ல. கிருஷ்ணபக்தனுன் உனக்குத் தேவர்களின் ராஜ்யம் எதற்கு? அதையோ அவர்களிடம் திருப்பிக் கொடுப்பாய். நின்ன ராஜ்யத்தில் கக்மாய் இருப்பாய். தேவர்கள் தம் ராஜ்யத்தில் கக்மாக இருக்கட்டும்.

நீங்கள் அனைவரும் கசியப வம்சத்தினர். ஜ்ஞாதிகஞக்குத் துரோகம் செய்வது பிரும்ம ஹத்யையை விடக் கொடிய பாபம். தன் உரிமைகளை இழப்பதைப் பெரிதாக நினைக்காதே! எவருக்கும் ஒரே நிலை தொடர்ந்திராது. பிரக்குதி விளைவிக்கிற பிரளையத்தில் பிரும்மாவும் மறைய நேர்கிறது. மறுபடி அவர் தோன்றுகிறார். ஞானம் முதிர்வதும் நினைவு அகலவதும் இயல்பே.

ஞானத்தைக் கொண்டு பிரும்மா படைக்கிறார். கிருத யுகத்தில் தர்மம் பூர்ணமாகத் துவங்குகிறது. த்ரேதாயுகத்தில் முக்கால் பங்கும், துவாபரத்தில் அரைபங்கும், கலியில் கால் பங்கும்தான் உள்ளது. கடைசியில் ஒரு கலை மட்டும் அமாவாசையன்று சந்திரகலைபோல் தேய்கிறது. சூரியன் கிரீஷ்ம ருதுவில் போல சிரி ருதுவில் ஒளியும் குடும் பெறுவதில்லை. காலையில் இருப்பது போல் நடுப்பகலிலும் மாலையிலும் இல்லை. உதிப்பவன் இளங்குரியன், கடும் சூடுள்ளவன், மங்குபவன் என மாறுதல்கள் பல. ராகு பிடித்ததும் குறைவும் பின் நிறைவும் காணமுடிகிறது. பூர்ண சந்திரன் தினம் ஒரு கலையாக இழந்து மறுபடி கலைகளைப் பெற்றுப் பூர்ணங்கிறான். கிரகணத்திலும் அவ்வாறே சிறிதாகத் தேய்ந்து மறுபடி பூர்ண நிலை பெறுகிறான். மஹாபவியும் இந்திரனுகி மறுபடி பதவியிழந்து ஸ்தலத்தில் இப்போது உள்ளான்.

ஒரு காலத்தில் பூமி பயிர் நிறைந்து உலகின் ஆதாரமாகிப் பின் பிரளை நீரில் கரைந்து மறைகிறான். பரம் பொருளின் ஸமந்தூல பிரும்மாவிற்கு உண்டு. நான் மரணத்தை வென்றதால் மிருத்யுஞ்ஜயங்குனேன். பல பிரளைங்களைக் கண்டிருக்கிறேன். பரக்குதி, புருஷன், ஜீவன் எனப் பல நிலைகளில் காணப்படுகிற பரப் பொருளை உணர்ந்து அவரது நாமத்தையும் குணத்தையும் பாடுபவன் மரணத்தை வெல்கிறான். பிரும்மாவைப் படைப்பவராக, விஷ்ணுவைக் காப்பவராக என்னை ஒடுக்குபவனாக, உலகைப் பயத்தினுள் ஆட்படுவராக ஆக்கியவர் அந்தப் பரமபுருஷரே. நான் எப்போதும் அவரது குணங்களைப் பாடி அதனால் ஏற்பட்ட ஜ்ஞானத்தால் பயமின்றி மரணத்தை வென்ற மிருத்யுஞ்ஜயங்குனேன். கருடனிடம் பாம்பு நடுங்குவது போல் யமன்தனக்கு மரணம் நேருமோன நடுங்குகிறான் என்று சிவன் விளக்கிறார்.

அரசன் சங்கசூடன் சிவனது உபதேசத்தைப் பாராட்டி வினயத்துடன் தன் கருத்தைத் தெரிவித்தான். தேவரே ! நீர் கூறியதற்கு மாறுபட்ட கருத்து எனக்கு இல்லை. ஆனாலும் உண்மை நிலை பற்றி என்விண்ணப்பத்தைக் கேட்பீர். ஜ்ஞாதிக்குத் துரோகம் விளைப்பது பெரும் பாபம் என்றீர். ஆனால் பலியின் முழு உரிமைப் பொருளையும் பிடிக்கிக் கொண்டு அவனைப் பாதாளத்திற்கு விரட்டியது ஏன்? நான் மேலுலகத்து ஐச்வர்யமணைத்தையும் பிடிக்கிக் கொண்டேன். பாதாளத்திலிருந்து பலியை மீட்க விஷ்ணுவால் இயலவில்லை. ஹிரண்யாகஷனும் அவனது ஸஹோதரனும் தேவர்களால் அழிக்கப் பெற்றனர். சம்பன் முதலான அசரர்கள் அழிக்கப்பட்டார்களே! முன் பாற்கடலைக் கடைந்தெடுத்த அழுதம் தேவர்களால் மட்டும் பருகப் பெற்றது. உழைத்துக் கஷ்டப்பட்டவர்கள் நாங்கள். பலனை அனுபவித்தவர் அவர்கள். பிருகிருதி தேவிக்கும் பரமாத்மாவிற்கும் இவ்வுலகம் விளையாட்டுத்திடல். எவருக்கு எதனைத் தருகிறாரோ அவருக்கு அது உரிமை. ஏதோ ஒரு காரணம் பற்றி தேவதானவர்களிடையே போரும். தோல்வியும், வெற்றியும் மாறி மாறி வரும். எங்களிடையே விரோதமோ, ஒற்றுமையோ பயனற்றது. எங்களிருவரிடமும் ஸமமான தொடர்புள்ள ஈசன் எங்களுடன் போரிடவருவது வெட்கப்படத் தக்கதே. வெற்றியில் புகழும் தோல்வியில் நஷ்டமும் நேரும்.” இவ்வாறு சங்கசூடன் கூறியதைக் கேட்ட சிவன் சிரித்துக் கொண்டே சொன்னார்.

“நீங்கள் பிரும்மாவின் வழித் தோன்றல்கள். உங்களுடன் போரிடுவதில் எனக்கு வெட்கமோ, உம் தோல்வியில் புகழோ இல்லை. முதலில் ஹரி மதுகைடபர்களுடன் போரிட்டார். ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாகஷனுடன் பின் போரிட்டார். திரிபுரனுடன் நான் போரிட்டேன். ஸர்வேச்வரியான பிருக்ருதி தேவி சம்பன் முதலானவருடன் போரிட்டாள். கிருஷ்ணனின் பார்ஷதர்களில் நீ சிறந்தவன். இதற்குமுன் அழிந்த அசரர்களில் உனக்கு ஈடானவர் எவருமில்லை. உன்னுடன் போரிடுவதில் எனக்கு வெட்கமேது? தேவர்களுக்குச் சரணம் தந்த ஹரி என்னை அனுப்பினார். தேவர்களிடம் அவர்களது ராஜ்யத்தைத் திருப்பித்

तरुवायं लंपतु इन्द्रिमान वाक्कु, इन्निटम् प्रोपारीद्वाय়।  
वैन्नं प्रेचक एतरंकु? इव्वारु त्रिवन्नं चोग्गन्तुम् चन्ककुटनं  
तन्नं अग्नेश्चर्सक्कुटनं प्रोपारीट वेकमाक वन्त्तानं।

— ★ —

## द्राविशोऽध्यायः

श्री नारायण उवाच—

शिवं प्रणन्य शिरसा दानवेन्द्रः प्रतापवान्।  
समारुरोह यानं च सहामात्यैः स सत्वरः ॥ १  
शिवः स्वसैन्यं देवांश्च प्रेरयामास सत्वरम्।  
दानवेन्द्रः ससैन्यश्च युद्धारम्भे बभूव ह ॥ २  
स्वयं महेन्द्रो युयुधे सार्थं च वृषपर्णा।  
भास्करो युयुधे विप्रचित्तिना सह सत्वरः ॥ ३  
दम्भेन सह चन्द्रश्च चकार परमं रणम्।  
कालस्वरेण कालश्च गोकर्णेन हुताशनः ॥ ४  
कुबेरः कालकेयेन विश्वकर्मा मयेन च।  
भयङ्करेण मृत्युश्च संहारेण यमस्तथा ॥ ५  
विकङ्कणेन वरुणश्च लेन समीरणः।  
बुधश्च धृतपृष्ठेन रक्ताक्षेण शनैश्चरः ॥ ६  
जयन्तो रक्षसारेण विसबो वर्दसी गणैः।  
अथिनौ च दीसिमता धूमेण ललकूवरः ॥ ७  
धुरन्धरेण धर्मश्च उषाक्षेण च भङ्गलः।  
शोभाकरेण वै भानुः रितरेण च मन्त्रयः ॥ ८  
गोधामुखेन धूषेन खद्गेन च व्यजेन च।  
काश्चीमुखेन पिण्डेन धूमेण सह मन्दिना ॥ ९

विश्वेन च पलाशेनादित्याद्या युयुधुः परे ।  
 एकादश च रुद्रावै एकादशभयङ्करैः ॥ १०  
 महामारी च युयुधे चोग्रचण्डादिभिः सह ।  
 नन्दीश्वरादयः सर्वे दानवानां गणैः सह ॥ ११  
 युयुधुश्च महायुज्ञे प्रलयेऽपि भयङ्करे ।  
 वटमूले च शम्भुश्च तस्थौ काल्या सुतेन च ॥ १२  
 सर्वे च युयुधुः सैन्यसमूहाः सततं मुने ।  
 रत्नसिंहासने रम्ये कोटिभिर्दिनवैः सह ॥ १३  
 उवास शङ्खचूडश्च रत्नभूषणभूषितः ।  
 शङ्करस्य च ये योधा दानवैश्च पराजिताः ॥ १४  
 देवाश्च दुदुबुः सर्वे भीताश्च क्षतविग्रहाः ।  
 चकार कोपं स्कन्दश्च देवेभ्यश्चाभयं ददौ ॥ १५  
 बलं च स्वगणानां च वर्धयामास तेजसा ।  
 सोऽयमेकश्च युयुधे दानवानां गणैः सह ॥ १६  
 अक्षौहिणीनां शतकं समरे च जघान सः ।  
 असुरान्पातयामास काली कमललोचना ॥ १७  
 पपौ रक्तं दानवानामतिकुञ्छा ततः परम् ।  
 दशलक्षगजेन्द्राणां शतलक्षं च कोटिशः ॥ १८  
 समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेप लीलया ।  
 कबन्धानां सहस्रं च ननर्त समरे मुने ॥ १९  
 स्कन्दस्य शरजालेन दानवाः क्षतविग्रहाः ।  
 भीताश्च दुदुबुः सर्वे महारणपराक्रमाः ॥ २०

वृषपर्वा विप्रचित्तिर्दम्भश्चापि विकङ्गणः ।  
 स्कन्देन सार्थं युयुधुस्ते सर्वे विक्रमेण च ॥ २१  
 महामारी च युयुधे न बभूव च पराइमुखी ।  
 बभूवस्ते च संक्षुब्धाः स्कन्दस्य शक्तिपीडिताः ॥ २२  
 न दुदुवुर्भयात्स्वर्गे पुष्पवृष्टिर्भूव ह ।  
 स्कन्दस्य समरं दृष्ट्वा महारुद्रसमुल्बणम् ॥ २३  
 दानवानां क्षयकरं यथा प्राकृतिको लयः ।  
 राजा विमानमारुह्यं चकार बाणवर्षणम् ॥ २४  
 नृपस्य शरवृष्टिश्च धनस्य वर्षणं यथा ।  
 महाघोरान्धकारश्च वह्नयुत्थानं बभूव च ॥ २५  
 देवाः प्रदुद्रवुः सर्वेऽप्यन्ये नन्दीश्वरादयः ।  
 एक एव कात्तिकियस्तस्थौ समरमूर्धनि ॥ २६  
 पर्वतानां च सपर्णां शिलानां शाखिनां तथा ।  
 नृपश्चकार वृष्टिं च दुर्वारां च भयङ्करीम् ॥ २७  
 नृपस्य शरवृष्ट्या च प्रहितः शिवनन्दन ।  
 नीहारेण च सान्द्रेण प्रहितो भास्करो यथा ॥ २८  
 धनुश्चिच्छेद स्कन्दस्य दुर्वहं च भयङ्करः ।  
 बभंज च रथं दिव्यं चिच्छेद रथपीठकान् ॥ २९  
 मयूरं जर्जरीभूतं दिव्यास्त्रेण चकार सः ।  
 शक्तिं चिक्षेप सूर्याभां तस्य बक्षसि धातिनीम् ॥ ३०  
 क्षणं मूर्छा च संप्राप बभूव चेतनः पुनः ।  
 गृहीत्वा तद्भुदिव्यं यद्वत्तं विष्णुना पुरा ॥ ३१

रत्नेन्द्रसारनिर्माणयानमारुद्ध कार्तिकः ।  
 शख्साखं गृहीत्वा च चकार रणमुल्वणम् ॥ ३२  
 सर्पाश्च पर्वतांश्चैवं वृक्षांश्च प्रस्तरांस्तथा ।  
 सर्वांश्चिच्छेद कोपेन दिव्याख्वेण शिवात्मजः ॥ ३३  
 वहिं निर्विपयामास पार्जन्येन प्रतापवान् ।  
 रथं धनुश्च चिच्छेद शङ्खचूडस्य लीलया ॥ ३४  
 सवाहं सारथिं चैव किरीटं मुकुटोज्ज्वलम् ।  
 चिक्षेप शक्तिं शुक्लाभां दानवेन्द्रस्य वक्षसि ॥ ३५  
 मूर्च्छा सम्प्राप्य राजा च चेतनश्च बभूव ह ।  
 आरुरोह यानमन्यद्धनुजग्राह सत्वरः ॥ ३६  
 चकार शरजालं च मायया मायिनां वरः ।  
 गुहं चच्छाद समरे शरजालेन नारद ॥ ३७  
 जग्राह शक्तिमव्यग्रां शतसूर्यसमप्रभाम् ।  
 प्रलयाग्निशिखरूपां विष्णोश्च तेजसा वृताम् ॥ ३८  
 चिक्षेप तां च कोपेन महावेगेन कार्तिके ।  
 पपात शक्तिस्तदगात्रे वहिराशिरिवोज्ज्वला ॥ ३९  
 मूर्च्छा सम्प्राप शक्त्या च कार्तिकियो महाबलः ।  
 काली गृहीत्वा तं क्रोडे निनाय शिवसन्धिधौ ॥ ४०  
 शिवस्तं चापि ज्ञानेन जीवयामास लीलया ।  
 ददौ बलमनन्तं च समुत्तस्थौ प्रतापवान् ॥ ४१  
 काली जगाम समरं रक्षितुं कार्तिकस्य या ।  
 वीरास्तामनु जग्मुश्च ते नन्दीश्वरादयः ॥ ४२

सर्वे देवाश्र गन्धर्वा यक्षराक्षसकिन्नराः ।  
 वायभाणडाश्च बहुशः शतशो मधुवाहकाः ॥ ४३  
 सा च गत्वाऽथ संग्रामं सिंहनादं चकार च ।  
 देव्याश्र सिंहनादेन प्रापुर्मूर्छ्छां च दानवाः ॥ ४४  
 अद्वाइतासमशिवं चकार च पुनः पुनः ।  
 दृष्ट्वा पपौ च माध्वीकं ननर्त रणमूर्धनि ॥ ४५  
 उग्रदंष्ट्रा चोग्रदण्डा कोटकी च पपौ मधु ।  
 योगिनीडाकिनीनां च गणाः सुरगणादयः ॥ ४६  
 दृष्ट्वा कालीं शङ्खचूडः शीघ्रमाजौ समाययौ ।  
 दानवाश्र भयं प्रापुः राजा तेभ्योऽभयं ददौ ॥ ४७  
 काली चिक्षेप वहिं च प्रलयाग्निशिखोपमम् ।  
 राजा निवापियामास पार्जन्येन च लीलया ॥ ४८  
 चिक्षेप वारुणं सा च तीव्रं च महदद्वुतम् ।  
 गान्धर्वेण च चिच्छेद दानवेन्द्रश्च लीलया ॥ ४९  
 माहेश्वरं प्रचिक्षेप काली वहिशिखोपमम् ।  
 राजा जघान तं शीघ्रं वैष्णवेन च लीलया ॥ ५०  
 नारायणाखं सा देवी चिक्षेप मन्त्रपूर्वकम् ।  
 राजा ननाम तदृष्ट्वा चावरुद्य रथादसौ ॥ ५१  
 ऊर्ध्वं जगाम तत्त्वाखं प्रलयाग्निशिखोपमम् ।  
 पपात शङ्खचूडश्च भक्त्या तं दण्डवद्वुवि ॥ ५२  
 ब्रह्माखं सा च चिक्षेप यत्ततो मन्त्रपूर्वकम् ।  
 ब्रह्माखेण महाराजो निवर्पिं च चकार सः ॥ ५३

तथा चिक्षेप दिव्याखं सा देवी मन्त्रपूर्वकम्।  
 राजा दिव्याखजालेन तन्निर्वाणं चकार च ॥ ५४  
 देवी चिक्षेप शक्तिं च यत्प्रतो योजनायताम्।  
 राजा दिव्याखजालेन शतखण्डं चकार ह ॥ ५५  
 जग्राह मन्त्रपूतं च देवी पाशुपतं रुषा ।  
 निक्षेपणं निरोद्धुं च वाग्बभूवाशरीरिणी ॥ ५६  
 मृत्युः पाशुपते नास्ति नृपस्य च महात्मनः ।  
 यावदस्ति च मन्त्रस्य कवचं च हरेरिति ॥ ५७  
 यावत्सतीत्वमस्त्येव सत्याश्र नृपयोषितः ।  
 तावदस्य जरा मृत्युनास्तीति ब्रह्मणो वचः ॥ ५८  
 इत्याकर्ण्य भद्रकाली न तच्चिक्षेप शख्कम्।  
 शतलक्षं दानवानां जग्रास लीलया क्षुधा ॥ ५९  
 ग्रस्तुं जगाम वेगेन शङ्खचूडं भयङ्करी ।  
 दिव्याखेण सुतीक्षणेन वारयामास दानवः ॥ ६०  
 खड्गं चिक्षेप सा देवी ग्रीष्मसूर्योपमं यथा ।  
 दिव्याखेण दानवेन्द्रः शतखण्डं चकार सः ॥ ६१  
 पुनर्ग्रस्तुं महादेवी वेगेन च जगाम तम्।  
 सर्वसिद्धेश्वरः श्रीमान्वृधे दानवेश्वरः ॥ ६२  
 वेगेन मुष्टिना काली कोपयुक्ता भयङ्करी ।  
 बभंज च रथं तस्य जघान सारथिं सती ॥ ६३  
 सा च शूलं च चिक्षेप प्रलयाग्निशिखोपमम्।  
 वामहस्तेन जग्राह शङ्खचूडः स्वलीलया ॥ ६४

मुष्ट्या जघान तं देवी महाकोपेन वेगतः ।  
 ब्रह्माम च तथा दैत्यः क्षणं मूर्च्छामवापच ॥ ६५  
 क्षणेन चेतनां प्राप्य समुत्तस्थौ प्रतापवान् ।  
 न चकार बाहुयुद्धं देव्या सह ननाम ताम् ॥ ६६  
 देव्याश्वास्त्रं च चिच्छेद जग्राह च स्वतेजसा ।  
 नास्त्रं चिक्षेप तां भक्तो मातृभक्त्या तु वैष्णवः ॥ ६७  
 गृहीत्वा दानवं देवी भ्रामयित्वा पुनः पुनः ।  
 ऊर्ध्वं च प्रापयामास महावेगेन कोपिता ॥ ६८  
 ऊर्ध्वात्पपात वेगेन शङ्खचूडः प्रतापवान् ।  
 निपत्य च समुत्तस्थौ प्रणम्य भद्रकालिकाम् ॥ ६९  
 रत्नेन्द्रसारनिर्माणं विमानं सुमनोहरम् ।  
 आरुरोह हर्षयुक्तो न विश्रान्तो महारणे ॥ ७०  
 दानवानां च क्षतजं सा देवी च पपौ क्षुधा ।  
 पीत्वा भुक्त्वा भद्रकाली जगाम शङ्खरान्तिकम् ॥ ७१  
 उवाच रणवृत्तातं पौरीपर्यं यथाक्रमम् ।  
 श्रुत्वा जहास शम्भुश्च दानवानां विनाशनम् ॥ ७२  
 लक्षं च दानवेन्द्राणामवशिष्टं रणेऽधुना ।  
 भुञ्जन्त्या निर्गतं वक्त्रात्तदन्यं भुक्तमीश्वर ॥ ७३  
 संग्रामे दानवेन्द्रं च हन्तुं पाशुपतेन वै ।  
 अवध्यस्तव राजेति वाग्बभूवाशरीरिणी ॥ ७४  
 राजेन्द्रश्च महाज्ञानी महाबलपराक्रमः ।  
 न च चिक्षेप मय्यस्त्रं चिच्छेद मम सायकम् ॥ ७५

इति श्रीदेवीभागवते नवमस्कन्धे द्वाविंशोद्ध्यायः

— ★ —

### அத்தியாயம் - 22

நாரதரிடம் நாராயணர் கூறுகிறார். அசரர்களில் சிறந்த சங்ககுடன் சிவனைத் தலையால் வணங்கித்தன் அமைச்சர்களுடன் ரதமேறினான். சிவன் உடன் தன் படையைப் போரிட ஏவினார். இந்திரன் விருஷ்பர்வாவுடனும் ஸுர்யன் விப்ரசித்தியுடனும் சந்திரன் தம்பனுடனும், யமன் கால ஸ்வரானுடனுமென அவரவர்தனித்தனியே தக்க வீரருடன் போரிட்டனர்.

ஆலமரத்தடியில் சிவன் காளியுடனும் ஸகந்தருடனும் தங்கியிருந்தார். சங்க குடனும் தன் மந்தரிகளுடன் போரைக் கண்காணித்தான். சிவனது படை வீரர்கள் அசரப் படையால் தோற்கப் பெறுவதைக்கண்ட ஸ்கந்தர் தேவர்களுக்கு அபயமளித்துத்தானே போரிடத் தொடங்கியதும் ஸகந்தரின் சக்திவேலால் அடிப்பட்ட அசரர்கள் பயந்தோடினர். உடன் சங்ககுடன் விமானத்திலேறி வானிலிருந்து அம்பு மழைபெய்யுத்த பூமி இருஞ்சது. தீ எங்கும் பரவியது. தேவர்கள் பயந்து ஓடினர். ஸகந்தர்மட்டும் போராங்கின்முன்தின்றுர்.

சங்ககுடன் மலைகளையும் பாம்புகளையும் பாறைகளையும் மரங்களையும் அம்பாக வர்ஷித்தான். ஸகந்தனின் வில்லை ஒடித்துத் தேரை உடைத்து மயிலை விலவிலக்கச் செய்தான். தன் சக்தி ஆயுதத்தை கந்தன் மார்பின் மீது வீசினான். சிவனின் மைந்தன் மார்பில் அடிப்பட்டுச் சிறிது நேரம் கலங்கி நின்றான். தீவிய அஸ்தரங்களால் எதிரியின் பாணமழையை அழித்து தெருப்பை அணைத்து சங்ககுடனின் வில்லை ஒடித்தான். தேரை உடைத்தான். சக்தியால் மார்பில் அடித்தான். கணதோறும் கலங்கிடுவின்ற அஸுரன் விஷ்ணுவின் ஆற்றல் கொண்ட தன் சக்தியால் கந்தனை அடித்ததும் கந்தன் மயக்கமுற்றான்.

உடன் காளி கந்தனை மடியில் ஏந்தி சிவனிடம் கொண்டு, சிவன் நிலைவூட்டிக் கந்தனுக்கு வலிவூட்டினார். காளி போகுக்கு நந்தி முதலானுரூடன் சென்றான். அவளது கர்ஜ்ஜனைக் கேட்ட அசரர்கள் மயங்கி விழுந்தனர். மதுபானம் செய்து அட்டறொலத்துடன் திவ்யாஸ்திரங்களைச் சங்ககுடன் மீது பொழிய அவனும் மாற்று திவ்யாஸ்திரங்களால் அவற்றை அழித்தான்.

தேவியால் ப்ரயோகிக்கப் பெற்ற அஸ்திரங்கள் அனைத்தும் அஸ்ரங்கள் பயனற்றதாககப் பெற்றன. உடன் காளி பாசுபதாஸ்திரத்தை மந்திரித்து அஸ்ரன் மீது ஏவழற்பட்டாள். அப்போது அசரீரி வாக்கு எழுந்தது, “பாசுபதாஸ்தரத்தால் அஸ்ரனை அழிக்க இயலாது. அவனது உடலில் ஹரியின் மந்தரத்தால் சக்திபெற்ற கவசம் உள்ளது. அவனது மனைவியின் கற்பும் அவனைக் காக்கிறது. அவனது கற்பு அவனிடம் முதுமையும் மரணமும் அனுகாமல் பாதுகாக்கிறது” என. இதனைக் கேட்ட காளி பாசுபதாஸ்தரத்தை அசரன் மீது எய்யவில்லை. தன் அகன்றவாயால் லக்ஷக் கணக்கில் அசுரர்களை விழுங்கினான். அதனை அஸ்ரன் தன் அஸ்திரத்தால் தடுத்தான். காளியின் கத்தியையும் தன் அஸ்திரத்தால் தூளாக்கினான். காளியின் கோபத்தைக் கண்டதும் அஸ்ரன் வான மளாவ வளர்ந்தான்.

காளி கோபத்துடன் முஷ்டியால் அவன் ரதத்தையும், ஸாரதியையும் தாக்கி, சூலத்தை அஸ்ரன் மீது ஏறிந்தாள். சங்கசூடன் அதனை இடது கையால் பிடித்துவிட்டான். காளி கோபத்தால் எழுந்து அவன் மார்பில் குத்த, சிறிது அதனால் கலங்கிய அஸ்ரன் மீண்டும் எழுந்து காளியின் மீது பாய்ந்தான். இருவருக்கிடையே நடந்த கைகலப்பில் விழுந்தெழுந்த அசரன் காளியை வணக்கி மீண்டும் ரதமேறினான். அவனிடம் களைப்பில்லை. அஸ்ரன் ரதத்தைப் பருகிய காளி சிவனிடம் சென்றான். (71)

சிவனிடம் போரின் நிலையை விளக்கிய காளி “தற்போது லக்ஷம் வீரர்களே அஸ்ரப் படையில் உள்ளனர். மற்ற வீரர்களைக் கொன்று அவர்களின் இரத்தத்தைக் குடித்து விட்டேன். அசரீரி வாக்கை ஒட்டி அவனைக் கொல்ல பாசுபதாஸ்தரத்தை நான் ஏவவில்லை. அஸ்ரராஜனும் பெரும் ஜீரான், பெரும் பராக்ரம முள்ளவன். என்மீது தன் அஸ்தரத்தை ஏவாமல் என் அஸ்தரத்தை மட்டும் சிறைத்தான்” என்றான்.

त्रयोविंशोऽध्यायः - २३

श्री नारायण उवाच—

शिवस्तत्त्वं समाकर्ण्य तत्त्वज्ञानविशारदः ।  
यथौ स्वयं च समरे स्वगणैः सह नारद ॥ १  
शङ्खचूडः शिवं दृष्ट्वा विमानादवरुद्ध्य च ।  
ननाम परया भक्त्या शिरसा दण्डवद्धुवि ॥ २  
तं प्रणम्य वेगेन विमानमारुरोह सः ।  
तूर्णं चकार सन्नाहं धनुर्जग्राह दुर्वहम् ॥ ३  
शिवदानवयोर्युद्धं पूर्णमिद्ददातं पुरा ।  
न बभूतुरन्योन्यं ब्रह्मञ्जयपराजयौ ॥ ४  
न्यस्तशस्त्रं भगवान्यस्तशस्त्रं दानवः ।  
स्थस्थः शङ्खचूडश्च वृषस्थो वृषभध्वजः ॥ ५  
दानवानां च इतकमुद्धृतं च बभूव ह ।  
रणे ये ये मृताः शंभुर्जग्नियामास तान्प्रभुः ॥ ६  
एतस्मिन्नन्तरे वृद्धब्राह्मणः परमात्मः ।  
आगत्य च रणस्थानं उवाच दानवेश्वरम् ॥ ७  
वृद्धब्राह्मणः—  
देहि भिक्षां च राजेन्द्र मह्यं विप्राय साम्प्रतम् ।  
त्वं सर्वसंपदां दाता यन्मे मनसि वाञ्छितम् ॥ ८  
निरीहाय च वृद्धाय तृष्णिताय च साम्प्रतम् ।  
पश्चात्त्वां कथयिष्यामि पुरः सत्यं च कुर्विति ॥ ९  
ओमित्युवाच राजेन्द्रः प्रसन्नवदनेक्षणः ।  
कवचार्थी जनश्चाहमित्युवाचातिमायया ॥ १०

तच्छ्रुत्वा कवचं दिव्यं जग्राह हरिरेव च ।  
 शङ्खचूडस्य रूपेण जगाम तुलसीं प्रति ॥ ११  
 गत्वा तस्यां मायया च वीर्याधानं चकार च ।  
 अथ शम्भुहरिः शूलं जग्राह दानवं प्रति ॥ १२  
 ग्रीष्ममध्याहमार्तण्ड प्रलयाग्निशिखोपमम् ।  
 दुर्निर्वार्यं च दुर्वर्षं अव्यर्थं वैरिधातकम् ॥ १३  
 तेजसा चक्रतुल्यं च सर्वशस्त्राखसारकम् ।  
 शिवकेशवयोरन्यदुर्वहं च भयङ्करम् ॥ १४  
 धनुः सहस्रं दैर्घ्येण प्रस्थेन शतहस्तकम् ।  
 सजीवं ब्रह्मरूपं च नित्यरूपमनिर्दिशम् ॥ १५  
 संहर्तुं सर्वब्रह्माण्डमलं यत्स्वीयलीलया ।  
 चिक्षेप तोलनं कृत्वा शङ्खचूडे च नारद ॥ १६  
 राजा चापं परित्यज्य श्रीकृष्णचरणाम्बुजम् ।  
 ध्याने चकार भक्त्या च कृत्वा योगासनं धिया ॥ १७  
 शूलं च भ्रमणं कृत्वा पपात दानवोपरि ।  
 चकार भस्मसात्तं च सरथं चाऽथ लीलया ॥ १८  
 राजा धृत्वा दिव्यरूपं किशोरं गोपबेषकम् ।  
 द्विभुजं मुरलीहस्तं रत्नभूषणभूषितम् ॥ १९  
 रत्नेन्द्रसारनिर्माणं वेष्ठितं गोपकोटिभिः ।  
 गोलोकादागतं यानमासुरोह पुरं ययी ॥ २०  
 गत्वा ननाम शिरसा स राधाकृष्णयोमुनि ।  
 भक्त्या च चरणाम्भोजं रासे वृन्दावने वने ॥ २१

सुदामानं च तौ दद्वा प्रसन्नवदनेक्षणौ ।  
 क्रोडे चक्रतुरत्यन्तं प्रेम्णाऽनिपरिसंयुतौ ॥ २२  
 अथ शूलं च वेगेन प्रययौ तं च सादरम् ॥  
 अस्थिभिः शङ्खचूडस्य शङ्खजातिर्बंभूव ह ॥ २३  
 नानाप्रकाररूपेण शश्वत्पूता सुराच्चने ।  
 प्रशस्तं शङ्खतोयं च देवानां प्रीतिदं परम् ॥ २४  
 तीर्थतोय स्वरूपं च पवित्रं शम्भुना विना ।  
 शङ्खशब्दो भवेद्यत्र तत्र लक्ष्मीः सुसंस्थिरा ॥ २५  
 स स्नातः सर्वतीर्थेषु यः स्नातः शङ्खवारिणा ।  
 शङ्खो हरेरधिष्ठानं यत्र शङ्खस्ततो हरिः ॥ २६  
 तत्रैव वसते लक्ष्मीदूरीभूतममज्जलम् ।  
 खीणां च शङ्खध्वनिभिः शूद्राणां च विशेषतः ॥ २७  
 भीता रुषा याति लक्ष्मीस्तत्स्थलादन्यदेशातः ।  
 शिवोऽपि दानवं हत्वा शिवलोकं जगाम ह ॥ २८  
 प्रहृष्टो वृषभारूढः स्वगणैश्च समावृतः ।  
 सुराः स्वविषयं प्रापुः परमानन्दसंयुताः ॥ २९  
 नेदुर्दुन्दुभयः स्वर्गेजगुर्गन्धर्वकिञ्चराः ।  
 बभूव पुष्पवृष्टिश्च शिवस्योपरि सन्ततम् ॥ ३०  
 प्रशश्चांसुः सुरास्तं च मुनीन्द्रप्रबरादयः ।  
 इति श्री देवीभागवते नवमस्कन्धे त्रयोविंशतोऽध्यायः ॥

— ★ —

## அத்தியாயம் 23

உன்மை அறிவுதில் நிபுணரான சிவன் போரின் நிலையைக் கேட்டுத் தானே தன் கணங்களுடன் போரிடச் சென்றார். சிவனைக் கண்ட சங்க சூடன் விமானத்திலிருந்து இறங்கி பக்தியுடன் சிவனை வணங்கிப் பின் விமானத்தில் ஏறினான். போருக்கு முனைந்து வில்லேந்தினான். சிவனுக்கும் அசரனுக்கும் இடையே நூரூண்டுகள் போர் நிகழ்ந்தது. எவருக்கும் வெற்றியோ தோல்வியோ இல்லை. சிவன் தன் ஆயுதங்களைக் கீழே வைக்க, அஸூரனும் தன் ஆயுதங்களைக் கீழே வைத்தான். ரதத்தில் அசரனும் விருஷ்பத்தின் மீது சிவனும் அமர்ந்திருந்தனர். போரில் அழிந்த வீரர்களைச் சிவன் மீண்டும் உயிர் பெற்றெழச் செய்தார்.

ஓரு கிழ அந்தணன் சங்கசூடனிடம் வந்து பிகைசு கேட்டான். “குறிக்கோள் எதுவுமின்றி இந்த கிழ அந்தணன் நாடி வந்த பொருள் எது என்பதைப் பின் சொல்வேன். முதலில் தருவதாக ஸத்தியம் செய்து கொடு” என்றார். அரசன் அதனை முகமலர்ந்து ஏற்றான். உன் கவசத்தை நாடி வந்தேன் என்ற அந்தணனிடம் தான் அணிந்திருந்த கவசத்தை அஸூரன் கழற்றித் தந்தான். ஹரி அதனை ஏற்றார். சங்க சூடன் வேடத்தில் துளவியிடம் சென்று அவனை ஏமாற்றி உடலுறவு கொண்டார். சிவன் சூலமேந்தினார். சிவனே கேசவனே அதை ஏந்த முடியும். நீத்தில் ஆயிரம் வில்லடியளவும் குறுக்கில் நூறு முழுமும் விரிந்தது. உலகையே அழிக்கவல்லது. அதனைச் சமுற்றி அஸூரன் மீது சிவன் ஏறிந்தார். ராஜா உடன் வில்லை ஏறிந்து விட்டு மூँக்கருஷனானின் திருவடித் தாமரைகளைத் தியானித்து யோகாஸனத்தில் அமர்ந்தான். சூலம் அவன் மீது தாக்கி அவனைத் தேருடன் பொசுக்கியது.

அஸூரன் உடன் யுவனான கோபனானான். இரு கைகளுள்ளவனுகி சூழல் ஏந்தி, கோடிக் கணக்கான கோபர்கள் சூழ கோலோகத்திலிந்து தனக்காக வந்த விமானமேறி கோலேரகத்தில் ராதா-கிருஷ்ணர்களின் திருவடித் தாமரைகளில் வணங்கி எழுந்தான். ஸதாமாவை திவ்யதம்பதியர் அன்புடன் மடியில் அமர்த்தினார்.

சங்க சூடன் மீது தாக்கிய குலம் நாராயணை அடைந்தது. அஸூரனின் எலும்பு சங்கு எனப்படும் எலும்புக் கூடாகியது. தேவர்களின் வழி பாட்டில் நீர் நிறைந்த அந்தச் சங்கு முதலிடம் பெற்றது. சிவனைத் தவிர மற்றவர் வழிபாட்டில் பயன்பட்டது. சங்கின் ஒலியில் லக்ஷ்மீ வசிக்கிறார். சங்க நீரில் நீராடியவர் எல்லா புண்ய தீர்த்தங்களிலும் நீராடியவராவார். சங்கு ஹரியின் ஆதாரம். சங்குள்ளவிடத்தில் ஹரி இருப்பார். லக்ஷ்மியும் அங்குள்ளதால் அமங்களமைன்ததும் அங்கிருந்து அகலும். சிவனும் சிவ லோகத்திற்குத் தன் கணங்களுடன் சென்றுர். தேவர்களும் தம் தம் இடத்தை அடைந்து மகிழ்ந்தனர். சிவன் மீது கந்தர்வரும் கிண்ணரூம் பூமாரி பொழிந்து துந்துபி வாசித்தனர். தேவரும் முனிவரும் சிவனைப் பாராட்டினர்.

— ★ —

### சதுர்விஶோध்யாயः

நாரद உவாச—

நாராயணश्च ஭गவாந्वीर்யधාனं சகார ஹ।  
துலस्यां கென ரूपेण தन्मे வ्याख्यातुमर्हसि ॥ १

ஶ्रீ நாராயண உவாச—

நாராயணश्च ஭గவாந்஦ேவானां ஸாதனேஷு ச ।  
ஶஸ்திசூடஸ்ய கவचं ஗ृहீத்வா விஷ்ணுமாயயா ॥ २  
புனர்வி஧ாய ததூப் ஜगாம தத்ஸ்தீகுஹம் ।  
பாதிவ்ரத்யஸ்ய நாஶேந ஶஸ்திசூடஜி஘ாஂஸயா ॥ ३  
துஞ்சுமிஂ வாதயாமாஸ துல்ஸீக்வரஸ்நி஧ௌ ।  
ஜயஶாब்஦ं ச ததூரே ஬ோधயாமாஸ ஸுந்஦ரீம் ॥ ४  
தத் ஶ्रுத்வா ச ரவ் ஸாத்வி பரமாந்஦ஸங்யுதா ।  
ராஜமார்ண ராக்ஷேண ஦दர்ஷ பரமாదராத् ॥ ५

ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा कारयामास मङ्गलम्।  
 बन्दिभ्यो भिक्षुकेभ्यश्च वाचिभ्यश्च धनं ददौ॥ ६  
 अवरुद्ध रथादेवो देव्याश्च भवनं ययौ।  
 अमूल्यरक्तनिर्माणं सुन्दरं सुमनोहरम्॥ ७  
 दृष्ट्वा च पुतः कान्तं सा तं कान्ता मुदाऽन्विता।  
 तत्पादं धालयामास ननाम च रुरोद च॥ ८  
 रक्तसिंहः सने रम्ये वासयामास कामुकी।  
 ताम्बूलं च ददौ तस्मै कर्पूरादिसुवासितम्॥ ९  
 अद्य च सफलं जन्म जीवनं च बभूव ह।  
 रणे तं च प्राणेशं पश्यन्त्याश्र पुनर्गृहे॥ १०  
 सर्वमता सकटाक्षं च सकामा पुलकाङ्किता।  
 प्रच्छ रणवृत्तान्तं कान्तं मधुरया गिरा॥ ११

तुलस्युवाच—

असंख्यविश्वसंहर्ता सार्थमाजौ तव प्रभो।  
 कथं बभूव विजयस्तन्मे शूहि कृपानिधे॥ १२  
 तुलसीवचनं क्षुत्वा प्रहस्य कमलापतिः।  
 इहान्वृद्धस्य रूपेण तामुवाचामृतं वचः॥ १३  
 श्री भगवानुवाच—  
 आवयोः समरः कान्ते पूर्णमिब्दं बभूव ह।  
 नाशो बभूव सर्वेषां दानवानां च कामिनि॥ १४  
 प्रीतिं च कारयामास ब्रह्मा च स्वयमावयोः।  
 देवानामधिकारश्च प्रदत्तो ब्रह्मणाऽज्ञया॥ १५

मयाऽऽगतं स्वभवनं शिवलोकं शिवो गतः ।  
इत्युक्त्वा जगतां नाथः शयनं च चकार ह ॥ १६  
रेमे रमापतिस्तत्र रामया सह नारद ।  
सा साध्वी सुखसंभोगादाकर्षणव्यतिक्रमात् ॥ १७  
सर्वं वितर्कयामास कस्त्वमेवेत्युवाच सा ।

तुलस्युवाच—

को वा त्वं वद मायेश भुक्ताऽहं मायया त्वया ॥ १८  
दूरीकृतं मत्सतीत्वं यदतस्त्वां शापामि हे ।  
तुलसीवचनं श्रुत्वा हरिः शापभयेन च ॥ १९  
दधार लीलया ब्रह्मन्सुमूर्तिं सुमनोहरम् ।  
ददर्श पुरतो देवी देवदेवं सनातनम् ॥ २०  
नवीननीरदशयामं शारत्पङ्कजलोचनम् ।  
कोटिकन्दपलीलाभं रत्नभूषणभूषितम् ॥ २१  
ईषद्वास्यप्रसन्नास्यं शोभितं पीतवाससम् ।  
तं दृष्ट्वा कामिनी कामं मूर्च्छा संप्राप लीलया ॥ २२  
पुनश्च चेतनां प्राप्य पुनः सा तमुवाच ह ।

तुलस्युवाच—

हे नाथ ते दया नास्ति पाषाणसद्वशस्य च ॥ २३  
छलेन धर्मभङ्गेन मम स्वामी त्वया हतः ।  
पाषाणहृदयस्त्वं हि दयाहीनो यतः प्रभो ॥ २४  
तस्मात्पाषाणरूपस्त्वं भवे देव भवाधुना ।  
ये वदन्ति च साधुं त्वां ते भ्रान्ता हि न संशयः ॥ २५  
भक्तो विनाऽपराधेन परार्थं च कथं हतः ।  
भृशं रुरोद शोकार्ता विललाप मुहुर्मुहुः ॥ २६

ततश्च करुणं दृष्ट्वा करुणारससागरः ।  
 नयेन तां बोधयितुमुवाच कमलापतिः ॥ २७  
 श्री भगवानुवाच—  
 तपस्त्वया कृतं भद्रे मदर्थे भारते चिरम् ।  
 त्वदर्थे शङ्खचूडश्च चकार सुचिरं तपः ॥ २८  
 कृत्वा त्वां कामिनीं सोऽपि विजहार च तत्क्षणात् ।  
 अधुना दातुमुचितं तवैव तपसः फलम् ॥ २९  
 इदं शरीरं त्यक्त्वा च दिव्यदेहं विधाय च ।  
 रामे रम मया सार्धत्वं रमासदृशी भव ॥ ३०  
 इयं तनुर्नदीरूपा गण्डकीति च विश्रुता ।  
 सुपुण्यदा सदा नृणां पुण्ये भवतु भारते ॥ ३१  
 तव केशसमूहश्च पुण्यवृक्षो भविष्यति ।  
 तुलसीकेशसमूहात् तुलसीति च विश्रुता ॥ ३२  
 त्रिषु लोकेषु पुष्पाणां पत्राणां देवपूजने ।  
 प्रधानरूपा तुलसी भविष्यति वरानने ॥ ३३  
 स्वर्गं मर्त्ये च पाताले गोलोके भम सन्निधौ ।  
 भव त्वं तुलसी वृक्षवरा पुष्पेषु सुन्दरी ॥ ३४  
 गोलोके विरजातीरे रासे वृन्दावने वने ।  
 भाण्डीरे चम्पकवने रम्ये चन्दन कानने ॥ ३५  
 माधवीकेतकीकुन्दमालिकामालतीवने ।  
 वासस्तेऽत्रैव भवतु पुण्य देशेषु पुण्यदशः ॥ ३६  
 तुलसीतरुमूलेषु पुण्यदेशेषु पुण्यदम् ।  
 अधिष्ठानं च तीर्थानां सर्वेषां च भविष्यति ॥ ३७

तत्रैव सर्वदेवानां ममाधिष्ठानमेव च ।  
 तुलसीपत्र पतन प्राप्तये च वरानने ॥ ३८  
 स स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः ।  
 तुलसीपत्रतोयेन योऽभिषेकं समाचरेत् ॥ ३९  
 सुधाघटसहस्राणां या तुष्टिस्तु भवेद्धरेः ।  
 सा च तुष्टिभवेन्नूनं तुलसीपत्रदानतः ॥ ४०  
 गवामयुतदानेन यत्फलं तत्फलं भवेत् ।  
 तुलसीपत्रदानेन तत्फलं कार्तिके सति ॥ ४१  
 तुलसीपत्र तोयं च मृत्युकाले च यो लभेत् ।  
 मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोके महीयते ॥ ४२  
 नित्यं यस्तुलसीतोयं भुड्कते भक्त्या च मानवः ।  
 लक्षाश्वमेधजं पुण्यं सम्प्राप्नोति स मानवः ॥ ४३  
 तुलसीं स्वकरे कृत्वा धृत्वा देहे च मानवः ।  
 प्राणांस्त्यजति तीर्थेषु विष्णुलोकं च गच्छति ॥ ४४  
 तुलसीकाष्ठनिर्माणमालां गृज्जाति यो नरः ।  
 पदे पदेऽश्वमेधस्य लभते निश्चितं फलम् ॥ ४५  
 तुलसीं स्वकरे कृत्वा स्वीकारं यो न रक्षति ।  
 स याति कालसूत्रं च यावच्चन्द्रदिवाकरौ ॥ ४६  
 करोति मिथ्याशापथं तुलस्यां योऽत्र मानवः ।  
 स याति कुम्भीपाकं च यावदिन्द्राश्वतुर्दशा ॥ ४७  
 तुलसीतोय कणिकां मृत्युकाले च यो लभेत् ।  
 रक्तयानं समारुद्ध्य वैकुण्ठे प्राप्यते ध्रुवम् ॥ ४८

पूर्णिमायाममावास्यां च द्वादश्यां रविसंक्रमे।  
 तैलाभ्यङ्गं च ये कृत्वा मध्याह्ने निशि सन्ध्ययोः ॥ ४९  
 आशौचेऽशुचिकाले च रात्रिवासोऽन्विता नराः ।  
 तुलसीं ये विचिन्बन्ति ते छिन्दन्ति हरे: शिरः ॥ ५०  
 त्रिरात्रं तुलसीपत्रं शुद्धं पर्युषितं सति ।  
 श्राद्धे ब्रते च दाने च प्रतिष्ठायां सुराच्चने ॥ ५१  
 भूगतं तोयपतितं यद्दत्तं विष्णवे सति ।  
 शुद्धं च तुलसीपत्रं क्षालनादन्यकर्मणि ॥ ५२  
 वृक्षाधिष्ठातृदेवी या गोलोके च निरामये ।  
 कृष्णेन साध्यं नित्यं च नित्यं क्रीडां करिष्यसि ॥ ५३  
 नद्यधिष्ठातृदेवी या भारते च सुपुण्यदा ।  
 लवणोदस्य सा पद्मी मदंशस्य भविष्यति ॥ ५४  
 त्वं च स्वयं महासाध्वी वैकुण्ठे मम सन्धिधौ ।  
 रमासमा च रामा च भविष्यसि न संशयः ॥ ५५  
 अहं च शैलरूपेण गण्डकीतीरसन्निधौ ।  
 अधिष्ठानं करिष्यामि भारते तव शापतः ॥ ५६  
 कोटिसंख्यास्तत्र कीटास्तीक्ष्णादंष्ट्रा वरायुधैः ।  
 तच्छिलाकुहरे चक्रं करिष्यन्ति मदीयकम् ॥ ५७  
 एकद्वारं चतुश्क्रं बनमालाविभूषितम् ।  
 नवीन नीरदाकारं लक्ष्मीनारायणाभिधम् ॥ ५८  
 एकद्वारं चतुश्चक्रं नवीननीरदोपमम् ।  
 लक्ष्मीजनार्दनो झेयो रहितो बनमालया ॥ ५९

द्वारद्वये चतुश्क्रं गोष्पदेन विराजितम्।  
रघुनाथाभिधं ज्ञेयं रहितं वनमालया ॥ ६०  
अतिक्षुदं द्विचक्रं च नवीनजलदप्रभम्।  
तद्वामनाभिधं ज्ञेयं रहितं वनमालया ॥ ६१  
अतिक्षुदं द्विचक्रं च वनमालाविभूषितम्।  
विज्ञेयं श्रीधरं रूपं श्रीपदं गृहिणां सदा ॥ ६२  
स्थूलं च वर्तुलाकारं रहितं वनमालया।  
द्विचक्रं स्फुटमत्यन्तं ज्ञेयं दामोदराभिधम् ॥ ६३  
मध्यमं वर्तुलाकारं द्विचक्रं बाणविक्षतम्।  
रणरामाभिधं ज्ञेयं शरतूणसमन्वितम् ॥ ६४  
मध्यमं सप्तचक्रं च च्छत्रभूषणभूषितम्।  
राजराजेश्वरं ज्ञेयं राजसम्पत्प्रदं नृणाम् ॥ ६५  
द्विसप्तचक्रं स्थूलं च नवनीरदसुप्रभम्।  
अनन्ताख्यं च विज्ञेयं चतुर्वर्गफलप्रदम् ॥ ६६  
चक्राकारं द्विचक्रं च सश्रीकं जलदप्रभम्।  
सगोष्पदं मध्यमं च विज्ञेयं मधुसूदनम् ॥ ६७  
सुदर्शनं चैकचक्रं गुप्तचक्रं गदाधरम्।  
द्विचक्रं हयवक्त्राभं हयग्रीवं प्रकीर्तितम् ॥ ६८  
अतीव विस्तृताख्यं च द्विचक्रं विकटं सति।  
नरसिंहं सुविज्ञेयं सद्यो वैराग्यदं नृणाम् ॥ ६९  
द्विचक्रं विस्तृताख्यं च वनमालासमन्वितम्।  
लक्ष्मीनृसिंहं विज्ञेयं गृहिणां च सुखप्रदम् ॥ ७०

द्वारदेशो द्विचक्रं च सश्रीकं च समं स्फुटम् ।  
 वासुदेवं तु विज्ञेयं सर्वकामफलप्रदम् ॥ ७१  
 प्रद्युम्नं सूक्ष्मचक्रं च नवीननीरदप्रभम् ।  
 सुषिरच्छद्रबहुलं गृहिणां च सुखप्रदम् ॥ ७२  
 द्वे चक्रे चैकलग्रे च पृष्ठं यत्र तु पुष्कलम् ।  
 सङ्खर्षणं सुविज्ञेयं सुखदं गृहिणां सदा ॥ ७३  
 अनिरुद्धं तु पीतामं वर्तुलं चातिशोभनम् ।  
 सुखप्रदं गृहस्थानां प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ७४  
 शालग्रामशिला यत्र तत्र सन्निहितो हरिः ।  
 तत्रैव लक्ष्मीर्वसति सर्वतीर्थसमन्विता ॥ ७५  
 यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च ।  
 तानि सर्वाणि नश्यन्ति शालग्रामशिलार्चनात् ॥ ७६  
 छत्राकारे भवेद्राज्यं वर्तुले च महाश्रियः ।  
 दुःखं च शकटाकारे शूलाग्रे मरणं ध्रुवम् ॥ ७७  
 विकृतास्ये च दारिद्र्यं पिङ्गले हानिरेव च ।  
 भग्नचक्रे भवेद्रचाधिर्विदीर्णं मरणं ध्रुवम् ॥ ७८  
 ब्रतं दानं प्रतिष्ठा च श्राद्धं च देवपूजनम् ।  
 शालग्रामस्य सान्निध्यात्प्रशस्तं तद्वेदिति ॥ ७९  
 स स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः ।  
 सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु ब्रतेषु च तपस्सु च ॥ ८०  
 पाठे चतुर्णां वेदानां तपसां करणे सति ।  
 तत्पुण्यं लभते नूनं शालग्रामशिलार्चनात् ॥ ८१

शालग्रामशिलातोयैर्योऽभिषेकं सदाचरेत्।  
 सर्वदानेषु यत्पुण्यं प्रदक्षिणं भुवो यथा ॥ ८२  
 शालग्रामशिलातोर्यं नित्यं भुंक्ते च यो नरः ।  
 सुरेष्मितं प्रसादं च लभते नात्र संशयः ॥ ८३  
 तस्य स्पर्शं च बाञ्छन्ति तीर्थानि निखिलानि च ।  
 जीवन्मुक्तो भग्नापूरोऽप्यन्ते याति हरेः पदम् ॥ ८४  
 तत्रैव हरिणा सार्धमसंख्यं प्राकृतं लयम्।  
 यास्यत्येव हि दास्ये च नियुक्तो दास्यकर्मणि ॥ ८५  
 यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यासमानि च ।  
 तं दृष्ट्वा च पलायन्ते वैनतेयादिवोरगाः ॥ ८६  
 तत्पादरजसा देवी सद्यः पूता वसुन्धरा ।  
 पुंसां लक्षं तत्पितृणां निस्तरेत्तस्य जन्मतः ॥ ८७  
 शालग्रामशिलातोर्यं मृत्युकाले च यो लभेत्।  
 सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ८८  
 निर्वाणमुक्तिं लभते कर्म भोगात्प्रमुच्यते ।  
 विष्णोः पदे प्रलीनश्च भविष्यति न संशयः ॥ ८९  
 शालग्रामशिलां धृत्वा मिथ्यावाक्यं वदेत्तु यः ।  
 स याति कुम्भीपाके च यावद्वै ब्रह्मणो वयः ॥ ९०  
 शालग्रामशिलां धृत्वा स्वीकारं यो न पालयेत्।  
 स प्रयात्यसिपत्रं च लक्ष्मन्वन्तरावधि ॥ ९१  
 तुलसीपत्र विच्छेदं शालग्रामे करोति यः ।  
 तस्य जन्मान्तरे कान्ते स्त्रीविच्छेदो भविष्यति ॥ ९२

तुलसीपत्रविच्छेदं शङ्के यो हि करोति च ।  
 भायाहीनो भवेत्सोऽपि रोगी च सप्तजन्मसु ॥ ९३  
 शालग्रामं च तुलसीं शङ्कं चैकत्र एव च ।  
 यो रक्षति महाज्ञानी स भवेच्छ्रीहरेः प्रियः ॥ ९४  
 सकृदेव हि यो यस्यां वीर्याधानं करोति च ।  
 तद्विच्छेदे तस्य दुःखं भवेदेव परस्परम् ॥ ९५  
 त्वं प्रिया शङ्कचूडस्य चैकमन्वन्तरावधि ।  
 शङ्केन सार्धं त्वञ्चेदः केवलं दुःखदस्तथा ॥ ९६  
 इत्युक्त्वा श्रीहरिस्तां च विराम च नारद ।  
 सा च देहं परित्यज्य दिव्यरूपं विधाय च ॥ ९७  
 यथा श्रीश्च तथा सा चाप्युवास हरिवक्षसि ।  
 स जगाम तथा सार्धं वैकुण्ठं कमलापतिः ॥ ९८  
 लक्ष्मीः सरस्वती गङ्गा तुलसी चापि नारद ।  
 हरेः प्रियाश्रतस्त्रश्च भूबुरीश्वरस्य च ॥ ९९  
 सद्यस्तदेहजाता च भूव गण्डकी नदी ।  
 ईश्वरः सोऽपि शौलश्च तत्तीरे पुण्यदो नृणाम् ॥ १००  
 कुर्वन्ति तत्र कीटाश्च शिलां बहुविधां मुने ।  
 जले पतन्ति या याश्च फलदास्ताश्च निश्चितम् ॥ १०१  
 स्थलस्थाः पिङ्गला ज्येयाश्चोपतापाद्रवेरिति ।  
 इत्येवं कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ १०२  
 // इति श्री देवीभागवते नवमस्कन्धे चतुर्विंश्चोद्यायः ॥

— ★ —

## அத்தியாயம் - 24

துள்ளியிடமிருந்து கற்பைப் பறிக்க விஷ்ணு ஏற்ற வேஷத்தைப் பற்றிக் கேட்ட நாரதரிடம் நாராயணன் கூறினார். தேவர்களுக்கு உதவும் வகையில் விஷ்ணு சங்கசுடனின் கவசத்தை மாயையால் ஏற்று அவனது வேடமேற்று துள்ளியின் கற்பைக் குலைக்க அவளிருக்குமிடம் சென்று வாயிலில் நின்று துந்துபி முழங்கி “வெற்றி” “வெற்றி” என உரக்கக் கூறி துள்ளியை எழுப்பினார். அவள் ஆனந்தமடைந்து ஜன்னல் வழியே ராஜவீதியில் தன் கணவன் வருவதைக் கண்டாள். உடன் எழுந்து அந்தணர்களிடம் மங்கள ஆசி பெற்று ஏழைகளுக்கும் நற்செய்தி சொல்பவருக்கும் வாரி வழங்கினாள். தேரிலிருந்து இறங்கிய கணவரை துள்ளி வரவேற்றி திருவடியலம்பி, வணங்கி அழுதாள். விலையற்ற ரத்தினம் போன்ற கணவரை ரத்தின ஸிம்ஹாஸனத்தில் அமர்த்தி மனக்கிற தாம்புலமனித்தாள்.

“என் பிறவி ஸபலமாயிற்று. போருக்குச் சென்று திரும்பிய கணவரை மறுபடி வீட்டில் காண்கிற பாக்யம் பெற்றேன் என்றாள்.

புன் சிரிப்பும் கடைக் கண்பார்வையும் காமமும் புல்லரிப்பும் கொண்ட துள்ளி “உலகையே அழிக்கிற ஆற்றல் பெற்ற சிவனுடன் நிகழ்ந்த போரில் வெற்றி எவ்வாறு கிட்டியது” எனக் கேட்டாள். பகவான் கூறினார். - “எங்களிடையே போர்ஒரு ஆண்டுகாலம் நடந்தது. அஸரர்கள் அணைவரும் அழிந்துவிட்டனர். ப்ரஹ்மா எங்களிடையே உடன் பாடு வரச் செய்தார். பிரும்மாவின் ஆணைப்படி தேவர்களின் அதிகாரம் திரும்பத் தரப்பட்டது. நான் இங்கு வந்தேன். சிவன் தனுலகம் சென்றார்என்று கூறிக் கொண்டே அவனுடன் ரமிக்கத் தொடங்கினார். உறவு கொண்ட வகையில் மாறுதலே உணர்ந்த துள்ளி “மாயாவியே! நீயார்? என் கற்பைக் குலைத்துவிட்டாய். அதனால் உண்ணேச் சபிப்பேன்” என்றாள். உடன் அவள் முன் பகவான் கார்மேக வணண்ததுடன் மஞ்சளாடையுடன் உள்ளதன் செய உருவைக் காண்பித்தார். துள்ளி உடன் மயக்க முற்றாள். மறுபடி தெளிவு பெற்றதும் கூறினாள்.

ஈசனே! கல்மனம் படைத்த உமக்குத் தயை இல்லை. ஏமாற்றி என் கற்பைக் குலைத்து என் கணவரைக் கொன்றீர். கல் மனம் படைத்த நீர் கல்லாவீர். உம்மை நல்லவர் என நினைத்த அனைவரும் ஏமார்ந்து விட்டனர். உம் பக்தர் ஒரு தவறும் செய்யாதவர். பிறர் நலனுக்காக என் அவரைக் கொன்றீர் எனக் கதறி அழுதாள். அவனுக்கு ஆறுதலளிக்க நயத்துடன் நிலையை பகவான் உணர்த்தினார்.

“நல்லவளே! நீ என்னைக் குறித்து பாரத பூமியில் தவம் புரிந்தாய். உன்னைப் பெற விரும்பி சங்க சூடன் தவமிருந்தான். அவன் தவப் பயனை அவன் பெற்றுள். உன் தவப்பயனை நீ பெறுவாய். இந்த உடலை நீத்து, திவ்ய உடல் பெறுவாய். இந்த உடல் கண்டகி நதியாகப் புகழ் பெறும். உன் கேசக்கற்றறை புனிதமாகி, துளை எனப் புகழ் பெறும்.

மூவுலகிலும் வழிபாட்டிற்குரிய இலை-பூக்களில் துளை முதலிடம் பெறும். மூவுலகிலும் கோலோகத்திலும் நீ சிறப்பு பெறுவாய். கோலோகம், விரஜா நதிக் கரை, ராஸ மண்டலம், பிருந்தாவனம், பாண்மர வனம், சம்பகவனம், சந்தனவனம் மற்றும் பூந்தோட்டங்கள் உன் இருப்பிடமாகும். துளையின் அடியில் தீர்த்தங்கள் அண்ததும் பெருமை பெறும். துளசி இலை தன்மீது விழுட்டுமென்றே தேவர்கள் அதனடியில் தங்குவர். துளசி சேர்ந்த நீராட எல்லா தீர்த்தங்களிலும் நீராடியதாகும். அம்ருதக் குடம் ஆயிரம் கொண்டு நீராடியதாகும். கோடிப் பசுக்களைத் தானம் செய்ததாகும். மரன்த தருவாயில் துளை நீர் பருக, துளை கையில் வைத்திருக்க பாபம் நீங்கி வைகுந்தம் செல்வான். அசுவமேத வேள்வி புரிந்த புண்யம் கிட்டும்.

துளசிக் கட்டையாலான மணி மாலையைத் தரிப்பவன் அசுவமேத வேள்விப் பயன் பெறுவான். துளையைக் கையில் கொண்டு சொன்னவாக்கைக்காப்பாற்றுதவன் நரகம் செல்வான். பெளர்ணை, அமாவாஸ்யை, த்வாதசி, மாதப் பிறப்பு, எண்ணெய்க் குளி நாள், நடுப்பகல், இரவு, இரு ஸந்த்யாகாலம், தீட்டு, தூய்மைக் குறைவுள்ளாள், இவைகளில் இரவில் கட்டிய ஆடையுடனுள்ளவர் போன்றவர் துளையைப் பறிக்கலாகாது. பறிப்பதால் விஷ்ணுவின் தலையைக் கிள்ளி ஏறிவது போன்ற

பாபம் நேரும். துளஸி பறித்து மூன்று நாட்களுக்கு 'நாள் கடந்தது' என்ற தோழுமில்லை. அது சுத்தமானதே. ச்ராத்தம், விரதம், தானம், ப்ரதிஷ்டை முதலானதில் அதைப் பயன் படுத்தலாம். பூமியில் மற்றும் நீரில் விழுந்த இலை, விஷணு பூஜையில் பயன்படுத்தப்பட்டது இவற்றை நீர்விட்டலம்ப மறுபடி பயன்படுத்தத் தக்கவை.

கோலோகத்தில் மரங்களின் தெய்வமாக இருப்பாய். க்ருஷ்ணனின் லீலையில் நீ பங்கு பெறுவாய். பாரத தேசத்தில் கண்டகியாக நதிகளின் தேவியாவாய். வெண ஸமுத்ரத்தின் பத்தினிகளில் நீயும் ஒருவளாவாய். வைகுண்டத்தில் லக்ஷ்மியாக விளங்குவாய். நானும் கண்டகியின் கரையில் மலையாக நின்று கண்டகியைத் தாங்குவேன்.

கண்டகி பெருக்கிற மலையில் கோடிக் கணக்கானபுழுக்கள் தம் பற்களால் கூழாங்கற்களில் என் சக்கிர வடிவைப் பொறிக்கும். (ஸாலக்ராமம்) ஒருதுவாரமும் நான்கு சக்ரங்களும் வனமாலை சூடியதும் புதுமேக வண்ணத்திலுள்ளதுமான கூழாங்கற்கள் லக்ஷ்மீ நாராயணர் என்ற பெயர் பெறும். வனமாலையில்லாதிருந்தால் லக்ஷ்மீ ஜநார்தனர். இருத்வாரங்களும் நான்கு சக்கிரங்களும் குளம்படி ரேகையுள்ளதும் வனமாலை இல்லாதிருந்தால் ராமர். மிகச் சிறியது, இரு சக்ரமுள்ளகாரமேகத்திறம் கொண்டது வாமனர். மிகச் சிறியது இரு சக்ரமுள்ள வனமாலை கொண்ட ஸாலக்ராமம் பூஞ்சர், இல்லறத்தானுக்குச் செல்வம் தருவது. பெரிது, உருண்டை வடிவம், வனமாலை, இரு சக்ரம் கொண்டது. தாமோதரர். உருண்டை வடிவம் இருசக்ரம் அம்புக்குறி, நாணற்புல்ஓட்டியது ரணராமர். நடுவடிவில் ஏழு சக்ரம், குடை உள்ளது ராஜ ராஜேச்வரர், அரசாட்சிதரும். இரு ஏழு சக்ரங்கள், பெரியது, மேக வண்ணம், அனந்தர் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு தரும். சக்ர உருவம், இரு சக்ரம், மேக வண்ணம். குளம்படி உள்ளது - மதுஸதனர் ஒரு சக்ரம் - ஸதர்சனர். சக்ரம் மறைந்துள்ளது. கதாதரர். இருசக்ரம் ஹயக்ரீவர் போன்ற வடிவம் - ஹயக்ரீவர். துவாரவாய் விரிந்தது, இரு சக்ரம், ஸமனற்ற வடிவம் - நரஸிம்ஹர் - வைராக்யம் தரும்.

இரு சக்ரம், பரந்தவாய், வனமாலையுள்ளது லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹர். இல்லறத்தாருக்கு நல்லது. வாயில் இரு சக்ரம், அழகுள்ளது ஸமமானது - வாஸ-தேவர் - விரும்பியதைத் தருபவர். மேகநிறம் மிகச் சிறிய சக்ரம், வாயினுள் பல ஒட்டைகள் - ப்ரத்யும்னர். இல்லறத்தாருக்கு நல்லது. ஒன்றுக இணைந்த இரு சக்ரங்கள், முதுகு விரிந்தது - ஸங்கரங்னர் - இல்லறத்தாருக்கு நல்லது. செம்மஞ்சள் நிறம், உருண்டை வடிவம் - அநிருத்தர். இல்லறத்தாருக்கு நல்லது.

சாலக்ராம சிலை உள்ள இடத்தில், விஷ்ணுவும் லக்ஷ்மீயும் தீர்த்தங்களைத்தும் இருப்பர். பாபங்களைத்தும் விலகும். சக்ரம் போன்ற வடிவுள்ளது ஆட்சி தரும். உருண்டையாயிருப்பது லக்ஷ்மீயைத் தரும். வண்டி போன்றது துயர் தரும். சூல நுனி கொண்டது மரணத்தைத் தரும். தவாரத்தின்முகம் கோணலானால் ஏழ்மை நேரும். செந்திரமுள்ளது அழிவைத் தரும். சக்ரம் உடைந்திருந்தால் நோயும், பிளந்திருந்தால் மரணமும் நேரும்.

சாலிக்ராமம் இருக்குமிடத்தில் செய்யப் பெறுகிற விரதம், தானம், ப்ரதிஷ்டை, சராத்தம், மற்றும் தெய்வ வழிபாடு, சிறந்த பலனைத் தரும். சாலிக்ராம சிலையை விஷ்ணு வென வழிபட எல்லா புன்ய கர்மங்களையும் செய்ததாகும். சாலிக்ராம அபிஷேகம், அபிஷேக நீரைப் பருகுதல், சாலக்ராமத்தைத் தொடுவது இவை புனிதமாக்குபவை. மரணத் தருவாயில் சாலிக்ராமாபிஷேக நீரைப் பருகுவது மேனிலை பெற உதவும். அதனைவைத்துக் கொண்டு செய்கிற நற்செயல் நல்ல பலனைத் தரும். கெட்ட செயல் கோரமான பின் விளைவைத் தரும். சாலக்ராமத்தின் மீது துளஸி போடுவதைத் தடுப்பது மனைவியை இழக்கச் செய்யும். சாலிக்ராமம், சங்கு, துளஸி இவற்றைச் சேர்த்துவைப்பது நல்லது. (94)

நீருமன்வந்தரம்வரை சங்கசூடனுடன் வாழ்ந்துள்ளாய். உங்களைப் பிரிப்பது துயரம் தரவல்லதே என்று விஷ்ணு விளக்கியதும் துளஸி உடலைவிட்டு உயிர் நீங்கியது. திவ்ய வடிவமேற்று லக்ஷ்மீ போன்று விஷ்ணுவின் மார்பில் ஏறி விஷ்ணுவுடன் வைகுண்டம் சென்றுள். லக்ஷ்மீ ஸரஸ்வதி கங்கா துளஸி என நால்வரும் விஷ்ணுவுடன் இணைந்து வாழ்ந்தனர்.

அவள் உடல் கண்டகி நதியாயிற்று. ஈசனும் அதன் அருகில் மலையாகி அதனைத் தாங்கினார். அரித்த சிலையினுள் புழுக்கள் பல மூர்த்திகளின் வடிவை உருவாக்கின்றன. கரையில் தங்கிய சிலைகள் சூர்யனின் சூட்டால் மங்கிய செந்திறம் கொள்கின்றன.

— ★ —

### பञ்சவिशோऽध्यायः

நாரद உவாச—

तुलसी च यदा पूज्या कृता नारायणप्रिया ।

अस्याः पूजाविधानं च स्तोत्रं च वद सम्प्रतम् ॥ १

केन पूजा कृता केन स्तुता प्रथमतो मुने ।

तत्र पूज्या सा बभूव केन वा वद मामहो ॥ २

सूत உவாச—

नारदस्य वचः श्रुत्वा प्रहस्य मुनिपुङ्गवः ।

कथां कथितुमारेभे पुण्यां पापहरां पराम् ॥ ३

नारायण உவாச—

हरिः संपूज्य तुलसीरेमे च रमया सह ।

रमासमानसौभाग्यां चकार गौरवेण च ॥ ४

सेहे च लक्ष्मीगङ्गा च तस्याश्च नवसङ्गमम् ।

सौभाग्यगौरबं कोपात्तेन सेहे सरस्वती ॥ ५

सातां जघान कलहे मानिनी हरिसन्निधौ ।

ब्रीडया चापमानेन सान्तधानं चकार ह ॥ ६

सर्वसिद्धेश्वரी देवी मानिनां सिद्धियोगिनी ।

जगामादर्शनं कोपात्सर्वत्र च हरेहो ॥ ७

हरिन् दृष्टा तुलसीं बोधयित्वा सरस्वतीम्।  
 तदनुज्ञां गृहीत्वा च जगाम तुलसीवनम्॥ ८  
 तत्र गत्वा च सुस्नातो हरिः स तुलसीं सतीम्।  
 पूज्यामास तां ध्यात्वा स्तोत्रं भक्त्या चकार ह॥ ९  
 लक्ष्मी मायाकामवाणीबीज पूर्वं दशाक्षरम्।  
 वृन्दावनीति डेन्तं च वह्निजायान्तमेव च॥ १०  
 (श्रीं ह्रीं ह्रीं दें वृन्दावन्यै स्वाहा।)  
 अनेन कल्पतरुणा मन्त्रराजेन नारद।  
 पूज्येदो विधानेन सर्वसिद्धिं लभेद्भुवम्॥ ११  
 घृतदीपेन धूपेन सिन्दूरचन्दनेन च।  
 नैवेद्येन च पुष्पेण चोपचारेण नारद॥ १२  
 हरि स्तोत्रेण तुष्टा सा चाविर्भूता महीरुहात्।  
 प्रसन्ना चरणाम्भोजे जगाम शरणं शुभा॥ १३  
 वरं तस्यै ददौ विष्णुः सर्वपूज्या भवेरिति।  
 अहं त्वां धारयिष्यामि सुरूपां मूर्धि वक्षसि॥ १४  
 सर्वे त्वां धारयिष्यन्ति स्वमूर्धिं च सुरादयः।  
 इत्पुक्त्वा तां गृहीत्वा च प्रययौ स्वालयं विमुः॥ १५  
 नारद उवाच—  
 किं ध्यानं स्तवनं किं वा किं वा पूजाविधानकम्।  
 तुलस्याश्र महाभाग तन्मे व्याख्यातुमर्हसि॥ १६  
 नारायण उवाच—  
 अन्तर्हितायां तस्यां च हरिवृन्दावने तदा।  
 तस्याश्रके स्तुतिं गत्वा तुलसीं विरहातुरः॥ १७

## तुलसीस्तोत्रम्

श्रीभगवानुवाच—

बृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च ।  
 विदुर्बुधास्तेन बृन्दां मतिप्रयां तां भजाम्यहम् ॥ १८  
 पुरा बभूव या देवी त्वादौ बृन्दावने वने ।  
 तेन बृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तां भजाम्यहम् ॥ १९  
 असंख्येषु च विश्वेषु पूजिता या निरन्तरम् ।  
 तेन विश्वपूजिताख्यापूजितां च भजाम्यहम् ॥ २०  
 असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि त्वया सदा ।  
 तां विश्वपावर्णी देवीं विरहेण स्मराम्यहम् ॥ २१  
 देवा न तुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना ।  
 तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टु मिच्छामि शोकतः ॥ २२  
 विश्वे यत्प्रासिमात्रेण भक्तानन्दो भवेद्ध्रुवम् ।  
 नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवतादिह ॥ २३  
 यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च ।  
 तुलसी तेन विख्याता तां यामि शरणं प्रियाम् ॥ २४  
 कृष्णजीवनरूपा सा शश्वत्प्रियतमा सती ।  
 तेन कृष्णजीवनी सा सा मे रक्षतु जीवनम् ॥ २५  
 इत्येवं स्तवनं कृत्वा तस्थौ तत्र रमापतिः ।  
 ददर्श तुलसीं साक्षात्पादपद्मनतां सतीम् ॥ २६  
 रुदतीमवमानेन मानिनीं मानपूजिताम् ।  
 प्रियां दृष्ट्वा प्रियः शीघ्रं वासयामास वक्षसि ॥ २७

भारत्याज्ञां गृहीत्वा च स्वालयं च ययौ हरिः ।  
 भारत्या सह तत्प्रीतिं कारयामास सत्वरम् ॥ २८  
 वरं विष्णुर्ददौ तस्यै सर्वपूज्या भवेरिति ।  
 शिरोधार्या च सर्वेषां बन्धा मान्या भमेति च ॥ २९  
 विष्णोवरेण सा देवी परितुष्टा बभूव च ।  
 सरस्वती तामाकृष्य वासयामास सन्निधौ ॥ ३०  
 लक्ष्मीर्गज्ञा सस्मिता च तां समाकृष्य नारद ।  
 गृहं प्रवेशयामास विनयेन सर्तीं सदा ॥ ३१  
 बृन्दा बृन्दावनी विश्वपूजिता विश्वपावनी ।  
 पुष्पसारा नन्दिनी च तुलसी कृष्णजीवनी ॥ ३२  
 एतनामाष्टकं चैव स्तोत्रं नामार्थसंयुतम् ।  
 यः पठेत्तां च सम्पूज्य सोऽश्वमेधफलं लभेत् ॥ ३३  
 कार्त्तिक्यां पूर्णिमायां च तुलस्या जन्म मङ्गलम् ।  
 तत्र तस्याश्र पूजा च विहिता हरिणा पुरा ॥ ३४  
 तस्यां यः पूजयेत्सां च भक्त्या च विश्वपावनीम् ।  
 सर्वपापाद्विनिर्मुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ३५  
 कार्त्ति के तुलसीपत्रं यो ददाति च वैष्णवे ।  
 गवामयुतदानस्य फलं प्राप्नोति निश्चितम् ॥ ३६  
 अपुत्रो लभते पुत्रं प्रियाहीनो लभेत्प्रियाम् ।  
 बन्धुहीनो लभेद्बन्धून्स्तोत्रश्रवणमात्रतः ॥ ३७  
 रोगी प्रमुच्येत रोगाद्वद्धो मुच्येत बन्धनात् ।  
 भयान्मुच्येत भीतस्तु पापान्मुच्येत पातकी ॥ ३८

இत्येवं கथितं ஸ்தोत्रं ஧்யாநं பூஜாவிதிஂ ஶृஷ்டு ।  
 த்வமேவ வேதே ஜானாஸி கண்வஶாखோக்தமேவ ச ॥ ३९  
 தद்வுக்ஷே பூஜயேதாஂ ச ஭க்த்யா சாவாஹந் விநா ।  
 தாஂ ஧்யாத்வா சௌப்சாரேண ஧்யாநं பாதகநாஶனம् ॥ ४०  
 துல்ஸீ புஷ்பசாராஂ ச ஸர்தீ பூதாஂ மனோஹராம் ॥  
 கृதபாபே஧்மாதாஹாய ஜ்வல்஦ஸ்திரி஖ோபமாம் ॥ ४१  
 புஷ்பேஷு துலநா யஸ்யா நாஸ்த வேதேஷு ஭ாषிதம் ॥  
 பவித்ரஸ்பா ஸவாஸு துல்ஸீ ஸா ச கிர்த்தா ॥ ४२  
 ஶிரா஧ார்யா ச ஸர்வைஶாமीப்ஸிதா விஶ்வ பாவனீ ।  
 ஜிவந்முக்தாஂ முக்திதாஂ ச ஭ஜே தாஂ ஹரி஭க்திதாம் ॥ ४३  
 இதி ஧்யாத்வா ச ஸம்பூஜ்ய ஸ்துத்வா ச ப்ரணமேத்ஸு஧ி: ।  
 உக்தாஂ துலஸ்யுபார்வ்யாநாஂ கிஞ் மூஹ: ஶாத்துமிச்சஸி ॥ ४४  
 // இதி ஶ்ரீவேஷி ஭ாగவதே நவமஸ்கந்யே பஞ்சவிஂஶோட்஧்யாய: // २५

— ★ —

### அத்தியாயம் -25

துளஸியின் வழிபாட்டு முறையையும் ஸ்தோத்ரத்தையும் கூற நாரதர் விண்ணப்பிக்க நாராயணர் கூறுகிறார். துளஸி வைகுண்டத்தில் நன் மதிப்பு பெற்றார். வகுமிக்குச் சமமாக ஸெஸ்பாக்யமும் கெளரவமும் கிட்டிற்று. வகுமியும் கங்கையும் துளஸியின் புதுவரவை வரவேற்றனர். ஸரஸ்வதி இதனைப் பொறுக்காமல் கோபத்திலிருந்தாள். ஹரியின் எதிரே ஸரஸ்வதிக்கும் துளஸிக்கும் ஏற்பட்ட கலவூத்தில் ஸரஸ்வதி துளஸியை அடித்தாள். அவமதிப்பைப் பெரிதாக்கித் துளஸி அங்கிருந்து அகன்றாள். துளஸியைக் காணுத ஹரி ஸரஸ்வதியைச் சமாதானப்படுத்தி அவள் அனுமதியுடன், துளஸியைத் தேடிச் சென்றார். துளஸீவனம் சென்று நீராடி

துளஸியைத் த்யானித்து வழிபட்டார். மீற்றும் கலீம் ஜம் பிருந்தாவன்யை ஸ்வாஹா என்ற பத்தக்ஷரமந்திரத்தை விடாது ஜபித்தார். இந்த மந்திரம் விரும்பியதைன்தையும் நிறைவூறச் செய்யும், தூபம் முதலிய உபசாரங்களால் மகிழ்ந்த துளஸீ தேவி துளஸீ மரத்திலிருந்து வெளியாகி ஹரியின் திருவடிகளில் வணங்கி எழுந்தாள். ஹரி திருப்தியுடன் துளஸியைத் தன் மார்பிலும் தலையிலும் தாங்குவதாக வரமளித்தார். தேவர்களும் அவ்வாறு தாங்குவரென்றார். அவள் தெளிந்ததும் அவளுடன் வைகுண்டம் சென்றார். ஹரி செய்த பூஜை முதலியவற்றை நாரதருக்கு நாராயணர் விளக்குகிறார். துளஸியை விட்டுப் பிரிந்த ஹரி இவ்வாறு - அவளைத்துதித்தார்.

துளஸீச் செடிகள் கூட்டமாக வளர்வதால் பிருந்தா என்பார். அந்த பிருந்தா என் அன்புக்குரியவள். அவளை நான் வழிபடுகிறேன். பிருந்தாவனீ என்பவள் முதலில் பிருந்தாவனத்தில் தான் தோன்றினான். ஸெளபாக்யமே உருவான அவளை வழிபடுகிறேன். உலகனைத்திலும் வழிபடப் பெறுபவள் அதனால் அவள் விச்வாழிதா. உலகனைத்தையும் தூயவையாக்குபவள். அதனால் அவள் விச்வபாவனீ. மற்ற பூக்கள் குவியலாகக் கிடைத்தாலும் அவளின்றி மன நிறைவே தேவர்களுக்குக் கிட்டுவதில்லை. அதனால் அவள் புஷ்பஸாரா. அவளைப் பிரிந்தால் துயருற்ற நான் அவளைக் காண விரும்புகிறேன். இவளைப் பெறுவது பக்தருக்குப் பேரானந்தத்தைத் தரும். அதனால் அவள் நந்தினி. அவள் நம்மிடம் அன்பு கொண்டு வரட்டும். அவளுக்கு ஈடாக (துலாவாக) ஏதுமில்லையென்பதால் அவள் துவளீ. அவளைச் சரணடைகிறேன். கிருஷ்ணனின் உயிரானதால் கிருஷ்ணஜீவதி. அவள் என்ற யிரைக் காக்கட்டும்”.

இவ்வாறு துதித்ததும் துளஸீ அவரது முன் வந்து வனாஷ்கி நின்றான். அவமானத்தால் குன்றிய அவளை மார்போடு அணைத்து அமைதி பெறச் செய்தார். ஸரஸ்வதியின் அனுமதியுடன் தன்னுடன் அழைத்துச் சென்று பக்தர் அளைவரும் தலையில் ஏந்தி பெருமைப் படுத்தி வணங்கச் செய்தார். ஸரஸ்வதி தானே முன்வந்து வரவேற்று அனைவரின் முன் நிறுத்தினான். லக்ஷ்மியும்

கங்கையும் புன் முறுவலுடன் வரவேற்று அணைத்து உள்ளே அழைத்துச் சென்றனர்.

பிருந்தா, பிருந்தாவனீ விச்வபூஜிதா விச்வபாவனீ, புஷ்பஸாரா, நந்தினீ, துள்ளீ, கிருஷ்ண ஜீவனீ என்ற அவளது எட்டு பெயர்கள் மிகப் புனித மானவை. கார்த்திகை பெளர்ணமியில் துள்ளியின் ஜயந்தீ (பிரந்தநாள்) மிகப் புனிதமானது. அன்று தான் ஹரி அவனை வழிபட்டார். அன்று வழிபடுபவர் வைகுண்டம் செல்வர். கார்த்திகை மாதத்தில் துள்ளியை அந்தணருக்கு வழங்குபவன்பசவைத் தானம் செய்த புனியம் பெறுவான். மக்கட்பேறு, இனிய மனைவி, நல்ல உறவினர், நோய் நீக்கம், சிறையிலிருந்து விடுதலை, பயம் நீங்குதல், பாபம் நீங்குதல், என்றவை இந்த ஸ்தோத்திரம் கூறுவதால் கிடைக்கும்.

கண்வசாகையில் இவளது வழிபாட்டு முறை கூறப்படுகிறது. துள்ளிச் செடியில் அவனை முறையாக வழிபட வேண்டும். புஷ்பஸாரா, துள்ளி, பாபமாகிய காய்ந்த சுள்ளியை எரிப்பவள், அணைவராலும் தலையில் தரிக்கத் தக்கவள், எல்லோராலும் விரும்பப் பெறுபவள். விச்வபாவனீ, ஜீவன் முக்கி அளிப்பவள், ஹரிபக்தியனிப்பவள் என்று தியானம் செய்துதித்து வழிபட வேண்டும்.

**துள்ளீடுபாக்க்யானம் முற்றிற்று.**

— ★ —

### तुलसीनामाष्टक स्तोत्रम् - अष्टनामावलिः

— ★ —

बृन्दा बृन्दावनी विश्वपूजिता विश्वपावनी ।  
पुष्पसारा नन्दिनी च तुलसी कृष्णजीवनी ॥  
एतचामाष्टकं स्तोत्रं पठन्मङ्गलमापुयात् ।

बृन्दायै नमः । बृन्दावन्यै नमः । विश्वपूजितायै नमः ।  
विश्वपावन्यै नमः । पुष्पसारायै नमः । नन्दिन्यै नमः । तुलस्यै नमः ।  
कृष्णजीवन्यै नमः ॥ (8)

तुलालै नामाष्टकं लं तेऽत्तिरम् - अष्टं त नामावलीः  
परुन्ता परुन्तावन्ने विक्षेपपूजीता विक्षेपपावन्ने ।  
पुष्पपलारा नन्तीन्ने क तुलालै करुष्टं ज्ञाज्ञीवन्ने ॥  
ग्रहनं नामाष्टकम् लं तेऽत्तरम् पटानं मांकणामाप्नुयात् ॥  
परुन्ता ययै नमः । परुन्ता वन्नयै नमः । विपर्वपूजीता ययै  
नमः । विपर्वपावन्नयै नमः । पुष्पपलारा ययै नमः । नन्तीन्नयै  
नमः । तुलालै ययै नमः । करुष्टं ज्ञाज्ञीवन्नयै नमः ॥ (8)

— ★ —

### तुलसीनामषोडशकस्तोत्रम् - तुलसीषोडशनामावलिः

तुलसी श्रीमहालक्ष्मीः विद्याऽविद्या यशस्विनी ।  
धर्म्या धर्मावनासक्ता पद्मिनी श्रीहरिप्रिया ॥  
लक्ष्मीप्रियसखी देवी द्यौभूमिरचला चला ।  
षोडशैतानि नामानि तुलस्याः कीर्तयेन्नरः ।  
लभते सुतरां भक्तिं अन्ते विष्णुपदं लभेत् ॥

तुलस्यै नमः । श्रीमहालक्ष्म्यै नमः । विद्यायै नमः । अविद्यायै  
नमः । यशस्विन्यै नमः । धर्म्यायै नमः । धर्मावनासक्तायै नमः ।

பத்திரியை நம: | ஶ்ரீயை நம: | ஹரிப்ரியாயை நம: | லக்ஷ்மிப்ரியசர்வை நம: |  
தேவை நம: | ஦ிவே நம: | மூர்யை நம: | அசலாயை நம: | சலாயை நம: |  
(16)

துளஸீ ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ: வித்யாடவித்யா யசஸ்விந் |  
தர்ம்யா தர்மாவநாஸக்தா பத்மிந் ஸ்ரீர் ஹரிப்ரியா ||  
லக்ஷ்மீப்ரியஸகீ தேவீ த்தெயளர் ஸ்ரீரசலா சலா |  
ஷோட்டைச்தாநி நாமாநி துலஸ்யா: கீர்த்தயேந்நர: |  
லபதே ஸாதராம் பக்திம் அந்தே விஷ்ணுபதம் லபேத் ||

துலஸ்யை நம: | ஸ்ரீமஹாலக்ஷ்மீயை நம: | வித்யாயை நம: |  
அவித்யாயை நம: | யசஸ்விந்யை நம: | தர்ம்யாயை நம: |  
தர்மாவநாஸக்தாயை நம: | பத்மிந்யை: நம: | சரியை நம: |  
ஹரிப்ரியாயை நம: | லக்ஷ்மீப்ரியஸக்க்யை நம: | தேவ்யை நம: |  
திவே நம: | ஸ்ரீம்யை நம: | அசலாயை நம: | சலாயை நம: | (16)

— ★ —

### துலஸ்யஷ்டோத்ரஶतநாமஸ்தோत்ரம्

துலஸி பாவனி பூஜ்யா வூந்஦ாவனநிவாசினி |  
ஜானாத்ரி ஜானமயி நிர்மலா ஸர்வபூஜிதா || १  
ஸதி பதிவ்ரதா வூந்஦ா க்ஷிராபி஘மதனோத்ரவா |  
குணவர்ண ரோஹந்தி திவர்ண ஸர்வகாமदா || २  
லக்ஷ்மிஸர்வி நித்யஶுद்஧ா ஸுடதி மூமிபாவனி ||  
ஹரி஦்ராந்தைக்நிரதா ஹரிபாதகृதாலயா || ३  
பவித்ரஸ்ருபிணி ஧ன்யா ஸு஗ந்஧ிந்யமृதோத்ரவா |  
ஸுருபாராய்஦ா துषா ஶகித்தித்யரஸ்ருபிணி || ४  
தேவி தேவர்ஷிஸ்துத்யா காந்தா விஷ்ணுமன:ப்ரியா |  
மூத்வேதாலம்஭ीதிஶ்வி மஹாபாதகநாஶினி || ५

मनोरथप्रदा मेधा कान्तिर्विजयदायिनी ।  
 शङ्खचक्रगदापद्मधारिणी कामरूपिणी ॥ ६  
 अपवर्गप्रदा श्यामा कृशमध्या सुकेशिनी ।  
 वैकुण्ठवासिनी नन्दा बिम्बोष्ठी कोकिलस्वरा ॥ ७  
 कपिला निम्नगाजन्मभूमिरायुष्यदायिनी ।  
 वनरूपा दुःखनाशिन्यविकारा चतुर्मुजा ॥ ८  
 गरुदमहाहना शान्ता दान्ता विघ्ननिवारिणी ।  
 श्रीविष्णुमूलिका पुष्टिखिवर्गफलदायिनी ॥ ९  
 महाशक्तिमहामाया लक्ष्मीवाणी सुपूजिता ।  
 सुमङ्गल्यर्चनप्रीता सौमङ्गल्यविवर्धिनी ॥ १०  
 चातुर्मास्योत्सवाराध्या विष्णु सान्निध्यदायिनी ।  
 उत्थानद्वादशीपूज्या सर्वदेवप्रपूजिता ॥ ११  
 गोपीरतिपदा नित्या निर्गुणा पार्वतीप्रिया ।  
 अपमृत्युहरा राधाप्रिया मृगविलोचना ॥ १२  
 अम्लाना हंसगमना कमलासनवन्दिता ।  
 भूलोकवासिनी शुद्धा रामकृष्णादिपूजिता ॥ १३  
 सीतापूज्या राममनःप्रिया नन्दनसंस्थिता ।  
 सर्वतीर्थमयी मुक्ता लोकसृष्टिविधायिनी ॥ १४  
 ग्रातर्दश्या गळानिहन्त्री वैष्णवी सर्वसिद्धिदा ।  
 नारायणी सन्ततिदा मूलमृद्धारिपावनी ॥ १५  
 अशोकवनिकासंस्था सीताध्याता निराश्रया ।  
 गोमतीसरयूतीरोपिता कुटिलालका ॥ १६

அபாறமக்ஷயபாபநி ஦ானதோயவிசுஷி஦  
 ஶ्रுதி஧ரணசுப்ரிதா ஶுभா ஸர்வேஷ்டாயினி ॥ १७  
 நாஸ்ராங் ஶதம் சாடக் தசுலஸ்யா: ஸர்வமஜலம்।  
 ஸௌமஜல்யப்ரदं ப்ராத: பதேஷ்கத்யா ஸுமாய்஦ம்।  
 லக்ஷ்மிபதிப்ரஸாதேந ஸர்வவி஘ாப்ராதஂ நூணம் ॥ १८

— ★ —

### ஸ்ரீ துளஸீலா அஷ்டோத்தரசதநாம ஸ்தோத்ரம்

துளஸீலாவநீ பூஜ்யா ப்ருந்தாவந நிவாளிநீ।  
 ஜ்ஞானதாதரீ ஜ்ஞானமயீ நிர்மலா ஸர்வபூஜிதா ॥ १  
 ஸதீ பதிவ்ரதா ப்ருந்தா கஷ்டராப்ததிமதநோத்பவா।  
 க்ருஷ்ணவர்ஞை ரோகஹநந்தரீத்ரிவர்ஞை ஸர்வகாமதா ॥ २  
 லக்ஷ்மிலக்ஷி நிதய சத்தா ஸுததீ பூமிபாவநீ।  
 ஹரித்ரான்னைகநிரதா ஹரிபாதக்ருதாலயா ॥ ३  
 பவித்ர ரூபினீதன்யா ஸுகந்ததின்யம்ருதோத்பவா।  
 ஸுருபாரோக்யதா துஷ்டா சக்தித்ரிதயருபினீ ॥ ४  
 தேவீ தேவர்ஷி ஸம்ஸ்துத்யா காந்தா விஷ்ணுமந:ப்ரியா।  
 பூதவேதாளபீதிக்கனீ மஹாபாதகநாசினீ ॥ ५  
 மநோரதப்ரதா மேதா சாந்திர விஜயதாயினீ।  
 சங்கசக்ரகதாபத்ம தாரினீ காமருபினீ ॥ ६  
 அபவர்கப்ரதா ச்யாமா க்ருசமத்தயா ஸுகேசினீ।  
 வைகுண்ட்டவாளினீ நந்தா பிம்போஷ்ட்ட கோகிலஸ்வரா ॥ ७  
 கபிலா நிம்நகாஜனம்பூமிராயுஷ்யதாயினீ।  
 வநருபா து:க்கநாசின்யவிகாரா சதுரப்பஜா ॥ ८  
 கருதமத்வாஹநா சாந்தா தாந்தா விக்கனநிவாரினீ।  
 ஸ்ரீவிஷ்ணுமூலிகா புஷ்டிஸ்த்ரிவர்கபலதாயினீ ॥ ९  
 மஹாசக்திர மஹாமாயா லக்ஷ்மிவாணீ ஸுபூஜிதா।  
 ஸுமங்கல்யர்சநப்ரீதா ஸெளமங்கல்யபிவர்த்தினீ ॥ १०

सातुर्माल्स्येऽसवारात्तया विष्णु शान्नित्यतायिणैः।  
 उत्ताणत्वात्स्त्रीपूज्या लर्वतेवपरपूजिता ॥ 11  
 कोपीरथिप्रता नित्या निरकुणा पार्वतीपरिया।  
 अपमंगुत्युमरा रातापरिया मंगुकविलोकना ॥ 12  
 अमलाना ख्रम्ल स कमना कमलाशनवन्तिता।  
 पूलोकवालीणैः कृता रामकृष्णात्पूजिता ॥ 13  
 लौतापूज्या राममनः परिया नन्दन लम्लस्तत्तिता।  
 लर्वतीर्त्तमयै मुक्ता लोकस्त्रिवितायिणैः ॥ 14  
 प्रातर्त्तरुच्या कलान्तिलुन्तरी वेष्णवै लर्ववलित्ततिता।  
 नारायणैः लन्तत्तिता रूलम्गुत्ततारी पावन्ते ॥ 15  
 अशोकवन्तिकाशम्लस्तता लौतात्तयाता निराकरया।  
 कोमती लर्युत्तीर रोपिता कुटिलका ॥ 16  
 अपात्रपक्षय पापक्षें ताणतेयविकृत्ततिता।  
 चरुतितारणलुपर्तीता कुपाशर्वेष्टतायिणैः ॥ 17  
 नाम्नाम्न चतम् लर्वक्षितकम् तत्तुलस्या: लर्वकामतम्।  
 लेणामवकलयप्रतम् प्रातः पटेत पक्त्या लुपाक्यतम्।  
 लक्ष्मीपति प्रलातेन लर्ववित्याप्रतम् नंगुणम् ॥ 18

— ★ —

### श्री तुलस्यष्टोत्रशतनामावलिः ।

ओं तुलस्यै नमः। पावन्यै नमः। पूज्यायै नमः।  
 बृद्धावननिवासिन्यै नमः। ज्ञानदात्र्यै नमः। ज्ञानमच्यै नमः।  
 निर्मलायै नमः। सर्वपूजितायै नमः। सत्यै नमः। पतिव्रतायै नमः।  
 बृद्धायै नमः। क्षीराभ्यमध्यनोद्भवायै नमः। कृष्णवण्यै नमः।  
 रोगहन्त्र्यै नमः। त्रिवण्यै नमः। सर्वकामदायै नमः। लक्ष्मीसरव्यै  
 नमः। नित्यशुद्धायै नमः। सुदत्यै नमः। भूमिपावन्यै नमः। २०

हरिद्राचैकनिरतायै नमः। हरिपादकृतालयायै नमः।  
 पवित्रसूपिण्यै नमः। धन्यायै नमः। सुगन्धिन्यै नमः। अमृतोद्भवायै

नमः । सुरूपारोग्यदायै नमः । तुष्टायै नमः । शक्तित्रितयस्त्रिपिण्यै  
नमः । देव्यै नमः । देवर्षिसंस्तुत्यायै नमः । कान्तायै नमः । विष्णुमनः  
प्रियायै नमः । भूतवेतालभीतिष्ठै नमः । महापातकनाशिन्यै नमः ।  
मनोरथप्रदायै नमः । मेधायै नमः । कान्त्यै नमः । विजयदायिन्यै  
नमः । शङ्खचक्रगदापद्मधारिण्यै नमः । (४०)

ओं कामरूपिण्यै नमः । अपबर्गप्रदायै नमः । श्यामायै नमः ।  
कृशमध्यायै नमः । सुकेशिन्यै नमः । वैकुण्ठवासिन्यै नमः । नन्दायै  
नमः । बिम्बोष्ठचै नमः । कोकिलस्वरायै नमः । कपिलायै नमः ।  
निम्नगाजन्मभूयै नमः । आयुष्यदायिन्यै नमः । बनरूपायै नमः ।  
दुःखनाशिन्यै नमः । अविकारायै नमः । चतुर्भुजायै नमः ।  
गरुत्मद्वाहनायै नमः । शान्तायै नमः । दान्तायै नमः । विद्वनिवारिण्यै  
नमः । (६०)

ओं श्रीविष्णुमूलिकायै नमः । पुष्टचै नमः । त्रिवर्गफलदायिन्यै  
नमः । महाशक्त्यै नमः । महामायायै नमः । लक्ष्मीवाणीसुपूजितायै  
नमः । सुमङ्गल्यर्चनप्रीतायै नमः । सौमङ्गल्यविवर्धिन्यै नमः ।  
चातुर्मास्योत्सवाराध्यायै नमः । विष्णुसामिध्यदायिन्यै नमः ।  
उत्थानद्वादशीपूज्यायै नमः । सर्वदेवप्रपूजितायै नमः । गोपीरति  
प्रदायै नमः । नित्यायै नमः । निर्गुणायै नमः । पार्वतीप्रियायै नमः ।  
अपमृत्युहरायै नमः । राधाप्रियायै नमः । मृगविलोचनायै नमः ।  
अम्लानायै नमः । ८०

ओं हंसगमनायै नमः । कमलासनवन्दितायै नमः ।  
भूलोकवासिन्यै नमः । शुद्धायै नमः । रामकृष्णादिपूजितायै नमः ।  
सीतापूज्यायै नमः । राममनःप्रियायै नमः । नन्दनसंस्थितायै नमः ।  
सर्वतीर्थमच्यै नमः । मुक्तायै नमः । लोकसृष्टिविधायिन्यै नमः ।  
प्रातर्दृश्यायै नमः । ग्लानिहन्त्र्यै नमः । वैष्णव्यै नमः । सर्वसिद्धिदायै

नमः । नारायण्यै नमः । सन्ततिदयै नमः । मूलमृद्धारिपावन्यै नमः ।  
अशोकवनिकाससंस्थायै नमः । सीताध्यातायै नमः । १००

ओ निराश्रयायै नमः । गोमतीसरयूतीररोपितायै नमः ।  
कुटिलालकायै नमः । अपात्रभद्रदापद्मयै नमः । दानतोषविशुद्धिदायै  
नमः । श्रुतिधारणसुप्रीतायै नमः । शुभायै नमः । सर्वेषदायिन्यै नमः ।  
१०८

—★—

### प्रदीपुलसी औष्ठोटान्तर चक्र नामावली

ॐ तुलाश्नेये नमः । पावन्श्नेये नमः । पूज्याश्नेये नमः ।  
प्रगृन्तरावन निवालिन्श्नेये नमः । ज्ञानान्तात्तराश्नेये नमः ।  
ज्ञानान्नामप्श्नेये नमः । निर्मलाश्नेये नमः । लर्वपूज्यिताश्नेये नमः ।  
लत्ताश्नेये नमः । पत्तिवर्ताश्नेये नमः । प्रगृन्तराश्नेये नमः ।  
कृष्णाप्तिमत्तेनोत्पवाश्नेये नमः । करुणावर्णाश्नेये नमः ।  
रोक्तुरुन्तराश्नेये नमः । त्रिवर्णाश्नेये नमः । लर्वकामताश्नेये नमः ।  
लक्ष्मी लक्ष्मेश्नेये नमः । नित्यकृत्ताश्नेये नमः । शात्तराश्नेये नमः ।  
पूर्विपावन्श्नेये नमः । २०

ॐ हृषीत्तराङ्गेनक निरताश्नेये नमः । हृषीपात्तकरुतालयाश्नेये  
नमः । पवित्र रुपिण्णश्नेये नमः । तन्याश्नेये नमः । लाकन्तीन्द्रिन्श्नेये नमः ।  
अम्ग्रुतेऽत्पवाश्नेये नमः । लालुपारोक्यताश्नेये नमः ।  
तुष्टिटाश्नेये नमः । सक्तित्तित्तिय रुपिण्णश्नेये नमः । तेवेश्नेये नमः ।  
तेवर्षवीलम्स्तुत्याश्नेये नमः । कान्तराश्नेये नमः ।  
विष्णुमाप्तियाश्नेये नमः । पृथिवेताळ पृथिक्कक्कन्श्नेये नमः ।  
महोपातक नाशिन्श्नेये नमः । मगेनारथ प्रताश्नेये नमः । मेताश्नेये  
नमः । कान्तश्नेये नमः । विजयतायिन्श्नेये नमः । चंक्र कर्ता पत्तम  
तारिण्णश्नेये नमः । ४०

ॐ कामरुपिण्णश्नेये नमः । अपवर्कप्रताश्नेये नमः ।  
स्यामाश्नेये नमः । करुचमत्तयाश्नेये नमः । लाकेशीन्श्नेये नमः ।  
वेवकुण्टटवालिन्श्नेये नमः । नन्तराश्नेये नमः । प्रिम्पोष्टिश्नेये  
नमः । कोकील लंवराश्नेये नमः । कपिलाश्नेये नमः । निम्नका

ஜன்மபூம்பையெநம: | ஆயுஷியதாயின்யைநம: | வனரூபாயைநம: |  
துக்கநாசின்யை நம: | அவிகாராயை நம: | சதுர்ப்புஜாயை நம: |  
கருத்மத்வாஹநாயை நம: | சாந்தாயை நம: | தாந்தாயை நம: |  
விக்னிவாரின்யைநம: | (60)

ஓம் ஸ்ரீ விஷ்ணு மூலிகாயை நம: | புஷ்டையை நம: | தரிவர்க  
பலதாயின்யை நம: | மஹாசக்தையை நம: | மஹாமாயாயை நம: |  
லக்ஷ்மீ வாணீ ஸாபூஜிதாயை நம: | ஸாமங்கல்யர்ச்சன பரீதாயை  
நம: | செளளமங்கல்ய விவர்தின்யை நம: | சாதுர்மாஸ்யோத்ஸ-  
வாராத்யாயை நம: | விஷ்ணுஸான்னித்ய தாயின்யை நம: |  
உத்தானத்வாதசீபூஜ்யாயை நம: | ஸர்வதேவ ப்ரபூஜிதாயை நம: |  
கோபீரதி ப்ரதாயை நம: | நித்யாயை நம: | நிர்குணாயை நம: |  
பார்வதி பரியாயை நம: | அபமருத்ய ஹராயை நம: | ராதாபரியாயை நம: |  
மருக விலோசனாயை நம: | அம்லானாயை நம: |

ஓம் ஹம்ஸ கமளாயை நம: | கமலாஸன வந்திதாயை நம: |  
க்லோக வாளின்யை நம: | சுத்தாயை நம: | ராம ச்சுருஷ்ணதி  
பூஜிதாயை நம: | ஸௌபூஜ்யாயை நம: | ராம மந: பரியாயை நம: |  
நந்தன ஸம்ஸுந்ததிதாயை நம: | ஸர்வதீர்த்தமய்யை நம: | முக்தாயை  
நம: | லோகஸ்ருஷ்டி விதாயின்யை நம: | ப்ராதர் தருச்யாயை நம: |  
க்லானி ஹந்தர்யை நம: | வைஷ்ணவயை நம: | ஸர்வ ஸித்திதாயை  
நம: | நாராயணயை நம: | ஸந்ததிதாயை நம: | மூல மருத்தாரி  
பாவன்யை நம: | அசோகவனிகா ஸம்ஸ்தாயை நம: | ஸீதாத்யாதாயை  
நம: | 100

ஓம் நிராச்ரயாயை நம: | கோமதீ ஸரஷ்டீர ரோபிதாயை நம: |  
குடிலாலகாயை நம: | அபாதரபக்ஷ்ய பாபக்கன்யை நம: |  
தானதோய விசுத்திதாயை நம: | சுருதிதாரண ஸபரீதாயை நம: |  
சபாயை நம: | ஸர்வேஷ்டதாயின்யை நம: | 108

— ★ —

### கேಶவாடி ஦்வாदशநாமாவளி:

ஓ கேশவாய நம: | நாராயணாய நம: | மா஧வாய நம: |  
஗ோவிந்஦ாய நம: | விஷ்ணவே நம: | மதுஸूதநாய நம: | திவிக்ரமாய

वामनाय नमः । श्रीधराय । हृषिकेशाय नमः । पद्मनाभाय नमः ।  
दामोदराय नमः ।

### केशवातीत्वात्सनामावली

ॐ केशवाय नमः । नारायण्ये नमः । मातवाय नमः ।  
कोविन्धाय नमः । विष्णवे नमः । मतुलितनाय नमः ।  
तंरीविकर्माय नमः । वामनाय नमः । हृषिकेशाय नमः । पद्मनाभाय  
नमः । दामोदराय नमः । सङ्खर्षणाय नमः । प्रद्युम्नाय नमः ।  
अनिरुद्धाय नमः । वासुदेवाय नमः । पुरुषोत्तमाय नमः ।  
अधोऽक्षजाय नमः । नारसिंहाय नमः । अच्युताय नमः । जनार्दनाय  
नमः । उपेन्द्राय नमः । हरये नमः । श्रीकृष्णाय नमः । १२

—★—

### विष्णु चतुर्विंशति नामावलिः

ओं केशवाय नमः । नारायणाय नमः । माधवाय नमः ।  
गोविन्दाय नमः । विष्णवे नमः । मधुसूदनाय नमः । त्रिविक्रमाय  
नमः । वामनाय नमः । श्रीधराय नमः । हृषिकेशाय नमः । पद्मनाभाय  
नमः । दामोदराय नमः । सङ्खर्षणाय नमः । प्रद्युम्नाय नमः ।  
अनिरुद्धाय नमः । वासुदेवाय नमः । पुरुषोत्तमाय नमः ।  
अधोऽक्षजाय नमः । नारसिंहाय नमः । अच्युताय नमः । जनार्दनाय  
नमः । उपेन्द्राय नमः । हरये नमः । श्रीकृष्णाय नमः । २४

—★—

### गृही विष्णु चतुर्विंशति नामावली

ॐ केशवाय नमः । नारायण्ये नमः । मातवाय नमः । कोविन्धाय  
नमः । विष्णवे नमः । मतुलितनाय नमः । तंरीविकर्माय नमः ।  
वामनाय नमः । हृषिकेशाय नमः । पद्मनाभाय नमः । पत्तमनापाय  
नमः । तामोदराय नमः । उपेन्द्राय नमः । लंकारंश्चन्नये नमः । प्रत्युम्नाय नमः ।  
अनिरुद्धाय नमः । वासुदेवाय नमः । पुरुषोत्तमाय नमः ।  
अद्योऽक्षजाय नमः । नारसिंहाय नमः । अस्युताय नमः ।  
जूनार्दनाय नमः । उपेन्द्राय नमः । उपेन्द्राय नमः । गृहीकृष्णाय  
नमः । (२४)

—★—

### श्रीविष्णवष्टोत्तरशतनामावलिः

ओं विष्णवे नमः । लक्ष्मीपतये नमः । कृष्णाय नमः । वैकुण्ठाय  
नमः । गरुडध्वजाय नमः । परब्रह्मणे नमः । जगन्नाथाय नमः ।  
वासुदेवाय नमः । त्रिविक्रमाय नमः । दैत्यान्तकाय नमः । मधुरिपवे  
नमः । तार्क्ष्यवाहाय नमः । सनातनाय नमः । नारायणाय नमः ।  
पद्मनाभाय नमः । हर्षीकेशाय नमः । सुधाप्रदाय नमः । हरये नमः ।  
पुण्डरीकाक्षाय नमः । स्थितिकर्त्रे नमः । २०

ओं परात्पराय नमः । बनमालिने नमः । यज्ञरूपाय नमः ।  
चक्रपाणये नमः । गदाधराय नमः । उपेन्द्राय नमः । केशवाय नमः ।  
हंसाय नमः । समुद्रमथनाय नमः । हरये नमः । गोविन्दाय नमः ।  
ब्रह्मजनकाय नमः । कैटभासुरमर्दनाय नमः । श्रीधराय नमः ।  
कामजनकाय नमः । शेषाय नमः । चतुर्भुजाय नमः । पाञ्चजन्यधराय  
नमः । श्रीमते नमः । शार्ङ्गपाणये नमः ॥ ४०

ओं जनार्दनाय नमः । पीताम्बरधराय नमः । देवाय नमः ।  
सूर्यचन्द्रविलोचनाय नमः । मत्स्यरूपाय नमः । कूर्मतनवे नमः ।  
क्रोडरूपाय नमः । नृकेसरिणे नमः । वामनाय नमः । भार्गवाय नमः ।  
रामाय नमः । हलिने नमः । कल्किने नमः । हयाननाय नमः ।  
विश्वभराय नमः । शिंशुमाराय नमः । श्रीकराय नमः । कपिलाय  
नमः । ध्रुवाय नमः । दत्तात्रेयाय नमः । ६०

ओं अच्युताय नमः । अनन्ताय नमः । मुकुन्दाय नमः ।  
दधिवामनाय नमः । धन्वन्तरये नमः । श्रीनिवासाय नमः । प्रद्युम्नाय  
नमः । पुरुषोत्तमाय नमः । श्रीबत्सकौस्तुभधराय नमः । मुरारातये  
नमः । अधोक्षजाय नमः । क्रष्णाय नमः । मोहिनीरूपधारिणे नमः ।  
सङ्कर्षणाय नमः । पृथवे नमः । क्षीराब्धिशायिने नमः । भूतात्मने  
नमः । अनिरुद्धाय नमः । भक्तवत्सलाय नमः । नराय नमः । ८०

ओं गजेन्द्रवरदाय नमः । त्रिधामे नमः । भूतभावनाय नमः ।  
 श्वेतद्वीपे सुवास्तव्याय नमः । सूर्यमण्डलमध्यगाय नमः ।  
 सनकादिमुनिध्येयाय नमः । भगवते नमः । शङ्करप्रियाय नमः ।  
 नीलाकान्ताय नमः । तारकान्ताय नमः । वेदात्मने नमः ।  
 बादरायणाय नमः । भागीरथीजन्मभूमिपादपद्माय नमः । सतां प्रभवे  
 नमः । स्वभुवे नमः । विभवे नमः । घनश्यामाय नमः । जगत्कारणाय  
 नमः । अव्ययाय नमः । बुद्धावताराय नमः । १००

ओं शान्तात्मने नमः । लीलामानुषविग्रहाय नमः । दामोदराय  
 नमः । विराइरूपाय नमः । भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः । आदिदेवाय  
 नमः । देवदेवाय नमः । प्रङ्गादपरिपालकाय नमः । १०८

— \* —

### मृद्दि विष्णु अ॒न्ते॑त्तरा स॒त् ना॒मा॒वती

ऋं विष्णुवे नमः । लक्ष्मीपैत्रये नमः । करुणाण्ये नमः ।  
 वैवरुण्णट्टाय नमः । करुटत्वज्ञाय नमः । परपरवृमणे नमः ।  
 ज्ञकन्नर्थाय नमः । वासुदेवाय नमः । त्रिविक्रमाय नमः ।  
 शेत्यान्तकाय नमः । मतुरीपवे नमः । तारकायवाहाय नमः ।  
 लग्नात्माय नमः । नारायण्ये नमः । पत्न्मनापाय नमः ।  
 श्रुत्रुद्धिकेशाय नमः । शृतापर्त्ताय नमः । ऊर्ये नमः ।  
 घुञ्चटीकाळाय नमः । शंत्तित्रिकर्त्तरे नमः । २०

ऋं परात्पराय नमः । वैवामालीनेनमः । यज्ञुर्णुपाय नमः ।  
 उक्त्रयाक्षये नमः । कठात्तराय नमः । उपेन्तराय नमः । केशवाय  
 नमः । ऋष्णाय नमः । श्रुत्रुद्धिमत्तनाप नमः । ऊर्ये नमः ।  
 गोविन्दत्ताय नमः । प्राण्मृत्तिमृत्तकाय नमः । शेषाय नमः ।  
 शुद्धिराय नमः । कामद्वृत्तकाय नमः । चेष्ठाय नमः । चतुर्पंचज्ञाय  
 नमः । पराञ्ञुक्तुक्तियत्तराप नमः । मृद्दि तेनमः । कार्णकपाण्ये नमः ।  
 ४०

ऋं ऋज्ञारात्माय नमः । पैताम्परतराय नमः । तेवोय नमः ।  
 लिंगायत्र विलोक्नाय नमः । मत्स्यरुपाय नमः ।

— — —

கூர்மதனவே நம: | க்ரோட்டாபாய நம: | ந்ருகேஸினே நம: | வாமனாய நம: | பார்க்கவாய நம: | ராமாய நம: | ஹலினே நம: | கல்கினே நம: | ஹயானனாய நம: | விசுவம்பராய நம: | சிம்சமாராய நம: | பூஞ்சராய நம: | கபிலாய நம: | த்ருவாய நம: | தத்தாத்ரேயாய நம: | 60

ஓம் அச்யதாய நம: | அனந்தாய நம: | முகுந்தாய நம: | ததிவாமனாய நம: | தன்வந்தரயே நம: | பூஞ்சிவாஸாய நம: | ப்ரத்யும்னாய நம: | புருஷோத்தமாய நம: | பூஞ்வத்ஸகெள்ஸ்துபதராய நம: | முராராதயே நம: | அதோகஷஜாய நம: | ருஷபாய நம: | மோஹி நீரூபதாரினே நம: | ஸங்கர்ஷணைய நம: | ப்ருதவே நம: | சுதீராப்திகாயினே நம: | பூதாத்மனே நம: | அனிருத்தாய நம: | பக்தவத்ஸலாபநம: | நராய நம: | (80)

ஓம் கஜேந்த்ரவரதாய நம: | த்ரிதாம்னே நம: | பூதபாவனாய நம: | சுவேதத்சீபே ஸாவாஸ்தவ்யாய நம: | ஸதிர்யமண்டல மத்யகாய நம: | ஸண்காதிமுனி த்யேயாய நம: | பகவதே நம: | சங்கரப்ரியாய நம: | தீளாகந்தாய நம: | தாரகாந்தாய நம: | வேதாத்மனே நம: | பாதராயணைய நம: | பாக்ரதீஜன்மழுஷி பாதபத்மாய நம: | ஸதாம் ப்ரபலே நம: | ஸ்வப்பவே நம: | விபவே நம: | கண்சயாமாய நம: | ஜுகத்காரணைய நம: | அவ்யயாய நம: | புத்தாவதாராய நம: | 100

ஓம் காந்தகாத்மனே நம: | விலாமானுஷி விக்ரஹாய நம: | தாமோதராய நம: | வீராட்சூபாய நம: | பூதபவ்யபவத்பரபவே நம: | ஆதி தேவாய நம: | தேவ தேவாய நம: | ப்ரஹ்மாத பரிபாலகாய நம: | 108

—\*—

### துளசீபூஜை - ६

துளசீபூஜை + ஶ்ரீபரம்பரப்ளத்யீ துலசீபூஜை ப்ரீத்யீ  
ஸ்வர்சிஷாந்த்யீ ஸ்வமஜலப்ராஸ்யீ துலசீபூஜை கரிஷ்மீ //  
(அப் உபஸ்பூஷ - பூர்ணபூஜா)

ध्यायामि तुलसीं देवीं श्यामां कमललोचनाम्।  
 प्रसन्नां पद्मकलहार वराभय चतुर्भुजाम्॥  
 किरीट हार केयूर कुण्डलादिविभूषिताम्।  
 धवलांशुकसंयुक्तां पद्मासन निषेदुषीम्॥

तुलसीं देवीं ध्यायामि ॥

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| अस्मिन् तुलसी क्षुपे तुलसीं देवीं आवाहयामि । |                                      |
| विष्णुवल्लभायै नमः                           | - आसनं समर्पयामि ।                   |
| सर्वदेवमयायै नमः                             | - पादं समर्पयामि ।                   |
| सर्वतीर्थमयायै नमः                           | - अर्धं समर्पयामि ।                  |
| दैत्यान्तकृत्प्रियायै नमः                    | - आचमनीयं समर्पयामि ।                |
| सर्वलोकहितायै नमः                            | - स्नानं समर्पयामि ।                 |
| लक्ष्मी सहोदर्यै नमः                         | - वस्त्रयुग्मं कञ्चुकं च समर्पयामि । |
| महादेव्यै नमः                                | - गन्धं कुङ्कुमं समर्पयामि ।         |
| रमावासायै नमः                                | - अक्षतान्समर्ययामि ।                |
| अभीष्टदायै नमः                               | - पुष्पाणि समर्पयामि ।               |
| अर्चना—                                      |                                      |

|  |                        |
|--|------------------------|
| बृन्दायै नमः । बृन्दावन्यै नमः । विश्वपूजितायै नमः ।                 |                        |
| विश्वपावन्यै नमः । पुष्प सारायै नमः । नन्दिन्यै नमः । तुलस्यै नमः ।  |                        |
| कृष्णजीवन्यै नमः । (षोडशनामभिः, अष्टोत्तरशतनामभिः<br>सहस्रनामभिर्वा) |                        |
| पापहारिण्यै नमः  | - धूपं समर्पयामि ।     |
| भगवत्यै नमः  | - दीपं समर्पयामि ।     |
| अमृतसंभूतायै नमः   | - नैवेद्यं समर्पयामि । |

जगद्धात्रै नमः - ताम्बूलं फलानि च समर्पयामि ।  
 सुदक्षिणायै नमः - नीराजनं समर्पयामि ।  
 परमेश्वर्यै नमः - पुष्पाऽजलिं समर्पयामि ।  
 अभीष्टदातै नमः - प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि ।  
 तुलसीस्तोत्राणि पठेत् । (पृ. १२८-१४०)  
 यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च ।  
 तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे ॥  
 तुलसी देव्यै नमः - सर्वोपचारान् समर्पयामि ।  
 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् ।  
 करोमि यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ।  
 ॥ ओं तत्सत् - ब्रह्मार्पणमस्तु ॥

—★—

### துளை லகு பூஜா - 1

சக்ளாம்பரதரம் + ஸ்ரீ பரமேச்வரப்ரீத்யரத்தம்,  
 ஸர்வாரிஞ்சிடசாந்த்யரத்தம் ஸர்வமங்கள ப்ராப்த்யரத்தம்  
 துளைப்ரீத்யரத்தம் துளை பூஜாம் கரிஞ்சே । (கையலம்பி  
 சூர்வாங்க பூஜை செய்து).

த்யாயாமி துளைம் தேவீம் ச்யாமாம் கமலலோசநாம் ।  
 ப்ரஸன்னாம் பத்ம கல்லூர வராபய சதுர்பூஜாம் ॥  
 கிரீட ஹார கேழுர குண்டலாதி விழுஷிதாம் ।  
 தவளாம்க்கலம்யுக்தாம் பத்மாஸனநிஷேதுஷீம் ॥  
 துலைம் தேவீம் த்யாயாமி ।  
 அஸ்மின் துலை கஷ்டைபே துலைம் தேவீம் ஆவாஹாயாமி ।  
 விஞ்சனை வல்லபாயை நமः । -ஆஸனம் ஸமர்பயாமி ।  
 ஸர்வதேவமயாயை நமः । -பாத்யம் ஸமர்பயாமி ।  
 ஸர்வதீர்த்தமயாயை நமः । -அர்க்கயம் ஸமர்பயாமி ।  
 தைத்யாந்தக்ருதபரியாயை நமः । -ஆசமநீயம் ஸமர்ப்பயாமி

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| सर्वलोकविताये नमः ।   | -स्वनामं समर्पयामि ।                  |
| वक्षमि लोहातरये नमः । | वल्त्रयुक्तमं कर्त्तकमं स समर्पयामि । |
| महा तेवये नमः ।       | -कन्तम्, गुण्कुमम् स समर्पयामि        |
| रमावालाये नमः ।       | -अकथानं लमर्पयामि ।                   |
| अपेष्टताये नमः ।      | -पुष्पाणि समर्पयामि                   |

अर्चकै - प्रगृन्ताये नमः - प्रगृन्तावन्ये नमः, विश्वपूजिताये नमः, विश्वपावन्ये नमः, पुष्पलाराये नमः, नन्तीन्ये नमः, तुलास्ये नमः, करुषिणा जीवन्ये नमः, (16-108-1000 नामाङ्कणालं अर्चकै देश्यलाम्).

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| पापापलूरारिण्ये नमः                      | -त्रूपम् समर्पयामि                 |
| पकवत्तये नमः ।                           | -त्रिपम् समर्पयामि ।               |
| अम्गुरुतस्मृताये नमः ।                   | -नेनवेत्यम् समर्पयामि ।            |
| ज्ञकत्तात्रये नमः                        | -ताम्पूलम् पलाणि स समर्पयामि ।     |
| सातक्षिण्ये नमः                          | -नीराज्ञानम् समर्पयामि             |
| परमेश्वरये नमः ।                         | -पुष्पाग्न्जलिम् समर्पयामि ।       |
| अपेष्टताये नमः                           | -प्रतक्षिणा नमस्कारानं समर्पयामि । |
| यानि कानि स पापानि ज्ञन्मान्तर करुताणि स |                                    |
| तानि तानि विनश्यन्ति प्रतक्षिणा पते पते  |                                    |
| तुलसी तेवये नमः                          |                                    |

-सर्व राज्ञोपकार तेवोपकारानं समर्पयामि ।

तुलासीस्तेऽत्तिरम् पदिक्कवुम् (पक. 128-140)

कायेन वासा मनसा इन्तरियर्वा  
पुत्तयात्मना वा प्रकरुतेः स्वप्नावात्  
करोमि यत्यत् सकलम् प्रस्तुम  
नारायण्ये येति समर्पयामि ॥  
३३ तत्त लत् - प्ररुम्मार्पणमस्तु

— ★ —

### ਤੁਲਸੀ ਪ੍ਰਗਟ - (ਲਘੁ:-੨)

शुक्रांबरधरं + शान्तये + परमेश्वरप्रीत्यर्थं श्री  
 तुलसीदेवीप्रीत्यर्थं दीर्घसौमङ्गल्यप्रास्यर्थं सत्सन्तानसिद्ध्यर्थं  
 समस्तसंਪत्त्रास्यर्थं सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं तुलसीपूजां करिष्ये । (अप  
 उपस्पृश्य)

अस्मिन् तुलसीक्षुपे तुलसीं बृन्दां ध्यायामि । आवाहयामि ।  
 बृन्दावन्यै नमः - आसनं समर्पयामि । विश्वपूजितायै नमः - पादं  
 समर्पयामि । विश्वपावन्यै नमः - अर्धं समर्पयामि । पुष्पसारायै  
 नमः - आचमनीयं समर्पयामि । नन्दिन्यै नमः - स्नानं समर्पयामि ।  
 तुलस्यै नमः - वस्त्रं समर्पयामि । कृष्णजीवन्यै नमः - गन्धं  
 समर्पयामि । कुङ्कुमं समर्पयामि ।

अर्चना - बृन्दावै नमः । गोलोकवासिन्यै नमः । कृष्णप्रियायै  
 नमः । सर्वरोगहरायै नमः । सन्ततिप्रदायै नमः । सौमङ्गल्यदायै  
 नमः । सौभाग्यप्रदायै नमः । पतिव्रतायै नमः । अतुलायै नमः ।  
 बृन्दावन्यै नमः ।

विश्वपूजितायै नमः - धूपं दर्शयामि । दीपं दर्शयामि ।  
 विश्वपावन्यै नमः - नैवेद्यं समर्पयामि । पुष्पसारायै नमः -  
 कर्पूरनीराजनं दर्शयामि । नन्दिन्यै नमः - पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ।  
 तुलस्यै नमः । प्रदक्षिणं करोमि । कृष्णजीविन्यै नमः - नमस्कारं  
 समर्पयामि ।

ओङ्कारपूर्विके देवि सर्वदेवस्वरूपिणि ।

सर्वदेवमये देवि सौमङ्गल्यं प्रयच्छ मे ॥

बृन्दे मां सर्वदा देवि कृपादृष्ट्या विलोक्य ।

पत्सुरायुश्च भाग्यं च सदा देहि हरिप्रिये ॥

प्रसीद मम देवेशि प्रसीद हरिवल्लभे ।

इति प्रार्थ्यं द्वादशवारं नमस्कुर्यात् तुलसीस्तुतिं पठेत् । पूजां  
तुलसीचरणयोरप्येत् ।

— ★ —

### तुलालैलकु ट्रूजू-2 (பெண்கள்)

எங்கல்டம்

கக்லாம்பரதரம் ... சாந்தயே । மமோபாத்த.... பீதயர்த்தம்  
துளஸீ தேவீ பீதயர்த்தம் தீர்க்கலெளமங்கல்ய அவாப்தயர்த்தம்,  
ஸத்ஸுந்தான லிதயர்த்தம், ஸமஸ்த ஸம்பத் ப்ராப்தயர்த்தம்.  
ஸர்வாபீஷ்ட லிதயர்த்தம் துளஸீ பூஜாம் கரிஷ்டயே - (ஜலத்தைத்  
தொட்டுக் கையைச் சுத்தி செய்யவும், பிறகு அஸ்மிந் துளஸீ  
காபே துளஸீம் ப்ருந்தாம் தயாயாமி (தயானம் செய்யவும்)  
ஆவாஹ்யாமி । (துளளியை ஆவாஹனம் செய்யவும்).

ப்ருந்தாவன்யை நம: । ஆஸனம் ஸமர்ப்பயாமி । (அகஷதை  
போடவும்) விச்வழூஜிதாயை நம: । பாத்யம் ஸமர்ப்பயாமி (தீர்த்த  
பாத்திரத்தில் சிறிது ஜலம் விடவும்) விச்வபாவன்யை நம: ।  
அர்க்யம் ஸமர்ப்பயாமி (ஜலம் விடவும்). புஷ்ப ஸாராயை நம: ।  
ஆசமனீயம் ஸமர்ப்பயாமி (ஜலம் விடவும்) நந்திந்யை நம: ।  
ஸநானம் ஸமர்ப்பயாமி (ப்ரோகாஷிக்கவும்) துளஸ்யை நம: ।  
வஸ்தரம் ஸமர்ப்பயாமி (பூ-அகஷதையைப் போடவும்) க்ருஷ்ண  
ஜீவின்யை நம: । கந்தம், குங்குமம் ஸமர்ப்பயாமி (சந்தனம்,  
குங்குமம் இடவும்) துளஸ்யை நம: । நானாவித பத்ர பரிமள  
புஷ்பாணி ஸமர்ப்பயாமி, (புஷ்பங்களை ஸமர்ப்பிக்கவும்).

புஷ்ப அர்ச்சனை:- ப்ருந்தாயை நம: । கோலோகவாளின்யை  
நம: । க்ருஷ்ணப்ரியாயை நம: । ஸர்வரோகஹராயை நம: ।  
ஸந்ததிப்ரதாயை நம: । ஸெளமங்கல்யதாயை நம: ।  
ஸெளபாக்யப்ரதாயை நம: । பதிவ்ரதாயை நம: । அதுலாயை நம: ।  
ப்ருந்தாவன்யை நம: ।

விச்வழூஜிதாயை நம: । தூபம் தர்சயாமி । (தூபம் காட்டவும்)  
தீபம் தர்சயாமி । (தீபம் காட்டவும்) விச்வபாவன்யை நம: ।

நெவேத்யம் ஸமர்ப்பயாமி, (நெவேத்யம் செய்யவும்) புஷ்ப ஸாராயை நம: | கர்பூர நீராஜனம் தர்சயாமி. (கர்பூரம் காட்டவும்). நந்தின்யை நம: | புஷ்பாஞ்ஜலிம் ஸமர்ப்பயாமி. (புஷ்பம் போடவும்) துளஸ்யை நம: | ப்ரதக்ஷிணாம் கரோமி (என்று சொல்லி நான்கு ப்ரதக்ஷிணங்கள் செய்யவும்) க்ருஷ்ண ஜீவன்யை நம: (என்று நான்கு நமஸ்காரங்கள் செய்யவும்).

துளஸ்யை நம: - ஸர்வோபசார பூஜா: ஸமர்ப்பயாமி பிரார்த்தித்துப் பூஜையை துளஸியிடம் அர்ப்பணம் செய்யவும்.

— ★ —

தீர்க்க ஸௌமாங்கல்யம் பெறப் ப்ரார்த்தனை  
ஒங்கார பூர்வீகே தேவி ! ஸர்வவேத ஸ்வரூபிணி !  
ஸர்வதேவமயே தேவி ! ஸௌமங்கல்யம் ப்ரயக்ச மே !!  
ப்ருந்தே மாம் ஸர்வதா தேவி க்ருபாத்ருஷ்ட்யா விலோகய !  
பத்யுராயுச்ச பாக்யம் ச ஸதா தேவி ஹரிப்ரியே !!  
ப்ரஸீத மம தேவேசி ப்ரஸீத ஹரிவல்லபே

என்று சொல்லி 12 நமஸ்காரங்கள் செய்யவும்.

— ★ —

### துலसीபூஜா - 3

வி஘்நேஶ்வரபூஜா - (ஹரி஦்ரா ஬ிம்஬ே) ஶுக்ளாம்பர + ஶ்ரீபரமேஶ்வர ப்ரித்யर்஥  
ஆடை வி஘்நேஶ்வரபூஜா கரிஷ்ண | (ஹஸ்தீ பிரக்ஷால்ய) அஸ்மிந் ஹரி஦்ரா ஬ிம்஬ே  
ஸுமுखம் ஶ்ரீவி஘்நேஶ்வர ஧்யாயாமி | ஆவாஹயாமி | ஆஸன் ஸமர்ப்யாமி |  
பாடயோ: யாத்ய ஸமர்ப்யாமி | ஹஸ்தயேர்஧்ய ஸமர்ப்யாமி | முखே ஆசமனீய  
ஸமபர்யாமி | ம஧ுபுர்க் ஸமர்ப்யாமி | ஸ்நப்யாமி | ஸ்நானந்தர்  
ஆசமனீய ஸமர்ப்யாமி | வஸ்திரீயா ஭ரணானி ஸமர்ப்யாமி |

புஷ்ண: பூஜயாமி | ஸுமுखாய நம: | ஏக்கடந்தாய நம: | கபிலாய  
நம: | ஗ஜகர்ணகாய நம: | லம்஬ோद்ராய நம: | விக்டாய நம: |  
வி஘்நராஜாய நம: | ஗ணா஧ிபாய நம: | ஧ூமகேதவே நம: | ஗ணா஧்யக்ஷாய

नमः । फालचन्द्राय नमः । गजाननाय नमः । वक्रतुण्डाय नमः ।  
 शूर्पकण्ठाय नमः । हेरम्बाय नमः । स्कन्दपूर्वजाय नमः । पुष्पाणि  
 समर्पयामि । धूपं समर्पयामि । दीपं समर्पयामि । नैवेद्यं समर्पयामि ।  
 कर्पूरनीराजनं समर्पयामि । प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि ।  
 वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ ।

अविद्वं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥ इति प्रार्थयेत्

तुलसी पूजा सङ्कल्पः - शुक्लाम्बरधरं + श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थं श्री  
 तुलसी देवी प्रीत्यर्थं दीर्घसौमङ्गल्यप्राप्त्यर्थं सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं श्री  
 तुलसीपूजां करिष्ये । अप उपस्पृश्य - सुमुखं विद्वेश्वरं यथास्थानं  
 प्रतिष्ठापयामि । शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ।

(विद्वेश्वरं प्रार्थ्य - उद्ब्राह्म्य - कलरां पूजयेत्)

गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वति ।

नमदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ॥

(इति प्रार्थ्यं कलशजलेन पूजाद्रव्याणि आत्मानं च प्रोक्ष्य)

तुलसी ध्यायेत्—

ध्यायामि तुलसीं देवीं श्यामां कमललोचनाम् ।

प्रसन्नां पद्मकल्हारवराभयचतुर्भुजाम् ॥

किरीटहारकेयूर कुण्डलाद्यविभूषिताम् ।

धवलांशुकसंबीतां पद्मासननिषेविताम् ।

देवीं त्रैलोक्यं जननीं सर्वलोकैकपावनीम् ॥

अस्मिन् क्षुपे श्री तुलसीं ध्यायामि ।

सर्वदेवमये देवि सर्वदे विष्णुबल्लभे ।

आगच्छ मम गेहेऽस्मिन् नित्यं सन्निहिता भव ।

अस्मिन् क्षुपे श्री तुलसीं आवाहयामि ।

रत्नसिंहासनं चारु भुवितमुवितफलप्रदे ।  
 मया दत्तं महादेवि संगृहाण सुराच्चिते ॥  
 श्री तुलस्यै नमः । आसनं समर्पयामि ।  
 नानागन्धसुपुष्टैश्च वासितं सुरवन्दिते ।  
 पादं गृहाण देवि त्वं सर्वकामफलप्रदे ॥  
 श्री तुलस्यै नमः । पादं समर्पयामि ।  
 गङ्गोदकं समानीतं सुवर्णकलशस्थितम् ।  
 तुलसि त्वं गृहाणेदं अर्ध्यं मैथर्यदायकम् ॥  
 श्री तुलस्यै नमः । अर्ध्यं समर्पयामि ।  
 सर्वमङ्गलदेवेशि नवरत्नैर्विभूषिते ।  
 मया दत्तमिदं तोयं गृहाणाच्चमनीयकम् ।  
 श्री तुलस्यै नमः । आचमनीयं समर्पयामि ।  
 पूर्णन्दुबिम्बसदृशं दधिरवणडधृतं मधु ।  
 मधुपर्कं मयाऽनीतं गृहाण परमेश्वरि ॥  
 श्री तुलस्यै नमः - मधुपर्कं समर्पयामि ।  
 गङ्गायमुनयोस्तोर्यं आनीतं निर्मलं शुभम् ।  
 गन्धोदकमिदं देवि स्त्रानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥  
 श्री तुलस्यै नमः । शुद्धोदकस्तानं समर्पयामि ।  
 क्षौमं काश्चनसङ्काशं इदं शुभ्रं मनोहरम् ।  
 वस्त्रयुग्मं शुभे देवि स्वीकुरुष्वाम्बुजेक्षणे ॥  
 श्री तुलस्यै नमः - वस्त्रयुग्मं समर्पयामि ।  
 राजतं ब्रह्मसूत्रं च काश्चनं चोत्तरीयकम् ।  
 गृहाण सर्ववरदे पद्मपत्रनिभेक्षणे ॥  
 श्री तुलस्यै नमः - उपवीतं समर्पयामि ।

किरीटहारकटकान् केयूरान्कुण्डलान् शुभान्।  
नूपुरोदरबन्धं च भूषणानि समर्पये।

श्री तुलस्यै नमः - आभरणानि समर्पयामि।  
चन्दनागरुकस्तूरीकपूरीण च संयुतम्।  
विलेपनं ददामि त्वं गृहाण तुलसीश्वरि॥

श्री तुलस्यै नमः - गन्धं समर्पयामि।  
अक्षतान्धवलान्दिव्यान् शालीयान्तण्डुलान् शुभान्।  
सुधौतानर्पये देवि बृन्दास्थानोद्भवेश्वरि॥

श्री तुलस्यै नमः - अक्षतान् समर्पयामि।  
मल्लिकाकुन्दमन्दारजातीवकुलचम्पकैः।  
शतपत्रैश्च कलहारैः पूजयामि महेश्वरि॥

श्री तुलस्यै नमः - पुष्पाणि समर्पयामि।  
अङ्गपूजा - तुलसीदेव्यै नमः - पादौ पूजयामि। बृन्दा वनस्थायै  
नमः - गुल्फौ पूजयामि। पद्मपत्र निभेक्षणायै नमः - जड्बे पूजयामि।  
पद्मकोटिसमप्रभायै नमः - ऊरू पूजयामि। हरिप्रियायै नमः -  
जानुनी पूजयामि। कुङ्कुमाङ्गितगात्रायै नमः - कटिं पूजयामि।  
सुरवन्दितायै नमः - नाभिं पूजयामि। लोकानुग्रहकारिण्यै नमः -  
उदरं पूजयामि। त्रैलोक्यजनन्यै नमः - हृदयं पूजयामि। पद्मप्रियायै  
नमः - हस्तान् पूजयामि। इन्दिरारव्यायै नमः - भुजान् पूजयामि।  
कम्बुकण्ठै नमः - कण्ठं पूजयामि। कल्मषद्वै नमः - कण्ठौ  
पूजयामि। वरप्रदायै नमः - मुखं पूजयामि। आश्रितरक्षिकायै नमः -  
शिरः पूजयामि। अभीष्टदायै नमः - सर्वाण्यज्ञानि पूजयामि।

यथाशक्ति 8-16-108-1008 नामभिः कुङ्कुमेन पुष्पैर्वा अर्चयेत्।

ગુગુલું ગોઘૃતં ચैવ દશાજ્ઞં સુમનોહરમ् ।

ધૂપં ગૃહાણ વરદે સર્વાભીષ્ટફલપ્રદે ॥

શ્રી તુલસ્યૈ નમઃ - ધૂપમાદ્રાપયામિ ।

સાજ્યં ત્રિવર્તિસંયુક્તં વહિના યોજિતં મયા ।

દીપં ગૃહાણ દેવેશિ તૈલોક્યતિમિરાપહમ् ॥

શ્રી તુલસ્યૈ નમઃ - દીપં દર્શયામિ ।

નૈવેદ્યં ષઠ્ઠરસોપેતં ફલસૂપસમન્વિતમ् ।

સઘૃતં સમધુક્ષીરં ગૃહાણ તુલસીશ્વરિ ॥

શ્રી તુલસ્યૈ નમઃ - મહાનૈવેદ્યં નિવેદયામિ ।

પૂર્ણિફલસમાયુક્તં નાગવછીદલૈરૂતમ् ।

કર્પૂરચૂર્ણસંયુક્તં તામ્બૂલં પ્રતિગૃહ્યતામ् ॥

શ્રી તુલસ્યૈ નમઃ - તામ્બૂલં સમર્પયામિ ।

નીરાજનં સુમજ્જલ્યં દિવ્યજ્યોતિઃ સમન્વિતમ् ।

અજ્ઞાનદ્વે ગૃહાણ ત્વં જ્ઞાનમાર્ગપ્રદાયિનિ ॥

શ્રી તુલસ્યૈ નમઃ - કર્પૂરનીરાજનં દર્શયામિ ।

પ્રકૃષ્ટપાપનાશાય પ્રકૃષ્ટફલસિદ્ધયે ।

પ્રદક્ષિણં કરોમિ ત્વાં સર્વાભીષ્ટફલપ્રદે ॥

આયુરારોગ્યમૈશર્ય વિદ્યાં જ્ઞાનં યશઃ સુखમ् ।

દેહિ દેહિ મમાભીષ્ટ પ્રદક્ષિણકૃતઃ શુભે ।

શ્રી તુલસ્યૈ નમઃ - પ્રદક્ષિણં સમર્પયામિ ।

નમસ્તે તુલસીદેવિ સર્વાભીષ્ટફલપ્રદે ।

નમસ્તે ત્રિજગદ્વન્દ્યે નમસ્તે લોકરક્ષિકે ॥

શ્રી તુલસ્યૈ નમઃ - નમસ્કારાન્ સમર્પયામિ ।

बृन्दावनस्थिते देवि दिव्यभोगप्रदे शुभे ।  
पुष्पाञ्जलिं प्रदास्यामि स्वीकुरुष्वाम्बुजेक्षणे ।

श्री तुलस्यै नमः - पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ।

क्षीराधर्यप्रदानम्—

तुलस्यै तु नमस्तुभ्यां नमस्ते फलदायिनि ।  
इदमधर्यं प्रदास्यामि सुप्रीता भव सर्वदा ॥

श्री तुलस्यै नमः - इदमधर्यं इदमधर्यं इदमधर्यम् ।

लक्ष्मीपतिप्रिये देवि तुलसीदिव्यरूपिणि ।  
इदमधर्यं प्रदास्यामि सुप्रीता वरदा भव ॥

श्री तुलस्यै नमः - इदमधर्यं इदमधर्यं इदमधर्यम् ।

सर्वपापहरे देवि आश्रिताभीष्टदायिनि ।  
मया दत्तं गृहाणाधर्यं सुप्रीता वरदा भव ॥

श्री तुलस्यै नमः । इदमधर्यमिदमधर्यमिदमधर्यम् ।

देहि मे विजयं देवि विद्यां देहि महेश्वरि ।  
त्वमिति प्रार्थये नित्यं शीघ्रमेव फलं कुरु ॥

इति संप्राधर्यं तुलसीस्तुतिं पठित्वा मङ्गलारातिकं विधाय ।

श्री तुलसीदेव्यपूर्णमस्तु । ओं तत्सद्व्याप्तिमस्तु इति साक्षतं जलं  
भूमौ विसृज्य आचामेत् ।

— ★ —

### श्री त्रिलोकेश्वर पूजा - 3

#### श्री विकेनेश्वर पूजा

मञ्चसूलं प्रिम्पत्तिलं लवण्कलं पमं

कक्कलाम.... शान्त्येये । ममोपात्त - श्रीपरमेश्वर  
पर्वित्यर्त्तमं आतेळा विकेनेश्वर पूजामं कारिष्येये. (कैक्यलमंपि)

அஸ்மின் ஹரித்ரா பிம்பே ஸாமுகம். ஸ்ரீ விக்னேச்வரம் த்யாயாமி! ஸ்ரீ விக்னேச்வரம் ஆவாஹாயாமி! ஆஸனம் ஸமர்ப்பயாமி! பாத்யம் ஸமர்ப்பயாமி!

அர்க்யம் ஸமர்ப்பயாமி! ஆசமனீயம் ஸமர்ப்பயாமி! ஸ்னானானந்தரம் ஆசமனீயம் ஸமர்ப்பயாமி! வஸ்தர உத்தரீய, ஆபரணானி ஸமர்ப்பயாமி! (ஜலம் விடவும்) புஷ்டை: பூஜையாமி ஸாமுகாய நம: | ஏகதந்தாய நம: | கபிலாய நம: | கஜகர்ணகாய நம: | லம்போதராய நம: | விகடாய நம: | விக்நராஜாய நம: | கணாதிபாய நம: | தூமகேதவே நம: | கணாத்த்யக்ஷாய நம: | பாலசந்தராய நம: | கஜாநநாய நம: | வக்ரதுண்டாய நம: | சூர்பகர்ணைய நம: | ஹேரம்பாய நம: | ஸகந்த பூர்வஜாய நம: | தூபம் ஸமர்ப்பயாமி! தீபம் ஸமர்ப்பயாமி! நைவேத்யம் ஸமர்ப்பயாமி! கற்பூர நீராஜனம் ஸமர்ப்பயாமி! நமஸ்காரான் ஸமர்ப்பயாமி!

ப்ரார்த்தனை

வக்ரதுண்ட மஹாகாய கோடிஸுரிய ஸமப்ரப!  
அவிக்னம் குரு மே தேவ ஸர்வ கார்யேஷா ஸர்வதா!॥

—★—

### துளைபூஜா ஸங்கல்பம்—

கக்லாம்பரதம..... ஸ்ரீ பரமேச்வர-ப்ரீத்யர்த்தம், மம தீர்க்க ஸெளாமங்கல்ய ப்ராப்தயர்த்தம், ஸர்வாபீஷ்ட வித்யர்த்தம், ஸ்ரீ துளை பூஜாம் கரிஷ்டயே (என்று ஸங்கல்பம் செய்த பிறகு) “ஸாமுகம் விக்னேச்வரம் யதாஸ்தானம் ப்ரதிஷ்டட்டாபயாமி! சோபனார்த்தே கோஷமாய புனராகமனாய ச” || (என்று சொல்வி மஞ்சள் பிள்ளையாரை வடக்குத் திசையில் நகர்த்தி அங்குள்ள அக்ஷதை அல்லது, புஷ்பத்தைத் தலையில் தரித்துக் கொள்ளவும். பிறகு)

கலச பூஜை செய்யவும்:-

கங்கே ச யழுனேசைவ கோதாவரி ஸரஸ்வதி!

நர்மதே விந்து காவேரி ஜூலை அஸ்மின் ஸந்திதிம் குரு!॥

என்று சொல்விக் கலச ஜிலத்தில் புஷ்பம் போடவும். கலச ஜிலத்தால் பூஜா த்ரவ்யங்களையும் தன்னையும் ப்ரோக்ஷிக்கவும்.

ஸ்ரீதுளஸீபூஜா

த்யானம்

த்யாயாமி துளஸீம் தேவீம் ச்யாமாம் கமல லோசனாம் ।

ப்ரஸன்னாம் பத்ம கல்லூர வராபய சதுரப்புஜாம் ॥

கிரீடலூர கேழூர குண்டலாத்தைர் விழுவிதாம் ।

தவளாம்சகஸும்வீதாம் பத்மாஸன நிஷேஷவிதாம் ॥

தேவீம் த்ரைலோக்ய ஜூனீம் ஸர்வலோகக பாவனீம் ।

அஸ்மின் கஷ்டபே ஸ்ரீதுளஸீம் த்யாயாமி ॥

(த்யானம் பண்ணவும்)

ஸர்வ தேவமயே தேவி ஸர்வதே விஷ்ணு வல்லபே ।

ஆகச்ச மம கேஹே அஸ்மின் நித்யம் ஸந்நிலிதாபவ ॥

அஸ்மின் கஷ்டபே ஸ்ரீதுளஸீம் ஆவாஹ்யாமி ।

(ஆவாஹ்யாம் பண்ணவும்)

ரத்ன லிம்ஹாஸனம் சாரு புக்தி முக்தி பலப்ரதே ।

மயா தத்தம் மஹாதேவி । ஸங்கரஹாண ஸாரார்சிதே ॥

ஸ்ரீதுளஸ்யை நம: ஆஸனம் ஸமரப்பயாமி ।

நானாகந்த ஸாபுஷ்டபச்ச வாலிதம் ஸாரவந்திதே ।

பாத்யம் க்ருஹாண தேவி த்வம் ஸர்வகாம பலப்ரதே ॥

ஸ்ரீதுளஸ்யை நம: பாத்யம் ஸமரப்பயாமி ।

கங்கோதகம் ஸமானீதம் ஸாவர்ண கலசஸ்த்திதம் ।

துளஸி த்வம் க்ருஹாணே தம் அர்க்யமைச்வர்ய தாயகம் ॥

ஸ்ரீதுளஸ்யை நம: அர்க்யம் ஸமரப்பயாமி ।

ஸர்வ மங்கள தேவேசி நவரத்னீர் விழுவிதே ।

மயா தத்த மிதம் தோயம் க்ருஹாண ஆசமனீயகம் ॥

ஸ்ரீதுளஸ்யை நம: ஆசமனீயம் ஸமரப்பயாமி ।

பூர்ஜேந்து பிம்ப ஸத்ருசம் ததி கண்டக்ருதம் மது ।

மதுபர்கம் மயா நீதம் க்ருஹாண பரமேச்வரி ॥

ஸ்ரீதுளஸ்யை நம: - மதுபர்கம் ஸமரப்பயாமி ।

கங்கா யமுனயோஸ் தோயம் ஆநீதம் நிர்மலம் சுபம் ।

கந்தோதகமிதம் தேவி ஸ்னானார்த்தம் ப்ரதிக்ருஹ்யதாம் ॥

ஸ்ரீதுளஸ்யை நம: சுத்தோதகஸ்னானம் ஸமரப்பயாமி ।

கைங்களம் காஞ்சன ஸங்காசம் இதம் சுப்ரம் மனோஹரம் :  
வஸ்தரயுக்மம் கூபே தேவி ! ஸ்வீகருஷ்வ அம்புஜேஷனே ..  
ஸ்ரீதுளைஸ்யை நம: - வஸ்தர யுக்மம் ஸமர்ப்பயாமி ,  
ராஜதம் ப்ரஹ்ம ஸுதரம் ச காஞ்சனாஞ்சோத்தரீயகம் :  
க்ருஹாண ஸர்வவரதே பத்ம பத்ர நிபேகஷனே ..  
ஸ்ரீதுளைஸ்யை நம: உபவீதம் ஸமர்ப்பயாமி ,  
கிரீதஹார கடகான் கேழுரான் குண்டலான் ஸபான் ,  
நூபரோதர பந்தஞ்ச பூஷணே ஸமர்ப்பயே ..  
ஸ்ரீதுளைஸ்யை நம: ஆபரணானி ஸமர்ப்பயாமி ,  
சந்தனாகரு கஸ்தரீ கந்பூரேண ச ஸம்யுதம் :  
விலேபனம் ததாமி தவம் க்ருஹாண துளைஸ்வரி :  
ஸ்ரீதுளைஸ்யை நம: கந்தம் ஸமர்ப்பயாமி ,  
அகஷதான் தவளான் திவ்யான் சாலீயான் தண்டுலான் ஸபான் ,  
ஸாதென தாநர்பயே . தேவி ப்ருந்தாஸ்ததாநோத்பபவேசவரி :  
ஸ்ரீதுளைஸ்யை நம: அகஷதாந் ஸமர்ப்பயாமி ,  
மல்லிகா குந்தமந்தார ஜாதி வகுள சம்பகை: ,  
சதபத்ரைச் ச கலஹாரை: பூஜயாமி மஹேஶவரி ..  
ஸ்ரீதுளைஸ்யை நம: புஷ்பாணி ஸமர்ப்பயாமி ..

### அங்கபூஜா

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| துளை தேவஸ்யை நம:           | - பாதென பூஜயாமி    |
| ப்ருந்தாவன ஸ்ததாயை நம:     | - குலப்பென பூஜயாமி |
| பத்மபத்ர நிபேகஷனையை நம:    | - ஜங்கே பூஜயாமி    |
| பத்மகோடி ஸமப்ரபாயை நம:     | - ஊரு பூஜயாமி      |
| ஹரிப்ரியாயை நம:            | - ஜானுன் பூஜயாமி   |
| குங்குமாங்கித காத்ராயை நம: | - கடிம் பூஜயாமி    |
| ஸாரவந்திதாயை நம:           | - நாபிம் பூஜயாமி   |
| லோகானுக்ரஹ காரின்யை நம:    | - உதரம் பூஜயாமி    |
| த்ரைலோக்ய ஜனன்யை நம:       | - ஹருதயம் பூஜயாமி  |
| பத்மப்ரியாயை நம:           | - ஹஸ்தான் பூஜயாமி  |
| இந்திராக்யாயை நம:          | - பஜான் பூஜயாமி    |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| கம்புகண்டயை நம:     | -கண்ட்டம் பூஜ்யாமி        |
| கல்மஷிக்னயை நம:     | -கர்ஜினா பூஜ்யாமி         |
| வரப்ரதாயை நம:       | -முகம் பூஜ்யாமி           |
| ஆச்சிதரக்ஷிகாயை நம: | -சிர: பூஜ்யாமி            |
| அபீஷ்டதாயை நம:      | -ஸர்வானி அங்கானி பூஜ்யாமி |

துளை் தேவியின் 8-16-108-1008 நாமங்களால் அர்ச்சனை செய்யலாம்.

குக்குலும் கோக்குரதஞ்சைவ தசாங்கம் ஸாமனோஹரம்।

தூபம் க்குறுஹாண வரதே ஸர்வாபீஷ்ட பலப்ரதே॥

ஸ்ரீதுளாஸ்யை நம: தூபம் ஆக்ராபயாமி।

ஸாஜ்யம் தரிவர்த்தி ஸம்யுக்தம் வற்றனினா யோஜிதம் மயா।

தீபம் க்குறுஹாண தேவேசி த்ரைரோக்ய திமிராபஹம்॥

ஸ்ரீதுளாஸ்யை நம: தீபம் தர்சயாமி।

நைவேத்யம் ஷ்ட்ரஸோபேதம் பலஸ்திப ஸமன்விதம்।

ஸக்குருதம் ஸ மது ஷ்கிரம் க்குறுஹாண துளை்ச்வரி॥

ஸ்ரீதுளாஸ்யை நம: நைவேத்யம் ஸமர்ப்புயாமி।

(நைவேத்யத்தின் மீது புஷ்பம் போட்டு, அவைகளைத் தீர்த்தத்தால் சுற்றி புஷ்பத்தைத் தேவி மீது ஸமர்ப்பித்து நிவேதன மந்த்ரங்களைச் சொல்லிநிவேதனம் செய்யவும்).

பூக்கில ஸமாயுக்தம் நாகவல்லீதைர்யுதம்।

கற்பூர குர்ண ஸம்யுக்தம் தாம்பூலம் - ப்ரதிக்குறுஹ்யதாம்॥

ஸ்ரீதுளாஸ்யை தாம்பூலம் ஸமர்ப்பயாமி॥

நீராஜனம் ஸாமங்கல்யம் - திவ்ய - ஜோதிஸ்ஸமன்விதம்-

அஜ்ஞானக்னே க்குறுஹாண தவம் ஜ்ஞானமார்க்கப்ரதாயினி।

ஸ்ரீதுளாஸ்யை நம: - கற்பூர நீராஜனம் தர்சயாமி।

ப்ரக்குஷ்ட பாபுநாசாய ப்ரக்குஷ்டபல லித்தயே।

ப்ரதக்ஷிணம் கரோமி த்வாம் ஸர்வாபீஷ்டபலப்ரதே॥

ஆயுராரோக்யமைச்வர்யம் வித்யாம் ஜ்ஞானம் யசஸ்ஸாகம்।

தேஹி தேஹி மமாபீஷ்டம் ப்ரதக்ஷிணக்குத: கபே।

ஸ்ரீதுளாஸ்யை நம: ப்ரதக்ஷிணம் ஸமர்ப்பயாமி।

நமஸ்தே துளை்தேவி ஸர்வாபீஷ்ட பலப்ரதே।

நமஸ்தே தரிஜூகத்வந்தயே நமஸ்தே லோகரக்ஷிகே॥

ஸ்ரீதுள்ளையை நம: நமஸ்காரான் - ஸமர்ப்பயாமி :  
 ப்ருந்தாவனஸத்திதே தேவிதிவயபோகப்ரதே கூபே :  
 புஷ்பாஞ்ஜலிம் ப்ரதாஸ்யாமி ஸ்வீகருஷ்வ அம்புஜேகஷணே ||  
 ஸ்ரீதுள்ளையை நம: புஷ்பாஞ்ஜலிமஸமர்ப்பயாமி :  
 சூதிர அர்க்கய ப்ரதானம்  
 துள்ளையை து நமஸ்துப்யம் நமஸ்தே பலதாயினி :  
 இதமர்க்கயம் ப்ரதாஸ்யாமி - ஸாப்ரீதா வரதா பவ ||  
 ஸ்ரீதுள்ளையை நம: இதமர்க்கயம் - இதமர்க்கயம் இதமர்க்கயம் :  
 லக்ஷ்மீபதி பரியே தேவி துளைதிவயருபினி :  
 இதமர்க்கயம் ப்ரதாஸ்யாமி ஸாப்ரீதா வரதா பவ ||  
 ஸ்ரீதுள்ளையை நம: இதமர்க்கயம் - இதமர்க்கயம் இதமர்க்கயம் :  
 ஸல்வ பாப ஹரே தேவி ஆச்சிரிதாபீஷ்டதாயினி :  
 மயாதத்தம் க்ருஹானூர்க்க்கயம் - ஸாப்ரீதா வரதா பவ ||  
 ஸ்ரீதுள்ளையை நம: - இதமர்க்கயம் - இதமர்க்கயம் இதமர்க்கயம்  
 தேஹி மே விஜயம்தேவி வித்யாம் தேஹி மஹேஷ்வரி :  
 த்வமிதி ப்ரார்த்தயே நித்யம் சீக்ரமேவ பலம் குரு ||  
 எனப் பிரார்த்தித்து துளை ஸ்துதி முதலியவற்றைச் சொல்லி  
 மங்களாஹாரத்தி எடுத்து தத் ஸத் ப்ரும்ஹார்பணமஸ்து எனச்  
 சொல்லிபூஜா ஸமர்பணம் செய்து ஆசமனம் செய்யவும்.

— ★ —

### வृந்஦ாவனபூஜா (துலसி விஷ்ணு பூஜா)

காதிகீ ஶுக்லாடஶயாஂ வृந்஦ாவனே மஹாவிஷ்ணு துலஸீ ச பூஜயேத् ।  
 துலஸீஸமீபே மஹாவிஷ்ணுப்ரதிமாஂ நி஧ாய, வி஘்நை ஸ்பூஜ்ய, ஶுக்லாம்஬ர஧ர  
 + ஶாந்தயே + ஶ்ரீபரமேஶ்வரப்ரீத்யர்஥ ஶுभே + திஶௌ துலஸீ மஹாவிஷ்ணு  
 பிரஸாத்ஸி஦்஧சர்஥ துலஸீ மஹாவிஷ்ணுபூஜாா கரிஷ்யே । இதி ஸ்கல்ப்ய  
 வி஘்நைமுடிகாஸ்ய கலஶபூஜாா குத்வா, துலஸீ விஷ்ணு ச ஧்யாயேத् ।

஧்யாயாமி துலஸீ ஦ேவீ ஶ்யாமாஂ கமலலோचனாம् ।  
 பிரஸந்வடநாம்஭ோஜாா வரदாம்஭யப்ராம् ॥ துலஸீ ஧்யாயாமி

ध्यायामि विष्णुं वरदं तुलसीप्रियवल्लभम् ।  
पीताम्बरं पद्मनेत्रं वासुदेवं वरप्रदम् ॥ महाविष्णुं ध्यायामि ॥

वासुदेव प्रिये देवि सर्वदेव स्वरूपिणि ।  
आगच्छ पूजाभवने सदा सन्निहिता भव ॥  
आगच्छागच्छ देवेश तेजोराशे जगत्पते ।  
क्रियमाणं मया पूजां वासुदेव गृहाण भोः ॥

-तुलसीविष्णू- आवाहयामि

नानारक्षसमायुक्तं कार्त्स्वरविभूषितम् ।  
आसनं कृपया विष्णो तुलसि प्रतिगृह्यताम् ।  
तुलसी विष्णुभ्यां नमः - आसनं समर्पयामि ।

गङ्गादिसर्वतीर्थेभ्यो वासुदेव मया हृतम् ।  
तोयमेतत्सुखस्पर्शं पाद्यार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥  
नानानदीसमानीतं सुवर्णकलशस्थितम् ।  
पादं गृहाण तुलसि पारं मे विनिवारय ॥(पादं)  
नमस्ते देवदेवेश नमस्ते कमलापते ।  
नमस्ते सर्वविनुत गृहाणार्थं नमोऽस्तु ते ॥  
अर्थं गृहाण देवि त्वं अच्युतप्रियवल्लभे ।  
अक्षतादिसमायुक्तं अक्षय्यफलदायिनि ॥ (अर्थं)  
कर्पूरवासितं तोयं गङ्गादिभ्यः समाहृतम् ।  
आचम्यतां जगन्नाथ मया दत्तं च भक्तिः ॥  
गृहाणाच्चमनार्थाय विष्णुवक्षः स्थलालये ।  
स्वच्छं तोयमिदं देवि सर्वपापविनाशिनि ॥ (आचमनीयम्)

दध्याज्यमधुसंयुक्तं मधुपर्कं मयाऽहतम्।  
गृहाण विष्णो वरद लक्ष्मीकान्तं नमोऽस्तु ते॥

मधुपर्कं गृहाणेमं मधुसूदनवल्लभे ।  
मधुदध्याज्य संयुक्तं महापापविनाशिनि ॥ (मधुपर्कं)

मध्वाज्यशक्तरायुक्तं दधिक्षीरसमन्वितम्।  
पञ्चामृतं गृहाणेदं भक्तानामिष्टदायक ॥

पञ्चामृतं गृहाणेदं पञ्चपातकनाशिनि ।  
दधिक्षीरसमायुक्तं दामोदरकुदुम्बिनि ॥ (पञ्चामृतम्)

गङ्गा कृष्णा च यमुना नर्मदा च सरस्वती ।  
तुङ्गा गोदावरी वेणी क्षिप्रा सिन्धुर्घटप्रभा ॥

तापी पयोष्णी सरयूस्ताभ्यः स्नानार्थमाहतम्।  
तोयमेतत्सुखस्पर्शं स्नानीयं गृह्णतां हरे ॥

गङ्गागोदावरीकृष्णातुङ्गादिभ्यः समाहतम्।  
सलिलं देवि तुलसि स्नानार्थं प्रतिगृह्णताम्॥ (स्नानं)

सर्वभूषाधिके सोम्ये लोकलज्जानिवारणे ।  
वाससी प्रतिगृह्णातु लक्ष्मीजानिरधोक्षजः ॥

पीताम्बरमिदं दिव्यं पातकब्रजनाशिनि ।  
पीताम्बरप्रिये देवि परिधत्स्व परात्परे ॥ (वस्त्रम्)

भूषणानि वराहाणि गृह्णीतं तुलसीश्वर ।  
किरीटहारकेयूरकटकानि हरेऽमृते ॥ (आभरणानि)

चन्दनागरुकपूरकस्तूरीकुङ्कुमान्वितम्।  
गन्धं स्वीकुरुतं देवौ रमेशाहरिवल्लभे ॥ (गन्धान्)

मल्लिकाकुन्दमन्दारजाजीवकुलं चम्पकैः ।  
शतपत्रैश्च कलहौरैः अचर्ये तुलसीहरी ॥ (पुष्पाणि)

अङ्गपूजा—

|                  |                    |                            |
|------------------|--------------------|----------------------------|
| बृन्दायै         | अच्युताय नमः       | - पादौ पूजयामि ।           |
| तुलस्यै          | अनन्ताय नमः        | - गुलफौ पूजयामि ।          |
| जनार्दनप्रियायै  | तुलसीकान्ताय नमः   | - जङ्घे पूजयामि ।          |
| जन्मनाशिन्यै     | गङ्गाधरपदाय नमः    | - जानुनी पूजयामि           |
| उत्तमायै         | उत्तमाय नमः        | - ऊरू पूजयामि ।            |
| कमलाक्ष्यै       | कमलाक्षाय नमः      | - कटिं पूजयामि ।           |
| नारायण्यै        | नारायणाय नमः       | - नाभिं पूजयामि ।          |
| उन्नतायै         | उन्नताय नमः        | - उदरं पूजयामि ।           |
| वरदायै           | वरदाय नमः          | - वक्षः पूजयामि ।          |
| स्तव्यायै        | स्तव्याय नमः       | - स्तनौ कौस्तुभं पूजयामि । |
| चतुर्भुजायै      | चतुर्भुजाय नमः     | - भुजान् पूजयामि ।         |
| कम्बुकण्ठयै      | कम्बालिने नमः      | - कण्ठं पूजयामि ।          |
| कल्मषद्वायै      | कल्मषद्वाय नमः     | - कण्ठौं पूजयामि ।         |
| मुनिप्रियायै     | मुनिप्रियाय नमः    | - नेत्रे पूजयामि           |
| शुभप्रदायै       | शुभप्रदाय नमः      | - दिरः पूजयामि ।           |
| सर्वार्थदायिन्यै | सर्वार्थदायिने नमः | - सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि   |

(तुलसी विष्णु नामावल्या पुष्पार्चना)

धूपं गृहाण वरदे दशाङ्गेन सुवासितम् ।  
तुलस्यमृतसंभूते धूतपापे नमोऽस्तु ते ॥  
दशाङ्गो गुणगुलूपेतः सुगन्धः सुमनोहरः ।  
श्रीवत्साङ्ग हृषीकेश धूपोऽयं प्रतिगृहस्ताम् ॥ (धूपं)

बर्तिन्य सुतं दीपं गोवृतेन समन्वितम् ।  
दीपं देविं गृहाणेम् दैत्यागिहृदयस्थिते ॥

साज्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं दीसं देव जनादनं ।  
गृहाण मञ्जलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरं हर ॥ (दीपम्)

नानाभक्ष्यैश्च भोज्यैश्च फलैः क्षीरघृतादिभिः ।  
नैवेद्यं गृह्यतां युक्तं नारायणमनः प्रिये ॥

भोज्यं चतुर्विधं चोष्यभक्ष्यसूपफलैर्युतम् ।  
दधिमध्वाज्यसंयुक्तं गृह्यताम्बूजेक्षण ॥ (महानैवेद्यं)

कर्पूरचूर्णताम्बूलवल्लीपूगफलैर्युतम् ।  
जगतः पितरावेतत्ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम् ॥ (ताम्बूलं)

नीराजनं गृहाणेदं कर्पूरैः कलितं मया ।  
तुलस्यमृतसंभूते गृहाण हरिवल्लभे ॥

चन्द्रादित्यौ च नक्षत्रं विद्युदग्रिस्त्वमेव च ।  
त्वमेव सर्वज्योर्तीषि कुर्यां नीराजनं हरे ॥ (नीराजनं)

प्रकृष्टपापनाशाय प्रकृष्टफलसिद्धये ।  
युवां प्रदक्षिणी कुर्वेतुलसीशौ प्रसीदतम् ॥ (प्रदक्षिणं)

नमोऽस्तु पीयूषं समुद्भवायै नमोऽस्तु पद्माक्षमनः प्रियायै ।  
नमोऽस्तु जन्माप्यय भीतिहन्त्यै नमस्तुलस्यै जगतां जनन्त्यै ॥

शङ्खचक्रगदापाणे द्वारकानिलयाच्युत ।  
गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रक्ष मां शरणागत(ता)म् ॥ (नमस्कारान्)

पुष्पाञ्जलिं गृहाणेदं पङ्कजाक्षस्य वलभे ।  
नमस्ते देवि तुलसि नतामीषफलप्रदे ।

मन्दारनीलोत्पलकुन्दजाती पुन्नागमल्लीकरवीरपद्मैः ।  
पुष्पाञ्जलिं ते जगदेकबन्धो हरे त्वदद्वौ विनिवेशायामि ॥  
(मन्त्रपुष्पाञ्जलिं)

आयुरारेग्यमतुलमैश्वर्यं पुत्रसंपदः ।  
देहि मे सकलान्कामान् तुलस्यमृतसंभवे ॥  
नमो नमः सुखवरपूजिताद्वये नमो नमो निरुपममङ्गलात्मने ।  
नमो नमो विपुलपैकसिद्धये नमो नमः परमदयानिधे हरे ॥

(प्रार्थनां)

नमस्ते देवि तुलसि नमस्ते मोक्षदायिनि ।  
इदमध्यं प्रदास्यामि सुप्रीता वरदा भव ॥  
लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं तुलसीदामभूषण ।  
इदमध्यं प्रदास्यामि गृहाण गरुडध्वज ॥  
श्री तुलस्यै महाविष्णवे च नमः - इद मध्यमिद मध्यमिदमध्यम् ॥  
इति त्रिः ॥

नमस्ते देवि तुलसि माघवेन समन्विता ।  
प्रयच्छ सकलान्कामान् द्वादश्यां पूजिता मया ॥  
कायेन वाचा + नारायणायेति समर्पयामि ।

ओं तत्सत्

### प्रगुन्ठावना पूज्जू

कार्त्तिकை मாதத்து சுக்ல த்வாதசியில்  
மஹாவிஷ்ணுவையும் துளஸியையும் சேர்த்து வழிபடுவர்.  
துளஸியின் அருகே மஹாவிஷ்ணுவின் பிம்பம் அல்லது  
படத்தை வைத்து வழிபடவும். விக்நேச்வரரை வழிபட்டு  
அனுமதி பெற்று ஸங்கல்பம் செய்து கொள்ளவும்.

மமோபாத்த + ஸ்ரீ பரமேச்வர பரீத்யர்த்தம் துளஸீ மஹாவிஷ்ணு  
பரீத்யர்த்தம் துளஸீ மஹாவிஷ்ணு பூஜாம் கரிஷ்ணயே । கையலம்பி  
கலச பூஜை. துளஸியையும், விஷ்ணுவையும் சேர்த்து  
வழிபடவும்.

தயாயாமி துளைம் தேவீம் ச்யாமாம் கமலலோசநாம் ।  
ப்ரஸந்நவதநாம்போஜாம் வரதாமபயப்ரதாம் ॥  
துளைம் தயாயாமி ।

தயாயாமி விஷ்ணும் வரதம் துளைப்ரியவல்லபம்:  
பீதாம்பரம் பத்மநேதரம் வாஸாதேவம் வரப்ரதம் ॥  
ஸ்ரீ மஹா விஷ்ணும் தயாயாமி

வாஸாதேவப்ரியே தேவி ஸர்வதேவஸ்வருபினி ।  
ஆகச்ச பூஜா பவநே ஸதா ஸந்நிலிதா பவ ॥  
ஆகச்சாகச்சதேவேச தேஜோராசே ஜகத்பதே ।  
கரியமாணாம் மயா பூஜாம் வாஸாதேவக்ருஹாணபோ: ॥  
துளை விஷ்ணா - ஆவாஹயாமி ।

நாநாரதனஸமாயுக்தம் கார்தல்வர விஷ்டுவிதம் ।  
ஆஸநம் க்ருபயா விஷ்ணே துளை ப்ரதிக்ருஹயதாம் ॥  
துளை விஷ்ணுப்ப்யாம் நம: - ஆஸனம் ஸமரப்பயாமி ।  
கங்காதி ஸர்வதீர்த்தேப்பய: வாஸாதேவமயா ஹ்ருதம் ।  
தோயமேதத் ஸாகஸ்பர்சம் பாத்யார்த்தம் ப்ரதிக்ருஹயதாம் ।  
நாநாநத் ஸமாநீதம் ஸாவரணகலசஸ்ததிதம் ।  
பாத்யம் க்ருஹாண துளை பாபம் மே விநிவாரய ॥ (பாத்யம்)

நமஸ்தே தேவதேவே ச நமஸ்தே கமலாபதே ।  
நமஸ்தே ஸர்வவிநுத க்ருஹாணார்க்யம் நமோஸ்து தே ॥  
அர்க்கயம் க்ருஹாண தேவிதவம் அச்யுதப்ரியவல்லபே ।  
அகஷதாநி ஸமாயுக்தம் அகஷய பலதாயினி ॥ (அர்க்கயம்)  
கர்பூரவாலிதம் தோயம் கங்காதி ப்பய: ஸமாஹ்ருதம் :  
ஆசம்யதாம் ஜகன்னத மயா தத்தம் ச பக்தித: ।  
க்ருஹாணுசமநார்த்தாய விஷ்ணு வகஷ:ஸ்தலாலபே ।  
ஸ்வச்சம் தோய மிதம் தேவி ஸர்வபாபவிநாசினி ॥  
(ஆசமநீயம்)

தத்தயாஜ்ய மது ஸம்யுக்தம் மதுபர்கம் மயா ஹ்ருதம் ।  
க்ருஹாண விஷ்ணே வரத ஸக்ஷிமாந்த நமோடஸ்து தே ॥  
மதுபர்கம் க்ருஹாணேமம் மது ஸலதனவல்லபே ।  
மது தத்தயாஜ்ய ஸம்யுக்தம் மஹாபாப விநாசிநி ॥ (மதுபர்கம்)

मत्तृवाङ्ग्य चरकरायुक्तम् तत्तिक्षीर लमण्वितम् ।  
पञ्चामंगुतम् कुरुहूरेणेतम् पक्तानामिष्टतायक ।  
पञ्चामंगुतम् कुरुहूरेणेतम् पञ्चपातकनाशिणी ।  
तत्तिक्षीरलमायुक्तम् तामोतर कुटुम्पिणी ॥ (पञ्चामंगुतम्).

कंपका कुरुष्णु स यमुना नरमता स लरस्वति ।  
तुंका कोतावरी वेणी कृष्णप्राणीन्ततुर कटप्रपा ।  
तापी पयोष्णी लरम्बुताप्पयः लन्धनार्त्तमाम्बुतम् ।  
तेऽयमेतत् लाकस्पर्शम् लन्धनीयम् कुरुम्भयताम् इति ।  
कंपका कोतावरी कुरुष्णु तुंकातीप्पयः लमाम्बुतम् ।  
लविलम् तेवी तुलाली लन्धनार्त्तम् प्रथीकुरुम्भयताम् (लन्धनाम्)

लरव्युषातीके लेणम्येलोकलज्जानिवारेण ।  
वालस्लै प्रथीकुरुम्भन्तु लक्ष्मी ज्ञानीर तेकुरुम्भः ॥

प्रेताम्परमितम् तिव्यम् पातकवरज्जनाशिणी ।  
प्रेताम्परपरीये तेवी परितत्स्व परात्परो ॥ (वस्त्रम्)

पृष्ठानानि वरार्हाणी कुरुम्भन्तेम् तुलालै क्वर ।  
कीर्तिमारकेयुरक्तकानि इति रोमग्रुते (आपरनानि)

कन्तनाकुरु कर्पूर कल्तुरी गुंकुमाण्वितम् ।  
कन्ततम् लविकुरुतम् तेवेण रमेश लूरीवल्लपेऽ ॥ (कन्ताण्ण)

मल्लिकाकुन्तमन्तार ज्ञातीवकुल सम्पदः ।  
कतपत्तरेष्क कल्मारः अर्चक्षयेतुलालैर्हारी ॥ (पुष्पपाणी)

#### अन्कुरज्जा

प्रनन्तायय - अक्षयताय नमः - पातेण पृज्जयामि ।  
तुलस्यय - अनन्ताय नमः - कुल्पेण पृज्जयामि ।  
ज्ञानार्त्तना परियायय - तुलालै कान्ताय नमः - ज्ञानक्केपृज्जयामि ।  
ज्ञानमन्तायय - कंपकातर पताय नमः - ज्ञानुलै पृज्जयामि ।  
उत्तमायय - उत्तमाय नमः - ऊरु पृज्जयामि ।  
कमलाकुरुयय - कमलाकुरुय नमः - कष्टम् पृज्जयामि ।  
नारायण्यय - नारायण्यय नमः - नायिम् पृज्जयामि ।  
उन्नतायय - उन्नताय नमः - उतरम् पृज्जयामि ।  
वरतायय - वरताय नमः - वक्षः पृज्जयामि ।

ஸ்தவயாயை - ஸ்தவயாய நம: - ஸ்தநெள கெளஸ்துபம் பூஜயாமி।  
 சதுரப்பூஜாயை - சதுரப்பூஜாய நம: - பஜான் பூஜயாமி।  
 கம்பகண்ட்யை வநமாவிநே நம: - கண்ட்டம் பூஜயாமி।  
 கல்மங்க்கள்யை கல்மங்க்களாய நம: கர்ணெள பூஜயாமி।  
 முநி பரியாயை - முநி பரியாய நம: - நேத்ரே பூஜயாமி।  
 சுபர்தாயை - சுபர்தாய நம: சிர: பூஜயாமி।  
 ஸர்வார்த்த தாயின்யை ஸர்வார்த்ததாயகாய நம:  
 — ஸர்வாண்யங்காநி பூஜயாமி

தூளை - விளக்கு நாமாவளிகளால் அரச்சனை  
 தூபம் க்ருஹாண வரதே தசாங்கேந ஸ்வாஸிதம்।  
 தூள்யம்ருதலஸம்ப்புதே தூதபாபே நமோஸ்துதே।  
 தசாங்கோ குக்குலுபேத: ஸாகந்த: ஸாமநோஹர: ॥  
 ஸ்ரீவத்ஸாங்க ஹ்ருஷ்ணேச தூபோயம் ப்ரதிக்ருஹ்யதாம் ॥ (தூபம்)  
 வர்த்தித்ரய யுதம் தீப்தம் கோக்கருதேந ஸமந்விதம்;  
 தீபம் தேவி க்ருஹாணேமம் தத்யாரிலுருதயஸ்த்திதே ॥  
 ஸாஜ்யம் நிரிவர்தி ஸம்யுக்தம் தீப்தம் தேவஜ்நார்தந।  
 க்ருஹாண மங்களம் தீபம் தரைலோக்யதிமிரம ஹர ॥ (தீபம்)  
 நாநாபக்ஷயச்ச போஜ்யயைச்ச பலை: கஷ்ரக்க்ருதாதிபி:।  
 கநவேத்யம் க்ருஹ்யதாம் யுக்தம் நாராயண மந:ப்ரியே ॥  
 போஜ்யம் சஜ்விதம் பக்ஷய சோஷ்ய ஸுபபலைர்யுதம்।  
 தூதிமத்தவாஜ்ய ஸம்யுக்தம் க்ருஹ்யதாமம்புஜேகங்ன ॥  
 (மஹா நநவேத்யம்)

குர்பூர குர்னா தாம்பூலதளபூகபலைர்யுதம்।  
 ஜகத: பிதராவேதத் தாம்பூலம் ப்ரதிக்ருஹ்யதாம் ॥ (தாம்பூலம்)  
 நீராஜநம் க்ருஹாணேதம் கர்ப்பர: கவிதம் மயா।  
 தூள்யம்ருதலஸம்பூதே க்ருஹாண ஹரிவல்லபே।  
 சந்தராதித்தெயன ச நகஷ்தரம் வித்யுதக்னி ஸ்தவமேவ ச।  
 தவமேவ ஸர்வஜ்யோதிம் வி குர்யாம் நீராஜநம் ஹரே । (நீராஜநம்)  
 பரக்குஷ்டபாபநாசாய பரக்குஷ்டபலஸித்தயே।  
 யுவாம் ப்ரதக்ஷபிஞ்சுர்வே துளைசெள ப்ரஸ்ததம் ॥ ப்ரதக்ஷபிஞம்  
 நமோஸ்து பீழ்வி ஸமுத்பபவாயை  
 நமோஸ்து பதமாக்ஷி மந:ப்ரியாயை।

நமோடஸ்து ஜந்மாப்யயபீதி ஹந்தர்யை  
 நமஸ்துளஸ்யை ஜகதாம் ஜனன்யை ॥

சங்க சக்ர கதாபாணே தவாரகாநிலயாச்யுத  
 கோவிந்த புண்டரீகாகஷி ரகஷமாம் சரஞ்கத(தா)ம் ॥ (நமஸ்காரான்)

புஷ்பாஞ்ஜலிம் க்ருஹாணேதம் பங்கஜாகஷிஸ்ய வல்லபே ।  
 நமஸ்தே தேவி துளஸி நதாபீஷ்டபலப்ரதே ।  
 மந்தார நீலோத்பல குந்தஜாதீ-  
 புந்நாகமல்லி கரவீர பத்மை: ।  
 புஷ்பாஞ்சலிம் தே ஜகதேகபந்த்தோ  
 ஹரே த்வதங்க்கிரெள விநிவேசயாமி ।  
 (மந்தரபுஷ்பாஞ்ஜலி)

ஆயுராரோக்யமதுலம் ஜக்வர்யம் புத்ரஸம்பத: ।  
 தேஹி மே ஸகலான் காமான் துளஸ்யம்ருத ஸம்பபவே ॥

நமோ நம: ஸாரவரபூஜிதாங்கரயே  
 நமோ நமோநிருபம மங்களாத்மநே ।  
 நமோ நமோ விபுலபதைக வித்ததயே  
 நமோ நம: பரமதயாநிதே ஹரே ॥ (ப்ரார்த்தனை)

நமஸ்தே தேவி துளஸி நமஸ்தே மோகஷதாயினி ।  
 இதமர்க்க்யம் ப்ரதாஸ்யாமி ஸாப்ரீதா வரதாபவ ॥

லக்ஷ்மிபதே நமஸ்துப்பயம் துளஸி தாமஸ்துஷண ।  
 இதமர்க்யம் ப்ரதாஸ்யாமி க்ருஹாண கருடத்தவஜ ॥

ஸ்ரீ துளஸ்யை மஹாவிஷநுவே ச நம: - இதமர்க்க்யம்,  
 இதமர்க்யம் இதமர்க்க்யம் (மூன்று தடவை)

நமஸ்தே தேவி துளஸி மாதவேந ஸமந்விதா ।  
 ப்ரயச்ச ஸகலான் காமான் த்வாதச்யாம்பூஜிதா மயா ॥

காயேந வாசா + நாராயணுயேதி ஸமர்ப்பயாமி ஓம் தத்ஸத் ॥

तुलसीपूजाविधिः  
(नारदमहादेव संवादः)

महादेव उवाच—

शुभे पक्षे शुभे वारे शुभ क्रक्षे शुभोदये ।  
सर्वथा केशवार्थं तु रोपयेत्तुलसीं मुने ॥ १  
गृहस्याङ्गणमध्ये वा गृहस्योपवनेऽपि वा ।  
शुचौ देशो स्थापयित्वा तुलसीमर्चयेन्नरः ॥ २  
मूले च वेदिकां कुर्यादालबालसमन्विताम् ।  
प्रातः सन्ध्याविधिं कृत्वा स्नानपूर्वं दिने दिने ॥ ३  
गायत्र्यष्टवातं जस्वा तुलसीं पूजयेत्ततः ।  
प्राढमुखोदडमुखो वापि स्थित्वा प्रयतमानसः ॥ ४  
“ध्यायेच (ध्यायामि) तुलसीं देवीं भ्यामां कमललोचनाम् ।  
प्रसन्नां पद्मबदनां वराभयचतुर्मुजाम् ॥ ५  
किरीटहारकेयूर कुण्डलादिविभूषिताम् ।  
धबलांशुकसंसुक्तां पद्मासननिषेचिताम् ॥ ६ (ध्यायामि)  
देवि त्रैलोक्य जननि सर्वलोकैकपालिनि ।  
आगच्छ भगवत्पत्रं प्रसीद तुलसि प्रिये ॥ ७ (आवाहयामि)  
सर्वदेवमये देवि सर्वदा विष्णुबलम् ।  
देवि स्वर्णमियं दिव्यं गृहाणासनमव्यये ॥ (आसनम्)  
सर्वदेवमये देवि सर्वदेवनमस्कृते ।  
दत्तं पादं गृहाणेदं तुलसि त्वं प्रसीद मे ॥ (पादम्)  
सर्वतीर्थमयाकारे सर्वगिमनिषेचिते ।  
इटमर्घ्यं गृहाण त्वं देवि दैत्यान्तकप्रिये ॥ (अर्घ्यम्)

इष्टेन्द्रेन्द्रम् रक्षार्थं सदा सन्तिधिकारिणि।  
 एवं गतुलसिंहोत्तमा इहमावननीयकम्॥ (आकृतनीवाच)  
 तुलसि त्रिभैर्योग्यः सामीर्तं जालं शुभेन्।  
 त्रिभैर्युलसिंहोत्तमं प्रीतम् उत्प्रतिशृहताम्॥ (ज्ञानम्)  
 त्रिभैर्युलसिंहोत्तमं अन्त्रलभिसिंहोदरि।  
 त्रिभैरिधानार्थं इहं शैवान्वरं शुभे ॥ ३५८  
 त्रिभैर्युलसिंहोत्तमं शूर्यं शीर्यं कैवल्यमेव च ।  
 त्रिभैर्युलसिंहोत्तमं शूर्यं शीर्यं ददात्यहम्॥  
 त्रिभैर्युलसिंहोत्तमं लूपदात्यहम् ।  
 त्रिभैर्युलसिंहोत्तमं कुरु नै भावजप्रिये ॥  
 त्रिभैर्युलसिंहोत्तमं बुद्धैर्युलसिंहोत्तमं ।  
 त्रिभैर्युलसिंहोत्तमं पाप्य हरं हरित्रिये ॥  
 त्रिभैर्युलसिंहोत्तमं प्रार्थयत्तुलसिंहोत्तमः ॥ — रामचन्द्रसुख ॥

— \* —  
तुलसी रसुति ॥ ३

त्रिभैर्युलसिंहोत्तमे पापहारिणि पुण्यदे ।  
 त्रिभैर्युलसिंहोत्तमे नारायणमनः प्रिये ॥ १  
 त्रिभैर्युलसिंहोत्तमे सुखसौभाग्यहायिणि ।  
 त्रिभैर्युलसिंहोत्तमे तुलसि त्वां नमाम्यहम् ॥ २  
 त्रिभैर्युलसिंहोत्तमे सर्वतीर्थानि यन्मध्ये सर्वदेवताः ।  
 त्रिभैर्युलसिंहोत्तमे तुलसि त्वां नमाम्यहम् ॥ ३  
 अभ्युर्हा सर्वकल्पाणीं शोकसन्तापनाशिनीम् ।  
 आधिव्याधिहर्ता नृणां तुलसि त्वां नमाम्यहम् ॥ ४

देवैस्त्वं निर्मिता पूर्व अर्चितासि मुनीश्वरैः ।  
 नमो नमस्ते तुलसि पापं हर हरिप्रिये ॥ ५  
 सौभाग्यं सन्ततिं देवि धनं धान्यं च सर्वदा ।  
 आरोग्यं शोकशमनं कुरु मे माधवप्रिये ॥ ६  
 तुलसी पातु मां नित्यं सर्वपित्रोऽपि सर्वदा ।  
 कीर्तिं ताऽपि स्मृता वाऽपि पवित्रयति मानवम् ॥ ७  
 या दृष्टा निखिलाघसंघशमनी स्पृष्टा ब्रह्मः पावनी  
 रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्ताऽन्तक्रासिनी ।  
 प्रत्यासत्तिविधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता  
 न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिकलदा तस्यै तुलस्यै नमः ॥ ८

- - ☆ -

## துளை ஸ்துதி - 1

துளை ஸ்துதி கூடே பாபலூராரிஜி புண்யதே :  
 நமஸ்தே நாரதநுதே நாராயண மந : ப்ரியே ॥ 1  
 மந : ப்ரஸாதஜூநநி ஸகவெளபாக்யதாயினி ।  
 ஆதிவ்யாதிலுரே தேவி துளை தவாம் நமாம்யஹும் ॥ 2  
 யந்மூலே ஸர்வதீர்த்தானி யந்மத்தயே ஸர்வதேவதா : ।  
 யதக்ரே ஸர்வ வேதாக்ச துளை தவாம் நமாம்யஹும் ॥ 3  
 அம்ருதாம் ஸர்வகல்யாணீம் சோகஸந்தாப நாசினீம் ।  
 ஆதிவ்யாதி ஹரீம் ந்ருணும் துளைத்வாம் நமாம்யஹும் ॥ 4  
 தேவெல்தவம் நிர்மிதா பூர்வம் அர்ச்சிதாலி முநீச்வரை : ।  
 நமோ நமஸ்தே துளை பாபம் ஹர ஹரிப்ரியே ॥ 5  
 வெளபாக்யம் ஸந்ததிம் தேவி தநம் தாந்யம் ச ஸர்வதா :  
 ஆரோக்யம் சோக சமநம் குரு மே மாதவப்ரியே ॥ 6  
 துளை பாது மாம் நித்யம் ஸர்வாபத்பயோபி ஸர்வதா :  
 கிர்த்திதாபி ஸ்துதா வாபி பவித்ரயதி மாநவம் ॥ 7

या त्वं गुणं टानि कीला कलं पंक्षकमन्ते शुभं गुणं टावपुः पावन्ते  
रोकाणा मपि वन्तु ता निरवन्ति लीकं ताऽन्तकत्त्रा लीन्ति।  
प्रत्यावलं त्वि वित्ता प्रिन्ते पकवतः कं गुणं लय लम् रोपिता  
न्त्यलं ता तक्षरेण विमुक्ति पलता तलं य तुलं य नमः ॥ 18

— ★ —

### तुलसी स्तुतिः - २

(पुण्डरीककृता)

जगद्धात्रि नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे ।  
यतो ब्रह्मादसो देवाः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः ॥ १  
नमस्तुलसि कल्याणि नमो विष्णुप्रिये शुभे ।  
नमो मोक्षप्रदे देविनि नमः संपत्प्रदायिनि ॥ २  
तुलसी पातु मां नित्यं सर्वपिद्धयोऽपि सर्वदा ।  
कीर्तिताऽपि स्मृता वापि पवित्रयति मानवम् ॥ ३  
नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुम् ।  
यां हृष्टा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात् ॥ ४  
तुलस्या रक्षितं सर्वं जगदेतच्चराचरम् ।  
या विनिर्हन्ति पापानि हृष्टा वा पापिभिन्नैः ॥ ५  
नमस्तुलस्यतितरां यस्यै बद्धवाऽञ्जलिं कलौ ।  
कलयन्ति सुखं सर्वं खियो मर्त्यस्तथाऽपरे ॥ ६  
तुलस्या नापरं किञ्चिद् दैवतं जगतीतले ।  
यथा पवित्रितो लोको विष्णुसङ्गेन वैष्णवः ॥ ७  
तुलस्या वल्लभं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ ।  
आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके ॥ ८

तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः ।  
 अतस्तामर्चयेष्टोके सर्वान्देवान्समर्चयन् ॥ ९  
 नमस्तुलसि सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवलभे ।  
 पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसंपत्प्रदायिके ॥ १०  
 इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता ।  
 विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः ॥ ११

— \* —

### துளஸீ ஸ்துதி -2

ज्ञकञ्चत्तात्तरी नमस्तुप्यम् विष्णुगेष्टस परियवल्लपो ।  
 यतेऽप्रभूमात्मेयो तेवोः शुरुञ्चित्तस्तथीत्यन्तकारीणः ॥  
 नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णुपारीये कुपे ।  
 नमो मोक्षप्रदेते तेवी नमः शम्पत्प्रतायिनि ॥ २  
 तुलसी पातु माम नित्यम् शर्वापत्प्रयोगापि शर्वता ।  
 कीर्तितापि शम्प्रुता वापि पवित्रयति मानवम् ॥ ३  
 नमामि शीर्षसा तेवीम् तुलसीम् विलसत्तनुम् ।  
 याम् त्रुञ्चित्वो पापिनो नमस्त्या मुक्ष्यन्तेते शर्वकिल्पिष्ठात् ॥ ४  
 तुलस्या रक्षितम् शर्वम् ज्ञकतेत्तस्तराचारम् ।  
 या विनिर्लुन्ति पापानि त्रुञ्चित्वा पापिप्रिन्नरः ॥  
 नमस्तुलस्यतीतराम् यस्य पत्तवाऽनुज्ञविम् कलेण ।  
 कलयन्ति उक्तम् शर्वम् शत्रीयो मर्त्यास्तत्तरापरे ॥ ६  
 तुलस्या नापरम् किञ्चित्त तेवतम् ज्ञकतीत्वे ।  
 यापवित्तितेऽलोको विष्णुलवंकेन वैष्णवः ॥ ७  
 तुलस्याः पल्लवम् विष्णुः शीर्षस्यारोपितम् कलेण ।  
 आरोपयति शर्वाणी श्रेयोमूली वरमस्तके ॥ ८  
 तुलस्याम् शकला तेवो वसन्ती उत्तमं यतः ।  
 अतस्तामर्चयेष्टलोके शर्वान्तेवान्तस्तमर्चयन् ॥ ९

नमस्तु गणी लर्वल्लिंगे पुरुषोऽत्थ मवल्लपे।  
पाण्डि माम् लर्वपापेप्यः लर्वलम्पत्प्रत्यापिके॥ 10  
इति लं तो त्रात्मम् पुरा कीदम् पुण्टीकेना त्रिमत्ता।  
विष्णुमार्चयता नित्यम् शोपन्नं तु लर्वत्तैः॥ 11

— ★ —

### तुलस्युपनिषत्

अथ तुलस्युपनिषदं व्याख्यास्यामः । नारद क्रषिः ।  
अथ वर्जिता श्छन्दः । अमृता तुलसी देवता । सुधाबीजम् । वसुधा शक्तिः ।  
नारायणः कीलकम् ।

श्यामा श्यामवपुर्धरां क्रक्षवरूपां यजुर्मनसं ब्रह्माथर्वप्राणां  
कल्पहस्तां पुराणपठितां अमृतोद्भवां अमृतरसमञ्जरी अनन्तां  
अनन्तरसभोगदां वैष्णवीं गिर्णुवल्लभां मृत्युजन्मनिबहिर्णीं  
दर्शनात्पापनाशिर्णीं स्पर्शनात्पावनीं अभिवन्दनाद् रोगनाशिर्णीं सेवनात्  
मृत्युनाशिर्णीं वैकुण्ठार्चनात् विपद्धन्त्रीं, भक्षणात् वयुनप्रदां,  
प्रादक्षिण्यात् दारिद्र्यनाशिर्णीं, मूलमूलेपनात् महापापभञ्जनीं  
ग्राणतर्पणात् अन्तर्मलनाशिर्णीं य एवं वेद स वैष्णवो भवति । वृथा न  
छिन्द्यात् । द्वजा प्रदक्षिणं कुर्यात् । द्वादश्यां न स्पृशेत् । पर्वणि न  
विचिन्वेत् । यदि विचन्वति स विष्णुहा भवति । श्री तुलसै स्वाहा ।  
विष्णुप्रियायै स्वाहा । अमृतायै स्वाहा । श्री तुलसै विद्वहे विष्णुप्रियायै  
धीमहि । तनो अमृता प्रचोदयात् ।

अमृतेऽमृतरूपाऽसि अमृतत्वप्रदायिनि ।  
त्वं मामुद्धर संसारात् क्षीरसागर कन्यके ॥ १

श्रीसरिति त्वं सदानन्दे मुकुन्दस्य सदा प्रिये ।  
वरदाभयहस्ताभ्यां मां विलोक्य दुर्लभे ॥ २

अवृक्षवृक्षरूपाऽसि वृक्षत्वं मे विनाशय ।  
 तुलस्यतुलरूपाऽसि तुलाकोटिनिमेऽजरे ॥ ३  
 अतुले त्वतुलायां हि हरिरिकोऽस्ति नान्यथा ।  
 त्वमेव जगतां धात्री त्वमेव विष्णुबलभा ॥ ४  
 त्वमेव सुरसंसेव्या त्वमेव मोक्षदायिनी ।  
 त्वच्छायायां वसेलक्ष्मीः त्वन्मूले विष्णुरव्ययः ।  
 समन्ताद् देवताः सर्वाः सिद्धचारणपञ्चगाः ॥ ५  
 यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये ब्रह्म देवताः ।  
 यदग्ने वेदशास्त्राणि तुलसीं तां नमास्यहम् ॥ ६  
 तुलसि श्रीसखि शुभे पापहारिणि पुण्यदे ।  
 नमस्ते नारदनुते नारायणमनः प्रिये ॥ ७  
 ब्रह्मानन्दाश्रुसंजाते बृन्दावननिवासिनि ।  
 सर्वावियसंपूर्णे अमृतोपनिषद्रसे ॥ ८  
 त्वं मामुद्धर कल्याणि महापापाब्धिदुस्तरात् ।  
 सर्वेषामपि पापानां प्रायश्चित्तं त्वमेव हि ॥  
 देवानां च क्रषीणां च पितृणां त्वं सदा प्रिया ॥ ९  
 विना श्रीतुलसीं विप्रा येऽपि श्राद्धं प्रकुर्वते ।  
 वृथा भवति तच्छ्राद्धं पितृणां नौपगच्छति ॥ १०  
 तुलसीपत्रमुत्सृज्य यदि पूजां करोति कै ।  
 आसुरी सा भवेत्पूजा विष्णुप्रीतिकरी न च ॥ ११  
 यज्ञं दानं जपं तीर्थं श्राद्धं वै देवताचर्तनम् ।  
 तर्हयं मारजनं चान्यच्च कुप्यति तुलसीं विना ॥ १२

तुलसीदारुमणिभिर्जपः सर्वार्थसाधकः ।  
एवं न वेद यः कश्चित् स विप्रः श्वपचाधमः ॥ १३

इत्याह भगवान् ब्रह्माणं नारायणः, ब्रह्मा नारदसनकादिभ्यः,  
सनकादयो वेदव्यासाय, वेदव्यासः गुकाय, गुको वामदेवाय, वामदेवो  
मुनिभ्यः, मुनयो मनुभ्यः प्रोचुः । य एवं वेद, स स्त्रीहत्यायाः प्रमुच्यते,  
स वीरहत्यायाः प्रमुच्यते, स ब्रह्महत्यायाः प्रमुच्यते, स महाभयात्  
प्रमुच्यते, स महादुःखात्प्रमुच्यते, देहान्ते वैकुण्ठमवाप्नोति,  
वैकुण्ठमवाप्नोति । इत्युपनिषत् ।

— ★ —

## तुलसीस्तवराजः

शौनकः—

सूत सूत महाप्राज्ञ सर्वशास्त्रविशारद ।  
ब्रूहि मे स्तवराजं तु तुलस्याः पुण्यवर्धनम् ॥ १

श्री सूतः—

साधु साधु महाभाग कृतः प्रश्नस्त्वयाऽनध ।  
तुलस्याः स्तवराजं तु को नु वर्णयितुं क्षमः ॥ २

इह लोके परन्नापि ब्रह्मणाऽपि न शक्यते ।  
तुलसीकानन दृष्ट्या यत्र कुन्नापि वै स्थले ॥ ३

स्मरणात्कीर्तनाद् ध्यानात् सर्वपापैः प्रमुच्यते ।  
किमुत स्तवराजेन स्तुवतो मुक्तिरस्य वै ॥ ४

अविष्वतीति सन्देहो रौरवं नरकं व्रजेत् ।  
तुलसीस्तवराजस्य छन्दोऽनुष्टुप् प्रकीर्तिम् ।  
ऋषिनरायणो देवो देवता श्रीरुदीरिता ॥ ५

श्रीरिति बीजं, तुमिति कीलकं, लमिति शक्तिः,  
श्रीमिति दिग्बन्धः । नम इति सर्वभूतोच्चाटनम् ।  
अङ्गन्यासः - ओं श्रीं हृदयाय नमः । ओं तुं शिरसे स्वाहा । ओं लं  
शिखायै वषट् । ओं स्यैं कवचाय हुम् । ओं नं नेत्रनयाय बौषट् । ओं  
मः अस्त्राय फट् । भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः । ध्यानं—  
चतुर्बहुयुक्ते देवीं शङ्खपुस्तकधारिणीम् ।  
पद्माक्षमालां पुष्पं च धारिणीं पुण्यदायिनीम् ॥ ६  
अमृताब्धिसमुत्पन्ने सर्वशोकविनाशिनी ।  
सर्वसौभाग्यदात्री(यी) त्वं तुलसि (सी) रक्षणं कुरु ॥ ७  
दक्षिणे लोकविरुद्धाते विष्णुधृतशरीरिणि ।  
विश्वरूपी विश्वकर्त्ता तुलसी रक्षणं कुरु ॥ ८  
सर्वलोकमये(यी) पूज्ये सर्वसंपत्प्रदायिनि ।  
सर्वतापप्रशमनि तुलसी रक्षणं कुरु ॥ ९  
महिता लोकपूज्या च महिषासुरभञ्जनि ।  
करवीरपुरावासे तुलसी रक्षणं कुरु ॥ १०  
मायावती भगवती महिला भद्रकालिका ।  
मोहिनी संगता शौरी तुलसी रक्षणं कुरु ॥ ११  
महालक्ष्मि महाकाली सर्वत्र विजया जया ।  
अशारीरी शरीरी च तुलसी रक्षणं कुरु ॥ १२  
ब्रह्माणी शङ्करी सौम्या वैष्णवी च स्वधा तथा ।  
देवसेना महारौद्री तुलसी रक्षणं कुरु ॥ १३  
चामुण्डा चञ्चला भीमा रेणुका मारिका तथा ।  
पद्माक्षी पद्ममाला च तुलसी रक्षणं कुरु ॥ १४

शुभाशुभप्रदात्री त्वं वृषभासुरभञ्जनी ।  
वञ्जुला जर्जरी क्रूरा तुलसी रक्षणं कुरु ॥ १५  
अतिगुह्यतमं दिव्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् ।  
नास्तिकाय प्रदेयं न नाभक्ताय कदाचन ॥ १६  
शुश्रूषवे च भक्ताय प्रदेयं हितमिच्छता ।  
विष्णुभक्ताय पूज्याय वैराग्य गुणशालिने ॥ १७  
भृगुवारे भौमवारे प्रदोषे च विशेषतः ।  
प्रभाते सर्वदा जप्यं लिखित्वा पुस्तकं यदि ॥ १८  
स्थापितं पूजितं चेत्स्यात् सर्वरोगैः प्रमुच्यते ।  
महालक्ष्मीः सिन्धुतीरि विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ १९  
साऽपि विधये प्रोक्तवती तेनोक्तं नारदाय वै ।  
नारदः प्रोक्तवान्महां तदेतत्प्रोक्तवानहम् ॥ २०  
एवं परंपराप्राप्तं सर्वशास्त्रार्थं सङ्ग्रहम् ।  
तुलसीकवचं पुण्यं तस्मात्स्तोत्रं महात्कलम् ॥ २१  
तस्मात्कोटिगुणं पुण्यं तुलसीस्तवराजतः ।  
पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति राज्यार्थी राज्यमाप्नुयात् ॥ २२  
किं तेन बहुनोक्तेन मोक्षार्थी मोक्षामाप्नुयात् ।  
सप्तद्वीपवर्ती पृथ्वीं दत्ता यत्कलमाप्नुयात् ।  
तत्कलं समवाप्नोति तुलसीपत्रदानतः ॥ २३ — ब्रह्मपुराणतः

— ★ —

## तुलसीकवचम्—५

कवचं तव वक्ष्यामि भवस्क्रमनाशनम् ।  
यस्य जापेन स्त्रियन्ति सर्वार्थी नानियत्वतः ॥ १

तुलसी पातु मे नित्यं शिरोवक्त्रोष्ठनासिकाः ।  
 श्रोत्रनेत्रललाटं च भूकपोलं निरन्तरम् ॥ २  
 श्रीसखी पातु मे कण्ठं भुजौ वक्षश्च कक्षकम् ।  
 पृष्ठं च पिठरं सर्वं स्तनं जानू च हत्तटम् ॥ ३  
 शुभा पातूदरं नाभिं पार्श्वं हस्ताहुलिं तथा ।  
 जाठरं वहिमखिलं गुदं जघनगुह्यकम् ॥ ४  
 पापहारिण्यवतु मे ऊरु स्फिङ्मांसजानुकम् ।  
 पुण्यदाऽवतु मे जड्बे पादौ नारदसेविता ॥ ५  
 यदुक्तं यच्च नोक्तं मे यद्वाह्वं यत्थान्तरम् ।  
 सर्वाङ्गं पातु मे देवी नारायणमनः प्रिया ॥ ६  
 इतीदं कवचं दिव्यं तुलस्याः सर्वसिद्धिकृत् ।  
 त्रिसन्धयं यो जपेत्तस्य श्रीविद्याऽयुश्च वर्धते ॥ ७  
 प्राचीः षड् विलिखेद्रेष्वाः उदीर्चीं पञ्च चैव हि ।  
 संख्यानां विंशतिसतत्र कोष्ठानां तु भविष्यति ॥ ८  
 कोष्ठे कोष्ठे लिखेत्पादं मन्त्रस्यास्य यथाक्रमम् ।  
 भूजें रोचनया विद्वान् कोष्ठं कुङ्कुममिश्रया ॥ ९  
 यस्य यन्त्रमिदं मूर्ख्मि भुजे कण्ठेऽथवा भवेत् ।  
 सङ्घामे व्यवहारे च चोरव्याघ्रभयेषु च ॥ १०  
 मारीझये बर्षभये निर्धात भयपीडिते ।  
 क्षयापस्मारपीडासु सर्पवृश्चिकलूल(त)के ॥ ११  
 तापच्चरेऽथवा झीते नेत्ररोगे च दुःसहे ।  
 न तस्य किंचिद् दुरितमिहामुत्र च जायते ॥ १२

वन्ध्या या धारयेद्यन्तं अचिरात्पुत्रिणी भवेत्।  
 इतीदं कवचं प्रोक्तं वादे च विजयप्रदम्॥ १३  
 गोमयेन मृदा चैव निर्माय प्रतिवादिनम्।  
 लम्बमानां तस्य जिह्वां कृत्वा च निहया लिपेत्॥ १४  
 वामपादेन चाक्रम्य तज्जिह्वां कवचं जपेत्।  
 अचिरात्स्य जिह्वायाः स्तम्भो भवति संसदि॥ १५  
 वश्यमाकर्षणं चैव स्तम्भनोच्चाटने तथा।  
 द्रेषणं मारणं चैव मन्त्रेणानेन विन्दति॥ १६  
 विन्यस्तकवचो यस्तु मन्त्रराजेन मन्त्रितम्।  
 भक्षयेत्तु त्वचं तस्य वाक्पतित्वं न संशयः॥ १७  
 काम्यसिद्धिर्मयोक्ता ते मोक्षसिद्धिं निशामय।  
 यो नवैस्तुलसीपत्रैः सालग्रामशिलार्चनम्॥ १८  
 कुर्यात्पुरुषसूक्तेन तस्य मोक्षः करे स्थितः। —वृद्धपाद्मतः:

—★—

## तुलसीकवचम्-२

अस्य श्रीतुलसीकवचस्तोत्रमंत्रस्य, श्रीमहादेव ऋषिः,  
 अनुष्टुप्छंदः, श्रीतुलसी देवता, मनसीप्सितकामना-सिद्धचर्थं  
 जपे विनियोगः॥

तुलसी श्रीमहादेवि नमः पंकजधारिणि।  
 शिरो मे तुलसी पातु भालं पातु यशस्विनी॥ १  
 हृशौ मे पद्मनयना श्रीसखी श्रवणे मम।  
 घ्राणं पातु सुगंधा मे मुखं च सुमुखी मम॥ २

जिह्वां मे पातु शुभदा कंठं विद्यामयी मम ।  
 स्कंधौ कहारिणी पातु हृदयं विष्णुवल्लभा ॥ ३  
 मध्यं मे पुण्यदा पातु नाभिं सौभाग्यदायिनी ।  
 कटि कुंडलिनी पातु ऊरु नारदवंदिता ॥ ४  
 जननी जानुनी पातु जंघे सकलवंदिता ।  
 नारायणप्रिया पादौ सर्वांगं सर्वरक्षिणी ॥ ५  
 संकटे विषमे दुर्गे भये वादे महाहवे ।  
 नित्यं हि संध्ययोः पातु तुलसी सर्वतः सदा ॥ ६  
 इतीदं परमं गुह्यं तुलस्याः कवचामृतम् ।  
 मत्यनिममृतार्थाय भीतानामभयाय च ॥ ७  
 मोक्षाय च मुमुक्षूणां ध्यायिनां ध्यानयोगकृत् ।  
 वशाय वश्यकामानां विद्यायै वेदवादिनाम् ॥ ८  
 द्रविणाय दरिद्राणां पापिनां पापशांतये ॥ ९  
 अन्नाय क्षुधितानां च स्वर्गाय स्वर्गमिच्छताम् ।  
 पश्चात्यं पशुकामानां पुत्रदं पुत्रकांक्षिणाम् ॥ १०  
 राज्याय भ्रष्टराज्यानामशांतानां च शांतये ।  
 भक्त्यर्थं विष्णुभक्तानां विष्णौ सर्वातरात्मनि ॥ ११  
 जाप्यं त्रिवर्गसिद्ध्यर्थं गृहस्थेन विशेषतः ।  
 उद्यंतं चंडकिरणमुपस्थाय कृतांजलिः ॥ १२  
 तुलसीकानने तिष्ठनासीनो वा जपेदिदम् ।  
 सर्वान्कामानाप्नोति तथैव मम सन्निधिम् ॥ १३  
 मम प्रियकरं नित्यं हरिभक्तिविवर्धनम् ।  
 या स्यान्मृतप्रजा नारी तस्या अंगं प्रमार्जयेत् ॥ १४

सा पुत्रं लभते दीर्घजीविनं चाप्यरोगिणम्।  
वंध्याया मार्जयेदंगं कुशैमत्रेण साधकः ॥ १५

सा च संवत्सरादेव गर्भं धत्ते मनोहरम्।  
अश्वत्थे राजवश्यार्थी जपेत्प्रातः सरूपभाक् ॥ १६

पलाशमूले विद्यार्थी तेजोऽर्थ्यभिमुखे रवेः ।  
कन्यार्थी चंडिकागेहे शत्रुहत्यै गृहे मम ॥ १७

श्रीकामो विष्णुगेहे च उद्याने स्त्री वशा भवेत्।  
किमत्र बहुनोक्तेन शृणु सैन्येश तत्त्वतः ॥ १८

यं यं काममभिध्यायेत्तं तं प्राप्नोत्यसंशायम् ॥ १९

### तुलाली विवाहम्

कार्त्तिकैक मातृत्त्वीय कक्षल एकात्मीयन्ऱु प्रपोत्तीलै एकात्मी - तेव उत्तापना एकात्मी केान्टाटाउवर. ममै कालत्तीनि ४ मातृकालील (आवनी पुरट्टाशी औप्पसी- कार्त्तिकै) सातुर्माल्य विरतमिरुप्पर. आषि कक्षल एकात्मीयन्ऱु तिताटस्कीय इन्त विरतम कार्त्तिकै कक्षल एकात्मीयिल मुष्टिवृहम्. आवनीयिल कन्धिकायलैयम्, पुरट्टाशीयिल तयीरयम्, औप्पसीयिल पालैयम्, कार्त्तिकैयिल परुप्पु वकाकयेयम् उण्णावील तवीरत्तु विरतमिरुप्पर. आषि एकात्मीयिल विष्णुनुनित्तरे केान्टु कार्त्तिकै एकात्मीयिल विष्णुत्तेतमुवार. “त्वयि लाप्तेऽजन्तरात् जक्तस्त्वप्तमितम् पवेत्. विपुत्तेऽस विपुत्तेऽयेत् प्रपलन्तेनो मेपव अस्युत” एन नै त्रांकिलै उलकम त्रांकुम. नै विष्णुत्तिरुन्तालै उलकम विष्णुप्पुरुम. नै एन्ऱुम अरुण पुरिवाय एन वेण्णाउवर. प्रपोत्तना एकात्मीयन्ऱु विष्णुनुविरुक्ति रुप्पलीयेमुक्ति केान्टाटि सातुर्माल्य वरतत्ततेप्पुरात्ति चेयवर. इन्त नाऩ्कु मातृकालील वेणीप्पयणात्तते निरुत्तिउवर. तवात्मीयन्ऱु तुलालीयुटन विष्णुनुविरुक्तु विवाहम् चेय्तु वेप्पर.

विष्णुनु पक्तेयान तुलाली विष्णुवेवये मणक्क विरुम्पित तवमिरुन्तु विष्णुनुवेव मणन्तु विष्णुविळ

வழிபாட்டில் பல வகைகளில் இடம் பெற்று துளை இல்லாத வழிபாடு பலன் தராது என்ற அளவிற்கு முக்யநிலை பெற்றுள்ள. மற்றும் வகையில் பிருந்தாவனமாகி பால் கிருஷ்ண வீலை ராஸ க்ரீட முதலியலை நிகழ்ந்த இடமாகிச் சிறப்படைந்தாள்.

தேவீ பாகவதத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா பற்றிய சரிதம் கிறந்துள்ளது. வைகுண்டம் விஷ்ணு பரப்ரஹ்ம நிலையிலிருந்து உசுண்பறவுமாக இறங்கித் தன் சக்தியான வகுஷ்மியுடன் விளங்குமிடம். அதேபோல் கோலோகமும் பரப்ரஹ்மமான கிருஷ்ணன் தன் உலகப் படைப்பிற்கான பிருகிருதி சக்திகளான தூர்க்கை, ராதா, லக்ஷ்மி, ஸரஸ்வதி, ஸாவித்ரி என்ற ஐவருடன் உலகின் மூலப் பொருளாக, மூலகாரணமாக, மூல இயக்குனராக விளங்குமிடம். கொடுக்கும் வகையான துளை (ப்ருந்தா) ஒரு கோபி. கிருஷ்ணனுடன் வகுஷ்மியின் வகையான துளை (ப்ருந்தா) ஒரு கோபம் வந்து கடித்தால் துளை ஆதிகம் கூடியிருந்ததால் ராதைக்குக் கோபம் வந்து கடித்தால் துளை பூமியில் பிறந்து தவம் செய்து பின் சங்ககுடனுடன் வாழ்ந்து கிருஷ்ண பரமாத்மாவுடன் இணக்கிறார்கள். இந்த துளைக்கும் கிருஷ்ண பரமாத்மாவுடன் இராதா கல்யாணம் போல் விரிவாக விவாஹம் கொண்டாடப் பெறுகிறது. இந்த வரலாற்றிற்கான சரிதம் தனியே இடம் கொண்டாடப் பெறுகிறது. இந்த வரலாற்றிற்கான சரிதம் தனியே இடம் கொண்டாடப் பெறுகிறது. துளை தேவி திரும்ப கோலோகம் செல்லுமுன் அவளது பெற்றுள்ளது. துளை தேவி திரும்ப கோலோகம் செல்லுமுன் அவளது கொண்டாடக் கண்டகி நதியாயிற்று. அவளது கேசங்கள் துளைச் செடிகளாயின எனத் தேவீ பாகவதம் கூறும். நெல்லிமரமாக செடிகளாயின எனத் தேவீ பாகவதம் கூறும். நெல்லிமரமாக கிருஷ்ணனும், துளைச் செடியாக துளையும் விவாஹம் செய்து கொள்ளுகின்றனர். நெல்லி மரத்தின் ஒரு கிளையைக் கொண்டந்து கொள்ளுகின்றனர். நெல்லி மரத்தின் ஒரு கிளையைக் கொண்டந்து விஷ்ணுவாக ஆவாஹனம் செய்வர். சிலர் கிருஷ்ணாக விஷ்ணுவாக ஆவாஹனம் செய்வர். சிலர் விஷ்ணு-துளை இவர்களின் விக்ரஹத்தையோபடத்தையோதுளைச் செடியின் அருகில் வைத்து விவாஹம் செய்விப்பர்.

ஸந்த்ருமார் ஸம்ஹி தையில் விரிவாக துளை விவாஹமுறை கூறப்பட்டுள்ளது. விவாஹச் சடங்கு நாற்புறமும் கரும்பு கட்டிய விவாஹ மண்டபத்தில் விக்நேசவர பூஜை, புண்யாஹுவாசனம். நாந்தீ சிராத்தம் முதலியவற்றுடன் தொடங்கி, துளைக்கு (பக்கம் 107) முறைப்படி பூஜை செய்து மண்டபத்தில் அமர்த்தி மாப்பிள்ளை அழைப்படி முறைப்படி வாத்ய கோவித்துடன் விஷ்ணு (கிருஷ்ண) விக்ரஹத்தையோ சித்திரத்தையோ ஊர்வலமாக அழைத்துவந்து மேடையில் அமர்த்தி, ஆக்சபகவன் தேவ அர்ச்சயிஷ்யாமி கேசவ / துப்பியம் ததாமி துளையிம் ஸர்வ காமப்ரதோபவ என துளை எனும் பெண்ணை மனைவியாக ஏற்பீர் என வேண்டுவர். (காசி யாத்திரை

சென்று வந்த மாப்பிள்ளையிடம் பெண்ணைத் தருவதாகப் பெண்ணின் தந்தை கூறுவது (போல்) பாத்யம் அர்க்கியமளித்து ஆஸனத்தில் அமர்த்துவர். வரணி விஷ்ணுவாக நினைத்து உரக்க அதனைக்கூறி பாத பூஜை செய்வது போல் லகுவாக விஷ்ணு பூஜை செய்து மதுபர்கமளித்து தன் கோத்ரம் பிரவரம் மூன்று தலைமுறையினர் பெயர் கூறி அநாதி மத்தய நிதந - தரைலோக்ய ப்ரதிபாலக, இமாம் கருஹான துளஸீம் விவாஹ விதிநேச்வரீம் என்று கன்யாதானம் செய்வர். இதனை அன்று முழுவதும் அன்றிரவிலும் விழித்திருந்து (பஜனை) பாடி மறுநாள் காலை தவாதசாக்ஷர் விஷ்ணு மந்தரத்தால் ஹோமம் செய்து விவாஹச் சடங்கு முடிந்ததும் இருவரையும் வழியனுப்புவர். மங்களமாக இது இனிது முடியும்.

துளஸீ விவாஹம் செய்ய விரும்புவர் இதற்கெனவே தனியே ஒரு தொட்டி முதலியவற்றில் துளஸியை வளர்ப்பர்.

**ப்ரஸீட மம ஦ேவேஶ ப்ரஸீட ஹரிவல்லமே |**

என அடிக்கடி வேண்டுவர். அது வளர்த் தொட்டியில்  
ஹரிப்ரியே மக்ஞுதே லக்ஷ்மா க்ஷிராபிஸம்வை |  
மக்த்யா ஦த்த மயா தோய் துலசி பிரதி஗ூத்யதாம் ||

என்று கரிசனத்துடன் வேண்டி நீர் வார்ப்பர். நன்கு வளர்ந்த அதிலிருந்து பூங்கொத்தையோ தளத்தையோ பறிக்காமல் காப்பாற்றுவர். விவாஹத்தை முறைப்படி செய்து தம்புதிகளைத் தம் இருப்பிடத்திற்கு சீர் முதலியவற்றுடன் அனுப்புவதாகக் கொண்டாடுவர். பிறகு அந்த துளஸிக் செடியைத் தினமும் வழிபடுவர். பிறகு அதில் தளம் முதலியவற்றைப் பறிப்பதில்லை. வாடிக் காயந்து குச்சியாகுமுன் அவ்விடத்தில் மற்றெருகு பதியனை அதில் இனைத்துச் சிறிது வளர்ந்ததும் காய்ந்ததை அகற்றுவர். தொடர்ந்து அதனைக் காப்பாற்ற அருகில் துளசிக் செடி வளர்ப்பர். அதிலும் தளத்தைப் பறிப்பதில்லை. ஆண்டு தோறும் இந்தப் புண்ய நாட்களில் விவாஹம் செய்விப்பர்.

— ★ —

बृन्दावने हरिप्रिबोधनविधि:

(ब्रतचूडामणि:)

(अत्रैव हि प्रकर्तव्यः प्रबोधस्तु हरेः खग ।  
हतः राङ्गासुरो दैत्यो नभसः शुक्रपक्षके ।  
एकादश्यां ततो विष्णुः चातुमास्येषु सुसवान् ।  
क्षीरोदधौ जाग्रतोऽसावेकादश्यां तु कार्तिके ।  
अतः प्रबोधनं कार्यमेकादश्यां तु वैष्णवैः ॥)

प्रबोधनस्तोत्रम्

उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शङ्खघ्न उत्तिष्ठ श्रुतिसाधक ।  
उत्तिष्ठ जगदाधार त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु ॥ १  
उत्तिष्ठ धरणीधार मन्धानगिरिधारक ।  
कूर्मसूपधरोत्तिष्ठ त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु ॥ २  
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वाराह दंष्ट्रोद्घृतवसुन्धर ।  
हिरण्याक्षप्राणधातिन् त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु ॥ ३  
हिरण्यकशिपुघ्न त्वं प्रह्लादानन्ददायक ।  
लक्ष्मीपते समुत्तिष्ठ त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु ॥ ४  
उत्तिष्ठ बलिदर्पघ्न देवेन्द्रपददायक ।  
उत्तिष्ठादितिपुत्र त्वं त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु ॥ ५  
उत्तिष्ठ हैहयाधीशसमस्तकुलनाशन ।  
रेणुकाघ्न त्वमुत्तिष्ठ त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु ॥ ६  
उत्तिष्ठ रक्षोदमन अयोध्यास्वर्गदायक ।  
समुद्रसेतुकर्तस्त्वं त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु ॥ ७

उत्तिष्ठ कंसहरण मदधूर्णित लोचन ।  
उत्तिष्ठ हलपाणे त्वं त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु ॥ ८  
उत्तिष्ठ त्वं गयाबासिन् त्यक्तलौकिकवृत्तिक ।  
उत्तिष्ठ पद्मासनग त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु ॥ ९  
उत्तिष्ठ म्लेच्छनिवह खड्गासंहारकारक ।  
अश्वबाहयुगान्त त्वं त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु ॥ १०  
उत्तिष्ठौत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज ।  
उत्तिष्ठ कमलाकान्त त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु ॥ ११  
(इत्युक्त्वा शङ्खमेर्यादि प्रातः काले तु बादयेत्)  
बीणावेण मृदुज्ञादि नृत्यगीतादि कारयेत् ॥  
उत्थापयित्वा देवेदां पूर्जा तस्य विद्याव च ।  
साथं काले प्रकरेव्य: तलस्युद्धाहको विधिः ॥)

(கார்த்திகை ஏகாதமியன்று காலை பூரி விஷஞ்சுவை இந்த ப்ரபோதன ஸ்துதியால் எழுப்புவர்).

உத்திஷ்டோத்திஷ்ட சங்கக்கந் உத்திஷ்ட ச்ருதிலாதக !

உத்திஷ்ட ஜகதாதார த்ரைலோக்யம் மங்களம் குரு ॥

உத்திஷ்ட தரணீதார மந்தாநகிரிதாரக ।

கூர்மருபத் ரோத்திஷ்டத்திற்கொக்யம் மங்களம் குரு ॥ 2

உத்திஷ்டோத்திஷ்ட வாராஹ தம்ஷ்ட் ரோத்தருதவஸந்தரா ।

விரண்யாகத்ப்ராணகாதிந் தரைலோக்யம் மங்களம் குரு ॥ 3

ஹிரண்யகசி புக்கந் தவம் ப்ரஹ்லாதா நந்ததாயக |

வக்ஞமீபதே ஸமுத்திஷ்ட்டத்ரைலோக்யம் மங்களம் குரு ॥ 4

உத்திஷ்ட பலிதரபக்கந் தேவேந்தரபத்தாயக

உத்தாத்தபுதர் தவமதரைலோகயமமங்கல

உத்தஷ்ட வெறுவூயாதசஸமஸ்தகுலநாசந் ।

ரெண்காகந் தவமுத்துஷ்ட தரைலோகயம்

உத்திஷ்டரகேஷாதமந அயோத்யாஸ்வர்கதாயக !  
 ஸமுத்ரஸேதுகர்தல்தவம் தரைலோக்யம் மங்களம் குரு ॥ 7  
 உத்திஷ்டகம்ஸலஹரண மதகூரணித லோசந !  
 உத்திஷ்ட ஹலபாணேதவம் தரைலோக்யம் மங்களம் குரு ॥ 8  
 உத்திஷ்டதவம் கயாவாஸிந்தயக்தவெளகிக வருத்திக !  
 உத்திஷ்ட பத்மாஸநக தரைலோக்யம் மங்களம் குரு ॥ 9  
 உத்திஷ்டம்லேச்சனிவஹ கட்கஸம்ஹாரகாரக !  
 அச்வவாஹ யுகாந்ததவம் தரைலோக்யம் மங்களம் குரு ॥ 10  
 உத்திஷ்டோத்திஷ்டகோவிந்த உத்திஷ்டகருடதவஜ !  
 உத்திஷ்டகமலாகாந்ததரைலோக்யம் மங்களம் குரு ॥ 11  
 என்று சங்கு பேரி முதவிய வாத்யங்களின் மழக்கம், ஆடல் பாடல்  
 வீணை வேணுமுதவிய வாத்ய இசை இவற்றுடன் எழுப்புவர்.

—★—

### துலஸீவிவாஹவிதி:

(இக்ஷுடண்நிர்மிதே புष்பாଘலக்ஷ்தே மண்டபே விவாஹः । துலஸீ  
 ஹரி஦்ராந்஦நக்ஞஸபுष்பாଘாலக்ஷ்தா ஸ்வீயதேஷா பிரதம் பூஜ்யதே ।

शुङ्गाम्बरधरं + परमेश्वरप्रीत्यर्थं शुभे शोभने मुहूर्ते + शुभतिथौ  
 तुलस्याः विष्णुना सह विवाहोत्सवमाचरिष्ये । (अप उपस्पृश्य)  
 विश्वेश्वरपूजां कलशपूजां तुलसी पूजां च यथाविधि निर्वर्त्य.....

विष्णुं विवाहार्थं वराई वस्त्रालङ्करणं पुष्पमालादिभिः अलङ्कृत्य  
 वाद्ययोषगीतपुरस्सरं विवाहमण्टपमानीय कर्ता नारिकेल-कदलीफल-  
 ताम्बूलादिभिः उपसृत्य मण्डपे आसने प्रतिष्ठाप्य प्रार्थयेत्—

आगच्छ भगवन् देव अर्हयिष्यामि केशव ।  
 தும्यं ஦दாமி துலஸீ ப்ரதிச்சந் காமடோ ஭வ ॥

आसनमिदं, अलङ्कियताम् । पादं समर्पयामि । अद्यं समर्पयामि,  
आचमनीयं समर्पयामि । मधुपर्कं समर्पयामि । हरिद्रालेप-मङ्गलविधिं  
समर्पयामि । तैलाभ्यङ्गपूर्वकं मङ्गलस्नानं समर्पयामि ।  
वस्त्रालङ्करणपुष्पमालाः समर्पयामि । गन्धान्धारयामि । गन्धोपरि  
हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि । पुष्टैः पूजयामि । (१२.२४-१०८  
नामभिरच्चयेत् । (वधूवरौ परस्परमभिमुखौ स्थापयित्वा) ...  
गोत्रोद्भवां .... शर्मणः प्रपौत्री, ... शर्मणः पौत्री, शर्मणः पुत्रीं  
तुलसीनामीं इमां कन्यकां अजाय अनादये श्री विष्णवे वराय ददामि ।  
(त्रिरुक्त्वा)

अनादिमध्यनिधन त्रैलोक्य प्रतिपालक ।  
इमां गृहाण तुलसीं विवाह विधिनेश्वर ॥  
पार्वती बीजसंभूतां बृन्दामस्मनि संस्थिताम् ।  
अनादिमध्यनिधनां वल्लभां ते ददाम्यहम् ॥  
पयोघृतैश्च सेवाभिः कन्यावद्वर्धितां मया ।  
त्वत्त्रियां तुलसीं तुम्यं ददामि त्वं गृहाण भोः ॥

वाद्यघोष - वेदस्वस्तिवाचन - मङ्गलाशीर्भिः उभौ मेलयित्वा  
गीतादिभिः सन्तोषयेत् । सायमपि पुनः पूजां कृत्वा स्त्रीधनं  
यथाशक्ति दद्यात् ।

**विवाहोत्सवपूर्ती**  
वैकुण्ठं गच्छ भगवन् तुलस्या सहितः प्रभो ।  
मत्कृतं पूजनं गृह्य सन्तुष्टो भव सर्वदा ॥  
गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानं परमेश्वर ।  
यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छ जनादन ॥

இதி உभை அம்யநுஜாபயேத் மஜலாராதிகை ஸஹ । துலஸீ யथாபுர்  
ரக்ஷேது ।

— ★ —

### துளஸீவிவாஹமுறை

அழகிய மண்டபத்தில் சுற்றி கரும்புக் கழிகளைக் கட்டி பூமாலை முதலியவற்றால் அலங்கரிப்பர். துளஸீச் செடி பயிராகி உள்ள தொட்டியையும் துளஸீச் செடியையும் மஞ்சள் சந்தனம் குங்குமமிட்டு பூமாலைகளால் அலங்கரித்து விவாஹத்திற்காக ஸங்கல்பம் செய்வர்.

கூக்ளாம்பரதரம் + ஸ்ரீ பரமேச்வர பரீத்யர்த்தம் கூபே சோபனே + சுபதி தெள துளஸ்யா: விஷ்ணுநா ஸஹ விவாஹே தூத்ஸவம் ஆசரிஷ்டயே । (கையலம்பி) விக்நேச்வர பூஜை, கலச பூஜை, துளஸீ பூஜை இவற்றை முறைப்படி செய்து,

விஷ்ணுவை விவாஹ முறைப்படி வரனுக்குரிய ஆடை அணி பூமாலை அலங்காரம் செய்து ஊர்வலமாக வாத்ய கோஷம் - பாட்டுடன் அழைத்து வந்து மண்டபத்தின் வாயிலில் தேங்காய் - பழம் - பூ முதலியவற்றுடன் வரவேற்று, ஆஸனத்தில் அமர்த்தி

ஆகச்ச பகவன் தேவ அர்ஹயிஷ்யாமி கேசவ !

துப்பயம் ததாமி துளஸீம் ப்ரதீச்சன் காமதோ பவ !!

ஆஸனம் இதம் அலங்கரியதாம் । பாத்யம் ஸமர்ப்பயாமி ।

மதுபர்கம் ஸமர்ப்பயாமி । ஹரித்ராலேப மங்கள விதிம்

ஸமர்ப்பயாமி । தெலாப்பயங்க பூர்வகம் மங்கள ஸ்நானம்

ஸமர்ப்பயாமி । வஸ்த்ராலங்கரண பூஷபமாலா: ஸமர்ப்பயாமி ।

கந்தான் தாரயாமி । கந்தோபரி ஹரித்ரா குங்குமம் ஸமர்ப்பயாமி ।

புஷ்பை: பூஜையாமி (12-24-108) நாமாக்கள் சொல்லி பூக்களால்

அர்ச்சனைச் செய்யவும்).

வதூவரர்களை ஒருவருக்கொருவர் பார்த்துக் கொள்ளும்படி

நிறுத்தி, .... கோத்ரோத்பவாம், .... சர்மண: ப்ரபெளத்ரீம், ...

சர்மண: பெளத்ரீம்.... சர்மண: புஞ்சீம் துளஸீம் ஸ்ரீ விஷ்ணுவே வராய்

ஸமர்ப்பயாமி என்று முன்று தட்டவை சொல்லி,

अन्नात्रि मत्त्य नित्यन तरोलोक्यप्रतिपालक।

इमाम करुणाणा तुलसीम विवाहविति नेष्वर॥

पार्वती प्रेज्ञलमप्पृथाम प्रुन्तापलमनीलमस्त्वितम्।

अन्नात्रि मत्त्य नित्यनाम वल्लपाम तेततामयम्।

पयोक्करुतेष्चलेवापि कन्यावत् वर्ततीतामया।

तवत्परियाम तुलसीम तुप्पयम ततामि तवम् करुणाणा पोः।

एनक कूरी वात्य कोषम्, वेत मंकलाम्, मंकला वाप्तत्तु करुतान् कन्निकायिन कमुत्तिल मंकला सात्तरम् कट्टच चेष्टु इरुवरायुम इनेत्तु उट्कारवेत्तु केतम् मुतलियवर्गुल मकिम्बिक्क वेण्णुम्।

मालैवरे कितातिकल पाति मरुपाति मुरेप्पाति इरुवरुक्कुम पूज्जै चेष्टु किमुतलियव अलिक्क वेण्णुम्।

विवाह निराविल

वेकुन्नट्टम कक्ष पकवन् तुलस्यालभ्यितः परपो।

मत्तकरुतम पूज्जनम करुण्य लन्तुष्टोपव लर्वता॥

कक्ष कक्ष लारक्षरेष्ट्ट लवलस्ततानम परमेष्वर।

यत्र परमलातयो तेवाः तत्रकक्ष इनार्तन॥

एन्ऱु इरुवरुक्कुम आनन्तत्तुतान् विष्टत तरवेण्णुम्।

अनुप्पुमन मंकला आरत्ति चेष्य वेण्णुम्।

तुलसीय अनुत्त वरुषत्तुप पूज्जवरे मुन्निप प्रोपल पातुकाक्क वेण्णुम्।

—★—

### वृन्दावनदादशीव्रतम्

(व्रतचूडामणी)

तुलसी विष्णुविवाहविधिः

देशकालौ ततः स्मृत्वा गणेशं तत्र पूज्येत्।

पुण्याहं वाचयित्वाऽथ नान्दीशाद्वं समाचरेत्॥ १

वेदवाद्यादिनिर्घोषैः विष्णुमूर्तिं समानयेत् ।  
 तुलस्या निकटे सा तु स्थाप्या चान्तर्हिता धौतैः ॥ २  
 आगच्छ भगवन् देव अर्हयिष्यामि केशव ।  
 तुम्यं ददामि तुलसीं सर्वकामप्रदो भव ॥ ३  
 दद्याद् द्विवारमध्यं च पादं विष्ट्रमेव च ।  
 ततश्चाचमनीयं च त्रिरुक्त्वा च प्रदापयेत् ॥ ४  
 पयो दधि धृतं क्षौद्रं कांस्यपात्रपुटे धृतम् ।  
 मधुपर्कं गृहणं त्वं वासुदवं नमोऽस्तु ते ॥ ५  
 ततो ये स्वकुलाचाराः कर्तव्या विष्णुतुष्टये ।  
 हरिद्रालेपनाभ्यङ्गः कार्यः सर्वं विधाय च ॥ ६  
 गोधूलि समये पूज्यौ तुलसीकेशवौ पुनः ।  
 पृथक्पृथक्ततः कार्यौ संमुखं मङ्गलं पठेत् ॥ ७  
 इष्टदेशे भास्वरे तु संकल्पं तु समर्पयेत् ।  
 स्वगोत्रप्रवरानुकृत्वा तथा त्रिपुरुषादिकम् ॥ ८  
 अनादिमध्यनिधनं त्रैलोक्यप्रतिपालक ।  
 इमां गृहणं तुलसीं विवाहविधिनेश्वर ॥ ९  
 पार्वती बीजसंभूतां बृन्दाभस्मनि संस्थिताम् ।  
 अनादिमध्यनिधनां वल्लभां ते ददाम्यहम् ॥ १०  
 पयोधृतैश्च सेवाभिः कन्यावद्धर्थितां मया ।  
 त्वत्प्रियां तुलसीं तुम्यं दास्यामि त्वं गृहणं भोः ॥ ११  
 एवं दत्त्वा तु तुलसीं पश्चात्तौ पूजयेत्ततः ।  
 रात्रौ जागरणं कुर्यात् विवाहोत्सवपूर्वकम् ॥ १२

प्रतिवर्षमिदं कुर्यात् कार्तिकव्रतसिद्धये ।  
 ततः प्रभातसमये तुलसीं विष्णुमर्चयेत् ॥ १३  
 वहि संस्थापनं कृत्वा द्वादशाक्षरविद्यया ।  
 पायसाज्य क्षौद्रतिले: हुनेदष्टोत्तरं शतम् ॥ १४  
 ततः स्विष्टकृतं हुत्वा दध्यात्पूर्णाहुतिं ततः ।  
 आचार्यं च समन्बन्ध्यच्यं होमशेषं समापयेत् ॥ १५  
 चतुरो वार्षिकान्मासान् नियमं यस्य यत्कृतम् ।  
 कथयित्वा द्विजेभ्यस्तत् तथाऽन्यत्परिपूजयेत् ॥ १६  
 इदं व्रतं मया देव कृतं प्रीत्यै तव प्रभो ।  
 नूनं संपूर्णतां यातु त्वत्प्रसादात् जनार्दन ॥ १७  
 रेवतीतुर्यचरणे द्वादशीसंयुते नरः ।  
 न कुर्यात्पारणां कुर्वन् व्रतं निष्फलतां व्रजेत् ॥ १८  
 ततो येषां पदार्थानां वर्जनं तु कृतं भवेत् ।  
 चातुर्मास्येऽथवा तूर्जे ब्राह्मणेभ्यः समर्पयेत् ॥ १९  
 ततः सर्वं समश्रीयात् यद्युक्तं व्रते स्थितः ।  
 दंपतिभ्यां सहैवात्र भोक्तव्यं वा द्विजैः सह ॥ २०  
 ततो भुक्तोत्तरं यानि गलितानि दलानि च ।  
 तुलस्यास्तानि भुक्त्वा तु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २१  
 भोजनानन्तरं विष्णोरपि तं तुलसीदलम् ।  
 भक्षणात्पपनिर्मुक्तिः चान्द्रायण शताधिकम् ॥ २२  
 इक्षुखण्डं तथा धात्रीफलं पूरीफलं तथा ।  
 भुक्त्वा तु भोजनस्यान्ते तस्योच्छिष्टं विनश्यति ॥ २३

एषु त्रिषु न भुक्तं चेदैककमपि येन तु ।  
ज्ञेयं उच्छिष्ट आवर्ण नरोऽसौ नात्र संशयः ॥ २४  
ततः सायं पुनः पूज्यौ इक्षुवंशैश्च मण्डितौ ।  
तुलसीवासुदेवौ च कृतकृत्यो भवेत्ततः ॥ २५  
ततो विसर्जनं कुर्यात् दत्त्वा देयादिकं हरेः ।  
बैकुण्ठं गच्छ भगवन् तुलस्या सहितः प्रभो ॥ २६  
मत्कृतं पूजनं गृह्य सन्तुष्टो भव सर्वदा ।  
गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानं परमेश्वर ॥ २७  
यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छ जनार्दन ।  
एवं विसूज्य देवेशं आचार्यायि प्रदापयेत् ॥ २८  
मूर्त्यादिकं सर्वमेव कृतकृत्यो भवेन्नरः ।  
प्रतिवर्ण करोत्येवं तुलस्युद्घाहनं शुभम् ॥ २९  
इह लोके परत्रापि विपुलं सद्यशो भवेत् ।  
प्रतिवर्ण तु यः कुर्यात् तुलसीकरपीडनम् ।  
भक्तिमान् धनधान्यैश्च युक्तो भवति निश्चितम् ॥ ३०

— सनकुमारसंहितातः

— ★ —

### प्रदक्षिणनमस्कारविधिः

अन्यदगुह्यतमं किञ्चित्कथयामि तवाग्रतः ।  
प्रदक्षिणे फलं चैव नमस्कारे तथैव च ॥  
पञ्चाशन्दिभवेत् लक्ष्मीः शतैश्च विजयः स्मृतः ।  
लक्ष्मे तु सर्वसिद्धिः स्यात् नात्र कार्या विचारणा ॥

— भविष्यपुराणतः

## तुलसीमहिमा - ग्रहणादौ नियमश्च ।

प्रसीद मम देवेशि प्रसीद हरिवल्लभे ।  
 तुलसीमिति संप्रार्थ्य अर्चयेद्धरिमव्ययम् ॥ १  
 असात्वा तुलसी छित्वा देवार्चनं परायणः ।  
 तत्सर्वं निष्फलं चैव पञ्चगव्येन शुद्धचति ॥ २  
 पापानि यानि रविसूनुपटस्थितानि  
     गोब्रह्मबालपितृमातृवधादिकानि ।  
 नश्यन्ति तानि तुलसीवनदर्शनेन  
     गोकोटिदानसदृशं फलमापुवन्ति ॥ ३  
 तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च ।  
 वसन्ति वैष्णवा यत्र तत्र सन्निहितो हरिः ॥ ४  
 तुलसीमञ्जरी ग्राह्या तदभावे दलं स्मृतम् ।  
 दलाभावे तु पञ्चं स्यात्पत्राभावे तु काष्ठकम् ॥ ५  
 काष्ठाभावे तु मूलं स्यात् मूलाभावे तु मृत्तिका ।  
 मृत्तिकाया अभावे तु तुलसी शब्द इष्यते ॥ ६  
 पङ्कजं पञ्चरात्रं स्यात्सप्तरात्रं तु बिल्वकम् ।  
 तुलसी दशरात्रं स्यात्ततः पर्युषितं भवेत् ॥ ७  
 सङ्क्रान्तौ पक्षयोरन्ते द्वादश्यां निशि सन्ध्ययोः ।  
 चिन्वन्ति तुलसीं ये वै निकृपवन्ति हरेः शिरः ॥ ८  
 ग्रहणे च व्यतीपाते भौमभार्गवभानुषु ।  
 नाहरेत्तुलसीपत्रं न मध्याह्ने ततः परम् ॥ ९  
 मध्याह्नके परे यस्तु हरिपूजापरायणः ।  
 चिनोति यस्तु तुलसीं अधो गच्छति नान्यथा ॥ १०

निर्माल्यमपि वै ग्राह्यं तुलस्या हेमपुष्पवत्।  
 शङ्खोदकेन प्रक्षाल्य विष्णवे च निवेदयेत्॥ ११  
 तुलस्याः कोमलैः पत्रैः श्रीहरे: पादपङ्कजम्।  
 पूजनं ये प्रकुर्वन्ति कृतार्थाः स्युनं संशयः॥ १२  
 द्वादश्यां जागरे रात्रौ प्राशयेत्तुलसीदलम्।  
 द्वाविंशदपराधांश्च क्षमते हरिरव्ययः॥ १३  
 विष्णोविर्मानं यः कुर्यात्तुलस्याः कोमलैदलैः।  
 हंसयुक्तविमानेन विष्णुलोकं स गच्छति॥ १४  
 पक्षद्वये च संक्रान्तौ द्वादश्यां सूतकद्वये।  
 संग्रहो नैव कर्तव्यो निषिद्धदिवसेष्वपि॥ १५  
 त्यजेत्पर्युषितं पुष्पं त्यजेत्पर्युषितं जलम्।  
 न त्यजेत्तुलसीपत्रं न त्यजेज्ञाहवीजलम्॥ १६  
 पुष्कराद्यानि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा।  
 वासुदेवादयो देवा वसन्ति तुलसीवने॥ १७  
 तुलसीगन्धमाघाथ पितरस्तुष्टमानसाः।  
 प्रयान्ति गरुडारूढाः सहिताश्वकपाणिना॥ १८  
 रोपणात्पालनात्सेकादृदर्शनात्स्पर्शनानृणाम्।  
 तुलसी दहते पापं वाइमनः कायसञ्चितम्॥ १९  
 अमृतां सर्वकल्पाणीं शोकसन्तापनादिनीम्।  
 आधिव्याधिहरीं नृणां तुलसि त्वां नमाम्यहम्॥ २०  
 आम्रारोपसहस्राणि पिप्पलानि शतानि च।  
 तत्कलं सममेकेन तुलसी विटपेन च॥ २१

राजद्वारे सभामध्ये संग्रामे शत्रुपीडने ।  
 तुलसीस्मरणं कुर्यात् सर्वत्र विजयी भवेत् ॥ २२  
 कृष्णारम्भे तथा पुज्ये विवाहे चार्थसंग्रहे ।  
 सर्वकार्येषु सिद्धचर्थं प्रस्थाने तुलसीं स्मरेत् ॥ २३  
 यः स्मरेत्तुलसीं सीतां रामं सौमित्रिणा सह ।  
 विनिर्जित्य रिपून् सर्वान् पुनरायाति कार्यकृत् ॥ २४  
 स्वादन्मांसं पिबन्मध्यं संगच्छन्त्यजादिभिः ।  
 सद्यो भवति पूतात्मा कर्णयोस्तुलसीं धरन् ॥ २५  
 चतुष्कर्णे मुखे चैकं नाभावेकं तथैव च ।  
 शिरस्येकं तथा प्रोक्तं तीर्थं त्रयमुदाहृतम् ॥ २६  
 अन्नोपरि तथा पञ्च भोजनान्ते दलन्त्रयम् ।  
 एवं श्रीतुलसी ग्राह्या अष्टादशादला सदा ॥ २७  
 पूजनानन्तरं विष्णोः अर्पितं तुलसीदलम् ।  
 भक्षयेत् देहं शुद्धचर्थं चान्द्रायणशताधिकम् ॥ २८  
 नैवेद्यमन्नं तुलसीविमिश्रितं  
 विशेषतः पादजलेन विष्णोः ।  
 योऽश्राति नित्यं पुरतो मुरारे:  
 प्राप्नोति यज्ञायुत कोटिपुण्यम् ॥ २९  
 द्रव्यान्तरयुतं तैलं न दुष्येदग्रहणं विना ।  
 तुलसीदलसंयुक्तं ग्रहणेऽपि न दुष्यति ॥ ३०

### તુલસીસહસ્રનામાવલિઃ

ઓં તુલસૈ નમઃ । શ્રીપ્રદાયै । ભદ્રાયै । શ્રીવિષ્ણુપ્રિયકારિણૈ ।  
ક્ષીરવારિધિસંભૂતાયै । ભૂતાનામભયઙ્કર્યૈ । મહેશ્વરાદ્ધ્રવાયै । સિદ્ધયૈ ।  
સિદ્ધિદાયै । સિદ્ધપૂજિતાયै । સિદ્ધાન્તગમ્યાયै । સિદ્ધેશપ્રિયાયै ।  
સિદ્ધજનાર્થદાયै । નારદાનુગ્રહાયै । દેવૈ । ભક્તાભદ્રપ્રણાશિન્યૈ ।  
શ્યામજાયै । ચપલાયै । શ્યામાયै । શ્યામાંગયૈ નમઃ ॥ ૨૦

ઓં સર્વસુન્દર્યૈ નમઃ । કામદાયै । ચામુણ્ડાયै । તૈલોક્ય-  
વિજયપ્રદાયै । કૃષ્ણરોમાયै । કૃષ્ણવેણ્યૈ । બૃન્દાવન-વિલાસિન્યૈ ।  
હૃદ્ધચેયાયै । પઞ્ચમહિષ્યૈ । ઈશ્વર્યૈ । સરસ્વત્યૈ । કરાલવિક્રમાયै । કામાયै ।  
ગૌર્યૈ । કાલ્યૈ । શાંભવ્યૈ । નિત્યાયै । નિગમવેદ્યાયै । નિખિલાગમરૂપિણ્યૈ ।  
નિરંજનાયૈ નમઃ ॥ ૪૦

ઓં નિત્યસુખાયै નમઃ । ચન્દ્રવક્ત્રાયै । મત્યૈ । મદ્યૈ । ચન્દ્રહાસાયै ।  
ચન્દ્રલિસાયै । ચન્દનાક્ષસ્તનદ્વયાયै । વૈષ્ણવ્યૈ । વિષ્ણુવનિતાયै ।  
વિષ્ણવારાધનલાલસાયै । ઉમાયै । ચણ્ડાયै । બ્રહ્મવિદ્યાયै । મારમાત્રે ।  
વરદ્યુતયે । દ્વાદશીપૂજિતાયै । રમ્યાયै । દ્વાદશીસુપ્રિયાયै । રત્યૈ । ધૃત્યૈ  
નમઃ ॥ ૬૦

ઓં કૃત્યૈ નમઃ । નત્યૈ । શાન્ત્યૈ । શાન્તિદાયै । ત્રિફલાયै । શુચ્યે ।  
શુભાનુરાગાયै । હરિદ્રૂપાયૈ । શુભાવહાયै । શુભાયै । શુભાન-નાયै ।  
સુમુદ્રે । ભૂર્ભૂવઃ સ્વઃ સ્થવનિદત્તાયै । પંજિકાયै । કાશિકાયै । પંત્સયૈ ।  
મુત્ત્રાયै । મુક્તિપ્રદાયै । વરાયै । દિવ્યશાખાયै નમઃ ॥ ૮૦

ઓં ભવ્યરૂપાયै નમઃ । મીમાંસાયै । ભવ્યરૂપિણ્યૈ । દિવ્યવેણ્યૈ ।  
હરિદ્રૂપાયै । સૃષ્ટિદાયૈ । સ્થિતિપ્રદાયै । કાલ્યૈ । કરાલનેપદ્યાયै ।  
બ્રહ્મરૂપાયै । શિવાત્મિકાયै । પર્વમાનાયै । પૂર્ણતારાયै । રાકાયै ।  
રાકાસ્વવર્ણભાસે । સુવર્ણવેદૈ । સૌવર્ણરદ્ર-પીઠસમાશ્રિતાયै ।  
વિશાલાયै । નિષ્કલાયै । વૃષ્ટાયૈ નમઃ ॥ ૧૦૦

ओं वृक्षवेद्यायै नमः । पदात्मिकायै । विष्णुपादाश्रितायै । वेदै ।  
 विधिसूतायै । महालिकायै । सूतिकायै । सुहितायै । सूरि-गम्यायै ।  
 सूर्यप्रकाशिकायै । काशिन्यै । काशितनयायै । काशिराज-बरप्रदायै ।  
 क्षीराब्धिपूजाविरतायै । आद्यायै । क्षीरप्रियायै । अमृतायै । क्षीरकंण्ठै ।  
 सहस्राक्ष्यै । शोणायै नमः ॥ १२०

ओं भुजगपादुकायै नमः । उषसे । बुद्धायै । त्रियामायै ।  
 श्रीप्रदायै । तनवे । सरस्वतीङ्गायै । शर्वाण्यै । शर्वाणीशप्रियंकर्त्तै ।  
 आधलक्ष्म्यै । अन्त्यलक्ष्म्यै । सुगुणायै । निर्गुणायै । सत्यै ।  
 निर्वाणमार्गदायै । देव्यै । क्षीरिण्यै । हसिन्यै । क्षमायै नमः ॥ १४०

ओं क्षमावत्यै नमः । क्षमानाथायै । निर्विद्यायै । नीरजायै ।  
 विद्यकायै । क्षित्यै । ब्रह्माण्यै । रात्रिसूर्पायै । शाखायै । बालात्मिकायै ।  
 बलायै । भारत्यै । विशिखायै । पद्मायै । गरिम्णो । हंसगामिन्यै । गौर्यै ।  
 भूत्यै । विरक्तायै । भूधान्यै । भूतिदायै नमः ॥ १६०

ओं भृत्यै नमः । प्रभञ्जन्यै । सुपुष्टांश्यै । माहेन्द्रचै । जाल-  
 रूपिण्यै । पद्मार्चितायै । पद्मजेह्यायै । पथ्यायै । पद्माननायै । अमृतायै ।  
 पुण्यायै । पुण्यप्रदायै । वेद्यायै । लेख्यायै । वृक्षात्मिकायै । स्थिरायै ।  
 गोमत्यै । जाहव्यै । गम्यायै । गंगायै नमः ॥ १८०

ओं सप्तशिखात्मिकायै नमः । लक्षणायै । सर्ववेदार्थसंपत्त्यै ।  
 कल्पकायै । अरुणायै । कलिकायै । कुइमलाग्रायै । मायायै । अनन्तायै ।  
 विराधिकायै । अविद्यावासनानाम्यै (श्यै) । नागकन्यायै । कलाननायै ।  
 बीजालीनायै । मन्त्रफलायै । सर्वलक्षणलक्षितायै । वने स्ववृक्षरूपेण  
 रोपितायै । नाकिवन्दितायै । वनप्रियायै । वनचरायै नमः ॥ २००

ओं सद्वरायै नमः । पर्वलक्षणायै । मञ्जरीभिर्विराजन्त्यै ।  
 सुगन्धायै । सुमनोहरायै । सत्यै । आधारशास्त्रै । चिन्छत्त्यै ।  
 वीरशक्तिकायै । अग्रेष्यै तन्वै । पार्थिवायै तन्वै । आप्यायै तन्वै । वायव्यै  
 तन्वै । स्वरिन्यै तन्वै । नित्यायै । नियतकल्याणायै । शुद्धायै ।

शुद्धात्मिकायै । परायै । संसारतारिकायै नमः ॥ २२०

ओं भैम्ये नमः । क्षत्रियान्तकर्णै । क्षत्यै । सत्यगभर्यै ।  
सत्यरूपायै । सव्यासव्यपरायै । अन्द्रुतायै । सव्याधिन्यै । सर्वदात्र्यै ।  
सव्येशानप्रियायै । अंबिकायै । अश्वकणायै । सहस्रांशुप्रभायै ।  
कैवल्यतत्परायै । यज्ञार्थिन्यै । यज्ञदात्र्यै । यज्ञभोक्त्र्यै । दुरुद्धरायै ।  
परश्वधधरायै । राधायै नमः ॥ २४०

ओं रेणुकायै नमः । भौतिहारिण्यै । प्राच्यै । प्रतीच्यै । गरुडायै ।  
विष्वक्रसेनायै । धनंजयायै । कामाक्ष्यै । क्षीरकण्ठायै । कामदायै ।  
उद्दामकाण्डगायै । चामुण्डायै । लोकमात्रे । पार्वत्यै । परमान्द्रुतायै ।  
ब्रह्मविद्यायै । मन्त्रविद्यायै । मोक्षविद्यायै । महाचित्पै । कामुकायै नमः ॥

२६०

ओं कामदात्र्यै नमः । काम्यशक्तायै । दिवा । निशा । घटिकायै ।  
कलायै । काष्ठायै । मासरूपायै । शरद्धरायै । रुद्रात्मिकायै । रुद्रधात्र्यै ।  
रौद्रच्यै । रुद्रप्रभाधिकायै । करालवदनायै । दोषायै । निर्दोषायै । साकृत्यै ।  
परायै । तेजोमय्यै । वीर्यवत्यै नमः ॥ २८०

ओं वीर्यातीतायै नमः । परायणायै । शुरप्रबारिण्यै । अक्षुद्रायै ।  
शुरधारायै । सुमध्यमायै । औरुंबर्यै । तीर्थकर्णै । विकृतायै । अविकृतायै ।  
समायै । तोषिण्यै । तुकरेणवाच्यायै । सर्वार्थसिद्धिदायै । उदामचेष्टायै ।  
आकारवाच्यायै । सवर्णै । प्रभाकर्णै । लक्ष्मीरूपायै । लक्ष्मीरेणवाच्यायै  
नमः ॥ ३००

ओं नृणां लक्ष्मीप्रदायै नमः । शीतलायै । सीकारवाच्यायै ।  
सुखरूपिण्यै । गुकारवाच्यायै । श्रीरूपायै । श्रुतिरूपायै । सदाशिवायै ।  
भव्यायै । भवस्थितायै । भावाधारायै । भवहितङ्कर्णै । भवायै ।  
भावुकदात्र्यै । भवाभवविनाशिन्यै । भववन्द्यायै । भगवत्यै ।  
भगवद्वासरूपिण्यै । दाताभावं भूजनीलायै (दातृभावे पूजनीयायै) ।  
शान्त्यै नमः ॥ ३२०

ओं भागवत्यै नमः । प्रियायै । महादेव्यै । महेशानायै ।  
 महीपालायै । महेश्वर्यै । गहनादिस्थितायै । शत्त्यै । कमलायै ।  
 कलिनाशिन्यै । कालकेयप्रहर्त्यै । सकलाकलनक्षमायै । कलधौता-  
 कृत्यै । काल्प्यै । कालकालप्रवर्तिन्यै । कल्यग्रायै । सकलायै । भद्रायै ।  
 कालकालगलप्रियायै । मंगलायै नमः ॥ ३४०

ओं जृभिन्नयै नमः । जृभायै । भंजिन्यै । कर्णिकाकृतये । मन्त्रा-  
 राध्यायै । वारुण्यै । शारदायै । परिघायै । सरिते । वैनायक्यै । रत्नमालायै  
 शरभायै । वर्तिकाननायै । मैत्रेयायै । कामिन्यै । भैष्यै । धनुनराच-  
 धारिण्यै । कमनीयायै । रंभोरवे । रंभाराध्यपदायै नमः ॥ ३६०

ओं शुभातिथ्यायै नमः । पण्डितकायै । सदानन्दायै । प्रपञ्चिकायै ।  
 वाममङ्गस्वरूपायै । (....) । सद्घोजातायै । शाकभक्षायै । अदित्यै ।  
 देवतामर्यै । ब्रह्मण्यायै । ब्रह्मणागम्यायै । वेदवाचे । सुरेश्वर्यै । गायत्र्यै ।  
 व्याहृत्यै । पुष्टचै । ताटक्कद्यशोभिन्यै । मैरव्यै । चारुरूपायै नमः ॥ ३८०

ओं स्वर्णस्वच्छकपोलिकायै नमः । सुपर्ब(वर्ण)ज्यायै ।  
 युद्धशूरायै । चारुभोज्यायै । सुकामिन्यै । भूगुवासरसंपूज्यायै । भूगुपुत्र्यै ।  
 निरामयायै । त्रिवर्गदायै । त्रिसुखदायै । तृतीयसवन-प्रियायै ।  
 भाग्यप्रदायै । भाग्यरूपायै । भगवद्किदायिन्यै । स्वाहा । स्वधा ।  
 क्षुधारूपायै । स्तोत्राक्षरनिरूपिकायै । मार्यै । कुमार्यै नमः ॥ ४००

ओं मारारिभज्जन्यै नमः । इक्किरूपिण्यै । कमनीय-तरश्रोण्यै ।  
 रमणीयस्तन्यै । कृशायै । अचिन्त्यरूपायै । विश्वाक्ष्यै । विशालाक्ष्यै ।  
 विरूपाक्ष्यै । प्रियंकर्यै । विश्वस्यै । विश्वप्रदायै । विश्वभोक्त्र्यै ।  
 विश्वाधिकायै । शुचये । करवीरेश्वर्यै । क्षीरनायक्यै । विजयप्रदायै ।  
 उष्णिगे । त्रिषुभे नमः ॥ ४२०

ओं अनुष्टुभे नमः । जगत्यै । बृहत्यै । क्रियायै । क्रियावत्यै ।  
 वेत्रवत्यै । सुभगायै । धवलांबरायै । शुभ्रद्विजायै । भासुराक्ष्यै ।

दिव्यकंचुकभूषितायै । नूपुराद्वायै । झणझणच्छज्जानमणि-  
भूषितायै । शचीमध्यायै । बृहद्वाहुयुगायै । मन्थरगामिन्यै ।  
मन्दरोद्धरकरण्यै । प्रियकारिविनोदिन्यै । ब्राह्मै । सुधात्र्यै नमः ॥ ४४०

ओं ब्रह्माण्यै नमः । अपणायै । वारुण्यै । प्रभा(मा)यै । सौपण्यै ।  
शेषविनुतायै । गारुड्यै । गरुडासनायै । धनञ्जयायै । विजयायै । पिङ्गल्यै ।  
लीलाविनोदिन्यै । कौशांब्यै । कान्तिदात्र्यै । कुसुंभायै । लोकपावन्यै ।  
पिङ्गाक्ष्यै । पिङ्गरूपायै । पिङ्गावदनायै । वसवे नमः ॥ ४६०

ओं ऋग्यक्षायै नमः । त्रिशूलायै । धरण्यै । सिंहारूढायै । मृगेक्षणायै ।  
ईषणात्रयनिर्मुक्तायै । नित्यमुक्तायै । सर्वार्थदायै । शिववन्द्यायै । शांकर्यै ।  
हरेः पदसुवाहिकायै । हारिण्यै । हारकेयूरकनकांगदभूषणायै ।  
बाराणस्यै । दानशीलायै । शोभायै । अशेषकलाश्रयायै । वाराह्यै ।  
श्यामलायै । महासुन्दप्रपूजितायै नमः ॥ ४८०

ओं अणिमावत्यै नमः । त्रयीविद्यायै । महिमोपेतलक्षणायै ।  
गरिमायुतायै । सुभगायै । लघिमालक्षणैर्युतायै । जिल्लायै ।  
जिह्वाग्रस्म्यायै । श्रुतिभूषायै । मनोरमायै । रञ्जन्यै । रंगनित्यायै ।  
चाक्षुष्यै । श्रुतिकृद्वलायै । रामप्रियायै । श्रोत्रियायै । उपसर्गभृतायै ।  
भुज्यै । अरुन्धत्यै । शत्यै नमः ॥ ५००

ओं भामायै नमः । सर्ववन्द्यायै । विलक्षणायै । एकरूपायै ।  
अनन्तरूपायै । त्रयीरूपायै । समाकृत्यै । समासायै । तद्विताकारायै ।  
विभत्त्यै । व्यञ्जनात्मिकायै । स्वराकारायै । निराकारायै । गंभीरायै ।  
गेहनोपमायै । गुहायै । गुह्यायै । ज्योतिर्मर्य्यै । तन्त्र्यै । शक्यै नमः ॥  
५२०

ओं बलाबलायै नमः । सद्रूपायै । सूक्तिपरायै । श्रोतव्यायै ।  
वञ्जुलायै । अध्वरायै । विद्याधरीप्रियायै । सौर्यै । सूरिगम्यायै । सुरेश्वर्यै ।  
यन्त्रविद्यायै । प्रदात्र्यै । मोहितायै । श्रुतिगर्भिण्यै । व्यत्त्यै । विभावर्यै ।

जात्यै । हृदयग्रन्थिभेदिन्दै । दारिद्र्वचधंसिन्दै । काशायै नमः ॥ ५४०

ओं आतुकायै नमः । चण्डस्कपिण्डै । नवदुगायै । विशालाक्ष्यै ।  
विपश्यै । कुञ्जिकायै । जासायै । इडारूपायै । मृणाल्यै । दक्षिणायै ।  
पिङ्गलास्थितायै । दूतिन्दै । मौनिन्दै । मायायै । यामाताकर-संज्ञिकायै ।  
कृतान्ततादिन्दै । तारायै । ताराधिपनिभाननायै । रक्षोद्धै । विरूपाक्ष्यै  
नमः ॥ ५६०

ओं पूर्णिमायै नमः । अनुमत्यै । कुहै । अमावास्यायै ।  
सिनीवाहै । वैष्णवन्दै । लग्नलिकायै । क्षीराभ्युत्तमयायै । चन्द्रसौदर्यै ।  
असूतलैदिन्दै । उच्चैरुद्धर्माभिकायै । युच्यै । यमुनायै । रेवत्यै । ज्येष्ठायै ।  
जन्म(लौ)दर्शै । विश्वभूमायै । राष्ट्रसूदिन्दै । प्रबोधिन्दै । महाकन्यायै  
नमः ॥ ५८०

ओं वासुदेवायै नमः । भ्रूतिलायै । मिहिराभायै । तटिद्रूपायै । भूत्यै ।  
हिश्वदर्तीकरायै । कुरुक्षुर्दै । वालव्यै । दण्टायै । छायादेव्यै । भहेश्वर्यै ।  
कर्णार्दिन्दै । रामायै । कूदै । रसतुलायै । अष्टभैरव्यै । बिन्दुरूपायै ।  
कलारूपायै । नारद्वान्दै । कलात्मिकायै नमः ॥ ६००

ओं अजरानै नमः । कलायै । पुण्यायै । कृपात्वायै । चक्रवासिन्दै ।  
कुमार्यै । विन्दुरूपायै । कृत्याकृत्यै । इरिपादसमाश्रयायै । विसन्ध्यायै ।  
सद्गुरुर्दै । वैष्णवज्यै । विदित्यै । श्रितायै । अश्वत्थधारिण्यै । ईशानायै ।  
पद्मप्रसाद्यै । दर्शकिन्दै । श्राव्युषष्टल-मध्यस्थायै । पदातये नमः ॥  
६२०

ओं अस्तिप्रवन्द्यै नमः । हिरण्यवण्यै । हरिण्यै । लेखायै ।  
कोशात्मिकायै । तत्त्वायै । पदन्द्यै । पंक्तिविज्ञानायै । पुण्यर्पक्ति-  
विराजितायै । निक्षिंशायै । औठिकायै । सोमायै । पक्षिण्यै । किन्नरेश्वर्यै ।  
केतक्ष्यै । अश्रुमुजाकारायै । बल्लिकायै । अन्तर्बहिष्कृतायै । तपस्त्रिन्दै ।  
शनैष्कायै नमः ॥ ६४०

ओं गद्यपद्मात्मिकायै नमः । क्षरायै । तमः परायै । पुराणज्ञायै ।  
 जाङ्गवहन्त्रयै । प्रियंकर्यै । नारायण्यै । मूर्तिमर्यै । तत्पदायै ।  
 पुण्यलक्षणायै । कपालिन्यै । महादेव्यै । सर्वावासायै । सुन्दर्यै ।  
 ब्राह्मण्यै । ब्रह्मसंपत्त्यै । मातंग्यै । अमृताकरायै । जाग्रते । सुसायै नमः

二〇〇

ओं सुषुप्तायै नमः । मूर्छयै । स्वप्नप्रदायिन्यै । सारख्यायन्यै ।  
 महाज्वालयै । विकृत्यै । साप्रदायिकायै । लक्ष्यायै । सानुमत्यै । नीत्यै ।  
 दण्डनीत्यै । मधुप्रियायै । आरख्याधिकायै । आरख्यातवत्यै । मधुविदे ।  
 विधिबहूभायै । माध्यै । मधुमदास्वादायै । मधुरस्यायै । दबीयस्यै  
 नमः ॥ ६८०

ओं वैराज्यै नमः । विन्ध्यसंस्थानायै । काश्मीरतलवासिन्यै ।  
 शोभनिद्रायै । विनिद्रायै । द्वासुपर्णश्रुतिप्रियायै । मातृकायै ।  
 पञ्चसामेह्यायै । कल्पायै । कल्पनायै । कृत्यै । पञ्चस्तंभात्मिकायै ।  
 क्षीमवस्थायै । पञ्चाग्निमध्यगायै । आदिदेव्यै । आदिभूतायै । अश्वात्मने ।  
 रुद्यातिरंजितायै । उहामन्यै । संहितारुद्यायै नमः ॥ ७००

ओं पञ्चपक्षायै नमः । कलावत्यै । व्योमप्रियायै । केणुबन्धायै ।  
 दिव्यरत्नगलप्रभायै । नाडीहृदयायै । ज्ञानदृष्टिदृष्टायै । तच्छाजिन्यै । दृढायै ।  
 द्रुतायै (हुतायै) । पञ्चवत्यै । पञ्चग्रासायै । प्रणवसंयत्यै । त्रितिखायै ।  
 प्रमदारन्नाय (क्तायै) । सपञ्चास्त्यायै । प्रमादिन्यै । गीतज्ञेयायै ।  
 चञ्चलीकायै । सर्वान्तर्यामिरूपिष्ठै नमः ॥ ७२०

ओं समयायै नमः । सामवल्लभ्यायै । ज्योतिश्चक्रायै । प्रभाकर्यै ।  
 सप्तजिह्वायै । महाजिह्वायै । महादुग्धायै । महोत्सवायै । स्वरसायै ।  
 मानव्यै । पूणायै । इष्टिकायै । वरूथिन्यै । सर्वलोकानां निर्मात्र्यै ।  
 अव्ययायै । श्रीकरांबरायै । प्रजावत्यै । प्रजादक्षायै । शिक्षारूपायै ।  
 प्रजाकर्यै नमः ॥ ७४०

ओं सिद्धलक्ष्म्यै नमः । मोक्षलक्ष्म्यै । रञ्जनायै । निरञ्जनायै ।  
 स्वयंप्रकाशायै । मायै । आशास्यदात्र्यै । अविद्याविदारिण्यै । पद्मावत्यै ।  
 मातुलंगधारिण्यै । गदाधरायै । खेयात्रायै । पात्रसंविष्टायै ।  
 कुष्ठामयनिवर्तिन्यै । कृत्स्नं व्याप्य स्थितायै । सर्वप्रतीकायै ।  
 श्रवणक्षमायै । आयुष्यदायै । विमुक्त्यै । सायुज्यपदवीप्रदायै नमः ॥  
 ७६०

ओं सनत्कुमार्यै नमः । वैधात्र्यै । घृताच्यास्तु वरप्रदायै ।  
 श्रीसूक्संस्तुतायै । बाह्योषासनाश्र प्रकुर्वत्यै । जगत्सख्यै । सख्यदात्र्यै ।  
 कंबुकण्ठायै । महोर्मिण्यै । योगध्यानरतायै । विष्णुयोगिन्यै ।  
 विष्णुसंश्रितायै । निःश्रेयस्यै । निःश्रेयःप्रदायै । सर्वगुणाधिकायै ।  
 शोभाद्यायै । शांभव्यै । इंभुवन्द्यायै । बन्दारुबन्धुरायै ।  
 हरेर्गुणानुध्यायन्त्यै नमः ॥ ७८०

ओं हरिपादार्चने रतायै नमः । हरिदासोत्तमायै । साध्यै ।  
 हर्यधीनायै । सदाशुच्ये । हरिण्यै । हरिपद्यै । शुद्धसत्त्वायै । तमोतिगायै ।  
 शुनासीरपुराध्यायै । सुनासायै । त्रिपुरेश्वर्यै । धर्मदायै । कामदायै ।  
 अर्थदात्र्यै । मोक्षप्रदायिन्यै । विरजायै । तारिण्यै । लिङ्गभङ्गदात्र्यै ।  
 त्रिदशेश्वर्यै नमः ॥ ८००

ओं वासुदेवं दर्शयन्त्यै नमः । वासुदेवपदाश्रयायै । अम्लानायै ।  
 अवनसर्वज्ञायै । ईशायै । सावित्रिकप्रदायै । अवृद्धिहासविज्ञानायै ।  
 लोभत्यक्तसमीपगायै । देवेशमौलिसंबद्ध-पादपीठायै । तमो घृत्यै ।  
 ईशभोगाधिकरणायै । यज्ञेश्यै । यज्ञमानिन्यै । हर्यगगायै । वक्षःस्थायै ।  
 शिरःस्थायै । दक्षिणात्मिकायै । स्फुरच्छक्तिमय्यै । गीतायै । पुंविकारायै  
 नमः ॥ ८२०

ओं पुमाकृत्यै नमः । ईशावियोगिन्यै । पुंसा समायै ।  
 अतुलवपुर्धरायै । वटपत्रात्मिकायै । बाह्याकृत्यै । कीलालरूपिण्यै ।

तमोभिदे । मानवै । दुर्गायै । अल्पसुखार्थिभिरगम्यायै ।  
कराग्नारिनीकाशायै । करवारिसुपोषितायै । गोरुपायै ।  
गोष्ठमध्यस्थायै । गोपालप्रियकारिण्यै । जितेन्द्रियायै । विश्व-भोक्त्यै ।  
यन्त्र्यै । यानायै नमः ॥ ८४०

ओं चिकित्तिष्ठै नमः । पुण्यकीर्त्यै । चेतयित्यै ।  
मत्यापस्मारहारिण्यै । स्वर्गवर्त्मकर्त्यै । गाथायै । निरालंबायै ।  
गुणाकरायै । शशद्वूपायै । शूसेनायै । वृष्टचै । वृष्टिप्रवर्षिण्यै । प्रमदात्तायै ।  
अप्रमत्तायै । प्रमादद्वयै । प्रमोददायै । ब्राह्मण्यै । क्षत्रियायै । वैश्यायै ।  
शूद्रायै नमः ॥ ८६०

ओं जात्यै नमः । मसूरिकायै । वानप्रस्थायै । तीर्थरूपायै ।  
गृहस्थायै । ब्रह्मचारिण्यै । आत्मक्रीडायै । आत्मरत्यै । आत्मवत्यै ।  
असितेक्षणायै । अनीहायै । मौनिन्यै । हानिशून्यायै । काश्मीर-  
वासिन्यै । अव्यथायै । विजयायै । राइयै । मृणालतुलितांशुकायै ।  
गुहाशयायै । धीरमत्यै नमः ॥ ८८०

ओं अनाथायै नमः । अनाथरक्षिण्यै । यूपात्मिकायै । वेदिरूपायै ।  
सुगूपायै । सुवर्णपिण्यै । ज्ञानोपदेशिन्यै । पट्टसूत्रांकायै ।  
ज्ञानमुद्रिकायै । विधिवेद्यायै । मन्त्रवेद्यायै । अर्थवादप्ररोचितायै ।  
क्रियारूपायै । मन्त्ररूपायै । दक्षिणायै । ब्राह्मणात्मिकायै । अन्नेशायै ।  
अन्नदायै । अन्नोपासिन्यै । परमान्नभुजे नमः ॥ ९००

ओं समायै नमः । सभावत्यै । सम्यायै । सम्यानां जीवनप्रदायै ।  
लिप्सायै । बडबायै । अश्वत्थायै । जिज्ञासायै । विषयात्मिकायै ।  
स्वररूपायै । वर्णरूपायै । दीघर्यै । हस्तायै । स्वरात्मिकायै ।  
धर्मरूपायै । धर्मपुण्यायै । आद्यायै । ईशान्यै । शार्ङ्गिवलभायै । चलन्त्यै  
नमः ॥ ९२०

ओं छत्रिण्यै नमः । इच्छायै । जगन्नाथायै । अजरायै । अमरायै ।  
झषांकसुप्रियायै । रम्यायै । रत्यै । रतिसुखप्रदायै । नवाक्षरात्मिकायै ।

कादिसर्ववर्णात्मिकायै । लिप्यै । रद्धाकुंकुम-फालाद्वायै ।  
हरिद्राश्चितपादुकायै । दिव्याङ्गरागायै । दिव्याङ्गायै ।  
सुवर्णलतिकोपमायै । सुदेव्यै । वामदेव्यै । सप्तद्वीपात्मिकायै नमः ॥  
९४०

ओं भूत्यै नमः । गजशुण्डाद्वयभृतसुवर्णकलशप्रियायै ।  
तपनीयप्रभायै । लिकुचायै । लिकुचस्तन्यै । कान्तारसुप्रियायै । कान्तायै ।  
अरातिव्रातान्तदायिन्यै । पुराणायै । कीटकाभासायै । बिंबोष्ठचै ।  
पुण्यचर्मिण्यै । ओंकारधोषरूपायै । नवमीतिथि-पूजितायै ।  
क्षीराभिकन्यकायै । बन्यायै । पुण्डरीकनिभांबरायै । वैकुण्ठरूपिण्यै ।  
हरिपादाब्जसेविन्यै । कैलासपूजितायै नमः ॥ ९६०

ओं कामरूपायै नमः । हिरण्मयै । कण्ठसूत्रस्थितायै ।  
सौमज्जल्यप्रदायिन्यै । काम्यमानायै । उपेन्द्रदूत्यै । श्रीकृष्णतुलस्यै ।  
घृणायै । श्रीरामतुलस्यै । मित्रायै । आलोलविलासिन्यै । सर्वतीर्थयै ।  
आत्ममूलायै । देवतामयमध्यगायै । सर्ववेदमयाग्रायै । श्रीमोक्ष-  
तुलस्यै । दृढायै । शिवजाङ्घापहन्त्यै । शैवसिद्धान्तकाशिन्यै ।  
काकासुरस्यार्तिहन्त्यै नमः ॥ ९८०

ओं महिषासुरमर्दिन्यै नमः । पीयूषपाण्यै । पीयूषायै । कामं  
वादिविनोदिन्यै । कमनीयश्रोणितटायै । तटिन्निभवरद्युत्यै । भाग्यलक्ष्म्यै ।  
मोक्षदात्र्यै । तुलसीतरूपिण्यै । बृन्दावन शिरोरोहत्पादद्वयसु-  
शोभितायै । सर्वत्रव्याप्ततुलस्यै । कामधुक्तुलस्यै । मोक्षतुलस्यै ।  
भव्यतुलस्यै । सदा संसृतितारिण्यै । भवपाशा-विनाशिन्यै ।  
मोक्षसाधनदायिन्यै । स्वदलैःपरमात्मनः पदद्वन्द्वं शोभयित्र्यै ।  
रागबन्धादसंसर्करजोभिः कृतदूतिकायै । भगवच्छब्दसंसेव्यपाद  
सर्वार्थदायिन्यै नमः ॥ १०००

नमो नमो नमस्तस्यै सदा तस्यै नमो नमः ॥

— ★ —

नासाग्रं पीनगण्डं परबलमथनं बद्धकेयूरहारं  
रौद्रं दंष्ट्राकरालं अमितगुणगणं कोटिसूर्याग्निनेत्रम् ।  
गाम्भीर्यं पिङ्गलक्षं भ्रुकुटित विमुखं षोडशाधर्घवाहुं  
वन्दे भीमाइहासं त्रिभुवनविजयः पातु मां नारसिंहः ॥ ६

के के नृसिंहाष्टके नरवरसदृशं देवभीत्वं गृहीत्वा  
देवन्धो विप्रदं दं प्रतिवचनपयायाम्युनप्रत्यनैषीः ।  
शापं चापं च खड्गं प्रहसितवदनं चक्र चक्रीचकेन  
अंमित्ये दैत्यनादं प्रकचविविदुषा पातु मां नारसिंहः ॥ ७

झं झं झं झं झकारं झष झष झषितं जानुदेशं झकारं  
हुं हुं हुं हुं हकारं हरितकहहसा यं दिशो वं वकारं  
वं वं वं वकारं वदनदलिततं वामपक्षं सुपक्षं  
लं लं लं लकारं लधुवण विजयः पातु मां नारसिंहः ॥ ४

भूत प्रेतपिशाचयक्षगणशः देशान्तदुच्चाटनात्  
चोरव्याधिमहज्वरं भयहरं शतृक्षरं निश्चयम् ।  
सन्ध्याकालजपन्तमष्टकमिदं सन्ध्यकितभोवादिभिः  
प्रह्लादेव वरे वरस्तु जयिता सत्पूजिताम्भोधये ॥ ९

॥ इति श्री विजयीन्द्र तीर्थ विरचितः श्री नृसिंह स्तुतिः ॥

## **SRI THULASI POOJA**

Contains :— Thulasi Upakhyana, Namavali,  
Poojavidhi, Strotras etc.,

Compiled by :-

Vaidya **S.V. Radhakrishna Sastri**  
22, Veerewaram Approach Road,  
Srirangam-620 006.  
Phone : 0431-2432564.

Published by :-

**SRI MAHAPERIYAVAL TRUST**  
Gurukrupa, 94, I.T.I. Layout, M.S.R.T  
Bangalore - 560 054

Copies available at :-

1. **Smt. P. VIJAYA**  
No. 7, Ganapathi Street,  
St. Thomas Nagar,  
Madipakkam,Chennai-600 091.  
Phone : 044-2242 26 22
2. **BHAGAVANNAMA PUBLICATIONS**  
2/3, Vinayakam Street,  
Westmambalam,  
Chennai-600 033.  
Phone : 044-2489 3736

---

Lasetypeset & Printed at :  
**V.K.N. Enterprises**  
164, R.H. Road, Mylapore, Chennai-4  
Cell : 98402-17036, 24950775